



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 44] नई दिल्ली, शनिवार, अक्टूबर 29, 1988 (कार्तिक 7, 1910)

No. 44] NEW DELHI, SATURDAY, OCTOBER 29, 1988 (KARTIKA 7, 1910)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके ।
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि से संबंधित अधिसूचनाएं

(Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Officers issued by the Ministry of Defence)

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 29 अक्टूबर 1988

सं० दिनांक 28 सितम्बर, 1988—राष्ट्रपति श्री ए० के० व्यवहारे को 3000-100-3500-125-4500 रु० के वेतनमान में 25 जून, 1988 (पूर्वाह्न) से रक्षा राज्य मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के रूप में रक्षा राज्य मंत्री श्री (चितामणि पाणिग्रही) के अपने पद पर बनी रहने तक, या अगला आदेश होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति करते हैं ।

सं० दिनांक 30 सितम्बर, 1988—अधिवर्षिता की भायु प्राप्त करने पर राष्ट्रपति केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अधिकारी श्री के० के० सुन्दरमूर्ति, अवर सचिव को सरकारी सेवा से 30 सितम्बर, 1988 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं ।

1—304 GI/88

(1535)

सं० दिनांक 05 अक्टूबर, 1988—रक्षा मंत्रालय में रक्षा मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव श्री टी० एन० भट्ट का 03 अक्टूबर, 1988 को स्वर्गवास हो गया है ।

जी० बी० बडवडिगि, अवर सचिव

रक्षा अनुभाग तथा विकास संगठन

सं० 1667 दिनांक 27 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

रक्षा अनुसंधान तथा विकास एकक, कलकत्ता के श्री बी० घोष, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-6-88 (पूर्वाह्न) से इसी एकक में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर ।

नीसेना भीतिक तथा रभुद्र विज्ञान प्रयोगशाला, कोचीन के श्री सी० के० जोसफ कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी की तारीख 30-6-88 (पूर्वाह्न) से इसी प्रयोगशाला में स्थानापन्न वैज्ञानिक 'बी' के पद पर।

रक्षा विज्ञान केन्द्र, दिल्ली के श्री देवराज बजाज कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-6-88 (पूर्वाह्न) से इसी केन्द्र में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना पुणे के श्री एम० क्यू० मुरारकर, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-6-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

आयुध अनुसंधान तथा विकास स्थापना, पुणे के श्री पी० बी० बागड़े, कनिष्ठ वैज्ञानिक अधिकारी को तारीख 29-6-88 (पूर्वाह्न) से इसी स्थापना में स्थानापन्न वैज्ञानिक "बी" के पद पर।

नरसिंह दास, सहायक निदेशक (कार्मिक)

थल सेना मुख्यालय
(ए० जी० शाखा)

सं० 1668, दिनांक 3-10-88—सशस्त्र सेना मुख्यालय सिविल सेवा के श्री प्रेम लाल, सहायक सिविलियन स्टाफ अधिकारी निवर्तन आयु को प्राप्त होने पर 30-9-88 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत्त तथा 1-10-88 (पूर्वाह्न) से पेंशन स्थापना से स्थानांतरित।

के० पी० थोमस, उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सेना शाखा
(क्यू एम जी शाखा)

सं० 1669, दिनांक 21-9-88—सशस्त्र सेना मुख्यालय के सिविल सेवा नियम 1968 के नियम संख्या 10(2) के अन्तर्गत निम्नलिखित सिविलियन स्टाफ अधिकारी को दिनांक 17 अगस्त 88 से 4 फरवरी 89 या जब तक संबंधित अधिकारी सेवा मुक्त होते हैं या नियमित पदधारी उपलब्ध होने हैं इसमें ले जो पहले ही, चयन श्रेणी अधिकारी के रूप में नियुक्त करने की सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त हुआ है :

1. श्री जसीराम
2. श्री केवल राम
3. श्री स्वर्ण कुमार पाल
4. श्री विजय चौधरी

2. ये नियुक्तियां पूर्ण रूप से तदर्थ आधार पर किए गए हैं और इन्हें प्रशासनिक कारणों या नियमित पदधारियों

के उपलब्धी के फलस्वरूप बिना नोटिस दिए रह किया जा सकता है।

के० पी० थोमस,
उप मुख्य प्रशासन अधिकारी

सेना विभाग

(सैनिक अभियन्ता सेवायें)

सं० 1670, दिनांक 28-9-88—राष्ट्रपति निम्नलिखित सहायक अधिशासी अभियन्ताओं को उनके नाम के सामने दी गई तिथियों से अगले आदेश तक अधिशासी अभियन्ताओं के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(ए) एम ई एस/448323 श्री धीरेन्द्र कुमार त्यागी
अस्थायी सहायक अधिशासी अभियन्ता—08 जुलाई 88 (पूर्वाह्न)

(बी) एम ई एस/300197 श्री इन्दु भूषण दूगल,
अस्थायी सहायक अधिशासी अभियन्ता—18 जून 88 (पूर्वाह्न)

(सी) एम ई एस/428144 श्री अशोक कुमार सिंह,
अस्थायी सहायक अधिशासी अभियन्ता 10 जून 88 (पूर्वाह्न)

सेना विभाग

(सैनिक अभियन्ता सेवायें)

सं० 1671, दिनांक 26-9-88—राष्ट्रपति एम० ई० एस/300008 श्री द्वारका नाथ शर्मा, स्थायी सहायक अधिशासी अभियन्ता अस्थायी अधीक्षक अभियन्ता को 24 जून 86 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक कनिष्ठ प्रशासन ग्रेड लेवल के नोन-फंक्शनल सिलैक्शन ग्रेड सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सेना विभाग

(सैनिक अभियन्ता सेवायें)

सं० 1672, दिनांक 26-9-88—राष्ट्रपति, एम० ई० एस० 210006 श्री अमर लाल खुराना, स्थायी सहायक सर्वेक्षक सर्कम, अस्थायी सर्वेक्षक सर्कम को 28 जून 1988 (पूर्वाह्न) से अगले आदेश तक अधीक्षक सर्वेक्षक सर्कम के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

सेना विभाग

(सैनिक अभियन्ता सेवायें)

सं० 1673, दिनांक 28-9-88—राष्ट्रपति, एम ई एस/400376 श्री कैलाश चन्द्र अग्रवाल, स्थायी सहायक वास्तुकार को 11 मार्च 85 (पूर्वाह्न) से 31 दिसम्बर 85 तक तदर्थ आधर पर जब तक पद स्थायी रूप से भरे जायें,

जो भी पहले हो, के लिए वास्तुकार के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

आर० आर० कौशल, अवर सचिव

सेना विभाग

(सैनिक अभियंता सेवाएं)

सं० 1674, दिनांक 23-9-88—निम्नलिखित अधिकारी, उनके नाम के सामने लिखी हुई तिथि से सेवा निवृत्त हुए :—

एम०ई०एस०/103001 }
श्री जी० बी० नायक } 31 दिसम्बर 87 (अपरान्ह)
सी० ई० (स्थाई)

एम ई एस/137001 }
श्री पी० श्रीनिवासा शारयुल }
सुपरिन्टेन्डेंट वी/आर ग्रेड 1 (स्थाई) } 31 अगस्त 88
एस० ई० (अस्थाई) (नौन-फकमानल } (अपरान्ह)
सिलेक्शन ग्रेड के कनिष्ठ प्रशासन
एंड लेबल में)

एम०ई०एस० 300020 }
श्री पादपूडि वेंकटेश्वर राव } 30 सितम्बर 88
ए०ई०ई० (स्थाई) } (ए०एन०)
एस०ई० (अस्थाई)

सेना विभाग

(सैनिक अभियंता सेवाएं)

सं० 1675, दिनांक 21-9-88—निम्नलिखित अधि-
कारी, उनके नाम के सामने लिखी हुई तिथि से स्वैच्छिक
सेवा निवृत्त हुए—

एम० ई० एस/155074 }
श्री पी० एम० पाठक } 14 फरवरी 88 (अपरान्ह)
ए०एस० डब्ल्यू

आर० के० सिंगला, अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं० 1676, दिनांक 21-9-88—राष्ट्रपति सहर्ष यथा-
व्योहित थल सेना अनुदेश 74/76 के अधीन निम्नलिखित
नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमिशन

कैप्टन (सर्जन लेफ्टि) के पद पर (परख पर)

एम सूर्यानारायण मूर्ति, एम०बी०बी०एस० (एम०आर०-
05290-एन) 75367-एस) सैनिक डाक्टर कोर—25
अक्टूबर 1985।

नियमित सेना

कैप्टन के पद पर परख पर

पवन कुमार, एम०बी०बी०एस० (एम०आर०-05586-
एल), सैनिक डाक्टर कोर, 8 अप्रैल 1987, वेतन तथा
पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 8 अक्टूबर 1984 से मानी
जाएगी [इसमें एम एस (प्राथमालमालोजी) के लिए दी गई
2 साल, और अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की
पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी
परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी]।

प्रशान्त कुमार दास, एम०बी०बी० एस०/एम०आर०-
05433-(एफ), सैनिक डाक्टर कोर 5 सितम्बर, 1986
वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 5 मार्च 1984
मानी जाएगी [इसमें एम डी (ग्रांस और ग्योमाकोलोजी)
के लिए दी गई 2 साल और अस्पताल नियुक्ति के लिए
दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवा निवृत्ति
के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी
जाएगी]।

मदन मोहन सिंह एम०बी०बी०एस० (एम आर-050-
78-गि), सैनिक डाक्टर कोर, 21 सितम्बर 1984 वेतन
तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 21 मार्च 1982 से मानी
जाएगी [इसमें एम०एस०(ई एन टी) के लिए दी गई 2
साल तथा अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की
पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी
जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी]।

(लेफ्टि० के पद परख पर)

राजकुमार सूद, एम०बी०बी०एस०/एम आर-05692 के)
सैनिक डाक्टर कोर, 11 फरवरी 1987 और सैद्धान्तिक
रूप से स्वीकार्य नोशनल वरिष्ठता 30 दिसम्बर 1986 से
मानी जाएगी जिसका वेतन तथा भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं
पड़ेगा।

मोहम्मद समसुद्दीन अहमद, एम०बी० बी०एस० एम
आर-05642-वाई) सैनिक डाक्टर कोर—5 जनवरी
1987।

लेफ्टि० (फ्लाईंग ग्राफिसर) के पद पर परख पर)

रजत ब्रैजल, एम०बी०बी०एस० (एम० आर०-05330-
एच) (18191) सैनिक डाक्टर कोर, 26 दिसम्बर 1985

विजय किशोर तिवारी, मेजर जनरल, उपमहानिदेशक

सेना शाखा

सं० 1677, दिनांक 28-9-88—राष्ट्रपति निम्नलिखित
की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग (2) लिफ्टेनैन्ट—14 जून 86 से)

समरेन्द्र मोहन कुमार (आई०सी०-43653-पी) मेक इन्फैन्ट्री, रविन्द्र सिंह कटारिया (आई० सी०-43654-एक्स) मेक इन्फैन्ट्री, के० विनोद कुमार (आई० सी०-43655-ए) सिगनल, पाल वीपक नायडू (आई०सी०-43657-एल) इंजीनियर, हरि सिंह (आई० सी०-43658-एच) इंजीनियर, सुधीर कुमार (आई०सी०-43659-डब्ल्यू) ई०एम०ई०, जय बम्बर (आई०सी०-43660-एल) ए०सी०, रविन्द्रन पिल्लय बी० (आई०सी०-43661-एन) ई०एम०ई०, सजीव मुंज (आई०सी०-43662-डब्ल्यू ए०सी०, निरुत विवेदी (आई० सी०-43663-वाई) मेक इन्फैन्ट्री, अशोक कुमार सोनी (आई० सी०-43664-एफ) इंजीनियर, सुहील सिंह (आई० सी०-43665-के) ए० सी०, बलबीर सिंह (आई० सी०-43666-एम) ए०सी०, कर्णधीर सिंह बरार (आई० सी०-43667-पी) ए०सी०, सुनील कुमार एन०बी० (आई०सी०-43668-एक्स) इन्फैन्ट्री, शिव पाल सिंह (आई०सी०-43669-ए) इन्फैन्ट्री, अमरजोत सिंह (आई०सी०-43670-पी) ए०सी०, श्री ऋषिकुमार ठिकारा (आई०सी०-43671-एक्स) इन्फैन्ट्री, सुधान्शु वर्मा (आई०सी०-43672-ए) ए०ओ०सी०, गुरुजाप सिंह (आई०सी०-43673-एच) इन्फैन्ट्री, तेजवीर सिंह (आई० सी०-43674-एल) आर्टी, समेर आर० घागा (आई०सी०-43675-एन) सिगनल, राजेन्द्र सिंह (आई०सी०-43676-डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, कमल गरोवर (आई०सी०-43677-वाई) आर्टी, हरेन्द्र पाल सूद (आई०सी०-43678-एफ) आर्टी, ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह सिसोधिया (आई० सी०-43679-के) इन्फैन्ट्री, राकेश कपूर (आई०सी०-43680-वाई) आर्टी, अरविन्द बर्माकर (आई०सी०-43681-एफ) इन्फैन्ट्री, अनिल कुमार सामन्ता (आई०सी०-43682-के) इन्फैन्ट्री, निरन्जन कुमार (आई०सी०-43683-एम) आर्टी, जगदीश बी० चौधरी (आई०सी०-43684-पी) इन्फैन्ट्री, भूपेन्द्र सिंह (आई०सी०-43685-एक्स) इन्फैन्ट्री, सजीव राय (आई०सी०-43686-ए) इन्फैन्ट्री, विवेक शर्मा (आई०सी०-43687-एच) इन्फैन्ट्री, कल्याण सिंह (आई०सी०-43688-एल) इन्फैन्ट्री, परमदीप सिंह बाजवा (आई०सी०-43689-एम) इन्फैन्ट्री, हरवीप सिंह धौडी (आई०सी०-43690-एच) ए०सी०, बोप वी० बी० (आई०सी०-43691-एन) ए०एस० सी०, सुशील राणा (आई०सी०-43692-एन) मेक इन्फैन्ट्री, विन्दर सिंह (आई० सी०-43693-डब्ल्यू) ए०सी०, संजीत चौधरी, (आई० सी०-43694-वाई) इन्फैन्ट्री, आकाश शरथ तागार्स (आई० सी०-43695-एफ) इंजीनियर, सरबजीत सिंह (आई० सी०-43696-के) ए०ओ०सी०, देव बहादुर खतरी (आई० सी०-43697-एम) इन्फैन्ट्री, षयलेन्द्र सिंह (आई०सी०-43698-पी) आर्टी, गुरविन्दर पाल सिंह (आई० सी०-43699-एक्स) आर्टी, अनिल कुमार एस० पवार (आई० सी०-43700-एफ) इन्फैन्ट्री, मदनशील शर्मा (आई०सी०-43701-के) आर्टी,

पतञ्जले राहुल (आई०सी०-43702-एम) आर्टी, रजत कुमार माथुर (आई०सी०-43703-पी) आर्टी, सयब क्यामर अहमद (आई० सी०-43704-एक्स) आर्टी, बलराज शर्मा (आई०सी०-43705-ए) इन्फैन्ट्री, रजनीश कुमार शर्मा (आई०सी०-43706-एक्स) सिगनल, अशोक कुमार मजूमदार (आई० सी०-43707-एल) आर्टी, पृथ्वीराज पटनायक (आई०सी०-43708-एन) इन्फैन्ट्री, बलविन्दर सिंह सन्धू (आई०सी०-43709-डब्ल्यू) इंजीनियर, तरुण कुमार आयच (आई०सी०-43710-एल) इन्फैन्ट्री, दीपक मलहोत्रा (आई० सी०-43711-एन) सिगनल अजय बसन्त कुमार सीबल (आई०सी०-43712-डब्ल्यू) इंजीनियर, राहुल मलहोत्रा (आई०सी०-43713-वाई) इन्फैन्ट्री, जोस एम० जोर्ज (आई०सी०-43714-एफ) आर्टी, प्रदीप कुमार सिंह (आई०सी०-43715-के) इन्फैन्ट्री, राजवन्त सिंह (आई० सी०-43716-एम) आर्टी, मकुन्द शर्मा (आई०सी०-43717-पी) इंजीनियर, देवेन्द्र सिंह यादव (आई०सी०-43718-एक्स) इन्फैन्ट्री, सुरेश सिंह उवास (आई०सी०-43719-ए) इन्फैन्ट्री, देवेन्द्र कुमार सिंह (आई०सी०-43722-ए) इन्फैन्ट्री, हेमन्त कुमार पन्त (आई०सी०-43723-एच) ए०एस०सी०, सन्वीप कुमार चुग (आई०सी०-43724-एल) आर्टी, मनोज कुमार काटियार (आई०सी०-43725-एन) इन्फैन्ट्री, समरजीत (आई०सी०-43726-डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, बहादुर सिंह (आई० सी०-43727-वाई) ए० ओ०सी०, रविन्द्र बी० विरादर (आई०सी०-43728-एफ) इंजीनियर, राजीव सक्सेना (आई० सी०-43729-के) इन्फैन्ट्री, सन्वीप पाण्डे (आई०सी०-43731-एफ) इन्फैन्ट्री, विक्रम सिंह (आई०सी०-43732-के), आर्टी, अविनाश ए० पोल (आई०सी०-43733-एम) इन्फैन्ट्री, योगेश सहगल (आई०सी०-43734-ए), इंजीनियर, जोगेश चन्द्र तालुकदार (आई०सी०-43735-एक्स), आर्टी, विनेश कुमार नयन (आई०सी०-43736-ए) आर्टी, राजीव थापर (आई०सी०-43737-एच) इन्फैन्ट्री, एस० पार्थासारथी (आई०सी०-43738-एल) सिगनल, राहुल श्रीवास्तवा (आई०सी०-43739-एन) इन्फैन्ट्री, धीरज चण्डोला (आई० सी०-43740-एच) सिगनल, योगेश आर्य (आई०सी०-43741-एल) ई०एम०ई०, नरेश राणा (आई०सी०-43742-एन) इन्फैन्ट्री, रति रमण सिंह (आई०सी०-43743-डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, भवानी वस जोशी (आई०सी०-43744-वाई) इंजीनियर, अदोश कुमार (आई०सी०-43746-के) आर्टी, सजीव ठिल्लों (आई०सी०-43747-एम) ए०सी०, यशमेर सिंह रिष्ठी (आई०सी०-43748-पी) मेक इन्फैन्ट्री एम० एस० ताट्ट (आई०सी०-43749-एक्स) ए०एम०सी०, गुरुपाल सिंह शिक (आई०सी०-43750-एम) इन्फैन्ट्री, विक्रमजीत सिंह श्रीजला (आई०सी०-43751-पी) इन्फैन्ट्री, आर० राजीव (आई०सी०-43752-एक्स) सिगनल, सुमेर चन्द्र उपरेती (आई०सी०-43753-ए) आर्टी, रमेश सिंह यादव (आई०सी०-43754-एच) इन्फैन्ट्री, अस्वनी सी०बी०

सिंह (आई०सी०-43755-एल) इंजीनियर, मैथु भाकौ
 (आई०सी०-43757-डबल्यू) आर्टी, थोमस एम० सी०
 (आई०सी०-43758-वाई) इन्फैन्ट्री, स्वानन्द बी० केसर
 (आई०सी०-43759-एफ) मैक इन्फैन्ट्री, गुरेन्द्र सिंह (आई०
 सी०-43760-डबल्यू) इंजीनियर, मिर्चन भारती (आई०
 सी०-43762-एफ) इन्फैन्ट्री, शास्त्री प्रसाद त्रिपाठी (आई०
 सी०-43763-के) आर्टी, शक्तिश्रुता वॉस (आई०सी०-
 43764-एम) आर्टी, नरेन्द्र सिंह (आई०सी०-43765-पी)
 इन्फैन्ट्री, अणुतोष काले (आई०सी०-43766-एरर) इन्फैन्ट्री,
 मुकेश कुमार रस्तोगी (आई०सी०-43768-एच) इन्फैन्ट्री,
 सुनिल कुमार सहाराण (आई०सी०-43769-एल) आर्टी,
 शशी भूषण (आई०सी०-43770-ए) इन्फैन्ट्री, एस० मोहन
 (आई०सी०-43771-एच) आर्टी, ओमेन्द्र सिंह (आई० सी०-
 43772-एल) इन्फैन्ट्री, नरेश कुमार (आई०सी०-43773-एन)
 ए० एस०सी०, प्रशान्त कुमार माथुर (आई० सी०-43775-
 वाई) सिगनल, अनिल कुमार रोहिला (आई०सी०-43776-एफ)
 इन्फैन्ट्री, प्रशान्त पी० शायक (आई०सी०-43777-के) आर्टी,
 अजय कायला (आई०सी०-43778-एम) ई०एम०ई०, बल्लो क
 जैन (आई०सी०-43779-पी) आर्टी, दिग्विजय (आई०
 सी०-43780-के) इन्फैन्ट्री, रविन्द्र सिंह मुधर (आई०सी०-
 43781-एम) इन्फैन्ट्री, राजेन्द्र प्रकाश शर्मा (आई०सी०-
 43782-पी) इन्फैन्ट्री, कुलवीर सिंह सरावत (आई०सी०-
 43783-एक्स) इन्फैन्ट्री, दिग्विजय सिंह (आई० सी०-
 43784-ए) इन्फैन्ट्री, अरवदेश कुमार कायला (आई०सी०-
 43785-एच) सिगनल, रायस आलम खां (आई०सी०-
 43786-एल) ए०सी०, पी० विजयनन्दनारथनन (आई०
 सी०-43787-एन) इंजीनियर, संदीप जटली (आई०सी०-
 43788-डबल्यू) ए० ओ०सी०, विवेक मुथाप्पा (आई०सी०-
 43789-वाई) इन्फैन्ट्री, संजय सिंगल (आई०सी०-43790
 डबल्यू) आर्टी, एम० उदयना रेडी (आई०सी०-43791-
 डबल्यू) सिगनल, एम० सत्यनारायण रेडी (आई०सी०-
 43792-वाई) आर्टी, जितेन्द्र कुमार चौरसिया (आई०सी०-
 43793-एफ) इन्फैन्ट्री, संजय नन्द (आई०सी०-43794-के)
 इन्फैन्ट्री, ए० मुरुगेसन (आई०सी०-43795-एम) इन्फैन्ट्री,
 सुनिल कुमार वी०एस० (आई०सी०-43797-के) आर्टी
 बलविन्दर सिंह मेवी (आई०सी०-43798-ए) ए० ओ०सी०,
 विपिन कुमार पट्टपाटिया (आई०सी०-43799-एच) इन्फैन्ट्री,
 रामबाली सिंह (आई०सी०-43802-एक्स इन्फैन्ट्री) एस०
 सतीश प्रभू (आई०सी०-43803-ए) आर्टी, अतुल कोचर
 (आई०सी०-43805-एल) इन्फैन्ट्री राजीव रंजन (आई०
 सी०-43806-एन) आर्टी, जयदेव के० (आई०सी०-43807-
 डबल्यू) सिगनल, मोहन बीर सिंह (आई०सी०-43808-
 वाई) ए० सी०, महावीर सिंह (आई०सी०-43809-एफ)
 इन्फैन्ट्री, वसुधीश शर्मा (आई०सी०-43810-डबल्यू) आर्टी,
 निशान दत्त (आई०सी०-43811-वाई) इन्फैन्ट्री, प्रतीपाल
 तलवार (आई०सी०-43812-एफ) आर्टी, भीमराज के०
 भार्तिसग (आई०सी०-43813-के) इन्फैन्ट्री, बी० मसूबापी

(आई०सी०-43814-एम) इंजीनियर, चीनमाया शर्मा,
 (आई०सी०-43815-पी) ए०ओ०सी०, कुलवीर सिंह कट -
 रिया (आई०सी०-43816-एक्स) ए०एस०सी० तिनदजी
 रेलकर (आई०सी०-43877-ए) सिगनल, राम नायक
 पाण्डे (आई०सी०-43818-एच) आर्टी, अरुन्ता प्रगथी
 कुमार (आई०सी०-43819-एल) इन्फैन्ट्री, गोपीरंजुी
 श्रीनिवासा रेड्डी (आई०सी०-43820-ए) इन्फैन्ट्री, नवरूप
 सिंह मंगल (आई०सी०-43821-एच) ए०एस०सी०, निकुरी
 रोज़ खाबू (आई०सी०-43822-एल) इन्फैन्ट्री, हरजीत सिंह
 आलोख (आई०सी०-43824-डबल्यू) ए०एस०सी०, सरीश
 कुमार एम० श्रीधरन (आई०सी०-43825-वाई) इंजीनियर,
 आर० अनिल कुमार (आई०सी०-43826-एफ) आर्टी,
 एस० संकर नारायण (आई०सी०-43827-के) इंजी-
 नीयर, अशोक कुमार (आई०सी०-43828-एम) इन्फैन्ट्री
 रविन्दर सिंह हुडा (आई०सी०-43829-पी) इन्फैन्ट्री, बप्पी
 सबास्तेन (आई०सी०-43830-के) इन्फैन्ट्री, विवेक
 नारायण डिलखाकर (आई०सी०-43831-एम) सिगनल,
 मुखजीत सिंह (आई०सी०-43832-पी) मैक इन्फैन्ट्री,
 सांभित्रा कुमार काहली (आई०सी०-43833-एक्स) आर्टी,
 आनन्द कुमार (आई०सी०-43834-ए) आर्टी, इन्द्रजीत
 घटर्जी (आई०सी०-43835-एच) इन्फैन्ट्री, राजेन्द्र कुमार
 (आई०सी०-43837-एन) सिगनल, राजन पास्ती (आई०
 सी०-43838-एन) ए०एस०सी०, अनुराग शर्मा (आई०
 सी०-43839-वाई) आर्टी, राजेन्द्र बी० पाटिल (आई०
 सी०-43840-एन) ए०ओ०सी०, गोत्तम के० एन० (आई०
 सी०-43841-डबल्यू) इन्फैन्ट्री अदीश यादव (आई०सी०-
 43843-एफ) इन्फैन्ट्री, बलजीत सिंह नाहल (आई०सी०-
 43844-के) आर्टी, संजीव सिंह (आई०सी०-43845-
 एम) इन्फैन्ट्री, अरुण कुमार (आई०सी०-43846-पी)
 इन्फैन्ट्री, प्रदीप जाडेजा (आई०सी०-43847-एक्स) इंजी-
 नियर, चन्द्र शेखरमिश्रा (आई०सी०-43848-ए) इन्फैन्ट्री,
 विरेन्द्र सिंह (आई०सी०-43851-ए) ए०सी०, विजय
 कुमार आर० (आई०सी०-43852-एच) इन्फैन्ट्री, गुरजीत
 सिंह (आई०सी०-43853-एल) इन्फैन्ट्री, आलोक दत्त
 संदीना (आई०सी०-43854-एन) ई०एम०ई०, संदीप जी
 सरपोतदार (आई०सी०-43855-डबल्यू) मैक इन्फैन्ट्री, गनेना
 शेखरन (आई०सी०-43856-वाई) आर्टी, मंजीत कुमार
 (आई०सी०-43858-के) सिगनल, हरबिरेन्द्र सिंह गिल
 (आई०सी०-43859-एम) ए०एस०सी०, मधुकर भीमराज-
 कदम (आई०सी०-43860-एफ) इन्फैन्ट्री, प्रवीन कुमार
 गंवाणी (आई०सी०-43861-के) आर्टी, अजय आहुजा
 (आई०सी०-43862-एम) इंजीनियर, संजय पंत (आई०
 सी०-43863-पी) आर्टी, पन्तापाल्की मधुसूदन राव (आई०
 सी०-43864-एक्स) आर्टी, संजय पाण्डेय (आई० सी०-
 43865-ए) इन्फैन्ट्री, रविकान्त कौशल (आई०सी०-43866-
 एच) आर्टी, अरवूत एम गाडे (आई०सी०-43867-एल)
 सिगनल, बिस्वाजीत दास (आई० सी०-43868-एन)

इन्फैन्ट्री, सुभाषचन्द्र शर्मा (आई०सी०-43870-एल) सिगनल, संग्रामा केशरी जीना (आई०सी०-43871-एन) इन्फैन्ट्री, प्रदीप भाटिया (आई०सी०-43872-डबल्यू इन्फैन्ट्री, मन्डुवा रूपा पवना कुमार (आई०सी०-43873-वाई) आर्टी, विजय मेहता आई०सी०-43875-के) इन्फैन्ट्री, राजेन्द्र विधान (आई०सी०-43877-पी) इन्फैन्ट्री, उत्तकल्ल सुन्वरम् (आई०सी०-43878-एक्स) इन्फैन्ट्री, सुख रामपाल अहलावत (आई०सी०-43879-ए) आर्टी, सुनील चतुर्वेदी (आई०सी०-43880-पी) ए०एस०सी०, सुरेश चन्द्र गुप्ता आई०सी०-43881-एक्स) आर्टी, सुपरिओ भट्टाचार्य (आई०सी०-43882-ए) इन्जीनियर, शरीश शर्मा (आई०सी०-43883-एच) ए०एस०सी०, नवल किशोर सिंह आई०सी०-43885-एन) इन्फैन्ट्री, एस० अन्मू तेरी (आई०सी०-43887-वाई) ए०एस०सी० अनिल कुमार जी कमोजी (आई०सी०-43888-एफ) इन्जीनियर, अजीत कुमार सक्सेना (आई०सी०-43889-के) इन्फैन्ट्री, कवलजीत सिंह उत्पल (आई०सी०-43890-वाई) ए० ओ०सी०, पवन महरोतरा (आई०सी०-43891-के) इन्फैन्ट्री, वीरेश वहादुर (आई०सी०-43894-पी) इन्फैन्ट्री, विजयकुमार नायर वी०एस० (आई०सी०-43895-एक्स) आर्टी, सिंगू पाल सिंह संगेर आई०सी०-43896-ए) सिगनल, संदीप सूद आई०सी०-43897-एच) इन्फैन्ट्री, रूपेन्द्र सिंह हंस (आई०सी०-43898-एल) ई०एम०ई०, हरि मोहन महेश्वरी (आई०सी०-43899-एन) इन्फैन्ट्री, अजय सिंह राठीड (आई०सी०-43900-एक्स) इन्जीनियर, श्रीलाल एस०के० (आई०सी०-43901-ए) आर्टी, सतेश कुमार (आई०सी०-43902-एच) आर्टी, फलगुनी मुखर्जी (आई०सी०-43903-एल) इन्फैन्ट्री, अरबधेन्द्र प्रताप सिंह (आई०सी०-43904-एन) इन्फैन्ट्री, राजेश कुमार शर्मा आई०सी०-43906-वाई) आर्टी, कीर्ती कुमार शर्मा (आई०सी०-43907-एफ) सिगनल, एस०पी० विश्वनाथ आई०सी०-43908-के) ए०ओ०सी०, असीम जोशी (आई०सी०-43910-एफ) इन्फैन्ट्री शरद टन्डन (आई०सी०-43912-एम) ए०एस०सी० शिवा प्रसाद के० भरमाक्षेत्र आई०सी०-43913-पी) इन्जीनियर, अरविन्द कुमार पात्रा (आई०सी०-43915-ए) आर्टी, राजेन्द्र कुमार तलवार (आई०सी०-43916-एच) ए०ओ०सी०, राजीव मण्डल (आई०सी०-43918-एन) इन्फैन्ट्री, भूपसिंह (आई०सी०-43919-डबल्यू-इन्फैन्ट्री, विनेश श्रीवास्तव आई०सी०-43920-एल) आर्टी, तपस कुमार राज (आई०सी०-43921-एन) इन्फैन्ट्री, शाहबुल इस्लाम (आई०सी०-43922-डबल्यू इन्फैन्ट्री, राजीव कपूर (आई०सी०-43923-वाई) इन्फैन्ट्री) राजीव कुमार सिंह (आई०सी०-43924-एफ) इन्फैन्ट्री, अमरजीत सिंह गिल (आई०सी०-43926-एम) ए०एस०सी०, रमेश कुमार आई०सी०-43927-पी) इन्फैन्ट्री राजेश सक्सेना (आई०सी०-43929-एन) मँक इन्फैन्ट्री जयम सिंह आई०सी०-43930-पी) ए०एस०सी० वीरेन्द्र

सिंह (आई०सी०-43931-एक्स) इन्फैन्ट्री, भूपल, कुमार (आई०सी०-439-32ए) आर्टी, अरुण पाण्डेय (आई०सी०-43935-एन) इन्फैन्ट्री, काशीगान्दी बन्कटा लक्ष्मी प्रसाद (आई०सी०-43936-डबल्यू) आर्टी, सुगाथन वी० के० आई०सी०-43937-वाई) इन्फैन्ट्री श्रीराम बी हर्लेकर (आई०सी०-43939-के) इन्जीनियर, दिपक अग्रवाल (आई०सी०-43940-वाई) आर्टी, राजेन्द्र सिंह लोचम (आई०सी०-43941-एफ) ए०एस०सी०, संजय खतरो (आई०सी०-43943-एम) इन्फैन्ट्री, शान्तनू घोष (आई०सी०-43952-एम) इन्फैन्ट्री, इन्द्रजीत सिंह (आई०सी०-43953-डबल्यू) मेक इन्फैन्ट्री, सतीश कुमार सांगवान (आई०सी०-43954-वाई) इन्फैन्ट्री, संदीप शंकरा (आई०सी०-43956-के) इन्फैन्ट्री, विक्रम सिंह (आई०सी०-43958-पी) इन्फैन्ट्री, सुरेन्द्र विक्रम सिंह (आई०सी०-43959-एक्स) इन्फैन्ट्री, प्रभू मकरन्द वसन्त (आई०सी०-43960-एम) आर्टी, कोचू कोषयापानिकर एन० के० आई०सी०-43962-एक्स) इन्फैन्ट्री, शाजी जैकोब (आई०सी०-43963-ए) ए० ओ० सी०, पियूष अग्निहोत्री (आई०सी०-43964-एच) इन्जीनियर, विजयपाल सिंह आई०सी०-43965-एल) इन्फैन्ट्री, संजय कपूर (आई०सी०-43966-एन) इन्जीनियर, राकेश जुमेजा आई०सी०-43969-एफ सिगनल, राजमायक सिंह (आई०सी०-43970-डबल्यू) ए०सी०, राजीव शर्मा (आई०सी०-43971-वाई) इन्फैन्ट्री, अरुण सिधवाणी (आई०सी०-43972-एफ) ए० ओ०सी०, मकेश कुमार तुल्ली (आई०सी०-43973-के) इन्फैन्ट्री, सन्दीप महरोत्रा (आई०सी०-43975-पी) आर्टी, सुधीर कुमार सिन्हा (आई०सी०-43976-एक्स) आर्टी, अरुण कृष्णनकुट्टी (आई०सी०-43977-ए) इन्फैन्ट्री, अजीत नारायण तिवारी (आई०सी०-43978-एच) आर्टी, सुदर्शन सिंह आई०सी०-43979-एल) इन्फैन्ट्री, अजीत कुमार (आई०सी०-43980-ए) इन्फैन्ट्री, प्रताप सिंह (आई०सी०-43985-वाई) मँक इन्फैन्ट्री, सपन कुमार सामन्ता (आई०सी०-43986-एफ) सिगनल, रमण वर्मा (आई०सी०-43987-के) इन्फैन्ट्री, प्रदीप कुमार बालिया (आई०सी०-43988-एम) इन्फैन्ट्री, युद्धवीर सिंह जामवाल (आई०सी०-43989-पी) ए०एस०सी०, तिलक कुमार बैनर्जी (आई०सी०-43990-के) इन्जीनियर, विरूपाक्षपा सी नीलगल (आई०सी०-43992-पी) ए०एस०सी०, वन्तुरू रवि कुमार (आई०सी०-43993-एक्स) ए०एस०सी० ।

सैकन्ड लैफ्टिनेन्ट के पद पर

राजीव मनोचा (आई०सी०-43265-एक्स) ए०एस० ई०, निदेषिता अलोक धनस (आई०सी०-43264-पी) आर्टिलरी, राजीव खोसला (आई०सी०-43295-पी) इन्फैन्ट्री निदेषिता अरुण कुमार पाण्डे (आई०सी०-43294-एम) इन्फैन्ट्री नरेश कुमार (आई०सी०-43308-एफ) इन्जीनियर ज्येष्ठ अनिल कुमार (आई०सी०-43309-के)

ए०एस०सी०, सुनील कोटनाला (आई०सी०-43319-एन) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, निरक्षर भौमिक (आई०सी०-43318-एल) ए सी, पी वी कृष्णन (आई०सी०-43362-पी) आर्टिलरी निदिष्टता पोलश चौधरी (आई०सी०-43361-एम) इन्फैन्ट्री, विनोद कुमार (आई० सी०-43367-एन) आर्टिलरी निदिष्टता, अमरजीत सिंह परमार, (आई०सी०-43366-एल) इन्फैन्ट्री, संजीव दत्त (आई०सी०-43376-पी) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, कामबले रामचन्द्रा माफती (आई० सी०-43375-एम) आर्टिलरी, अजीत सिंह (आई०सी०-43399-डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता, कुलबीर सिंह (आई० सी०-43398-एन) इन्फैन्ट्री, चवाली श्रीविवासा राव (आई० सी०-43409-पी) आर्टिलरी ज्येष्ठता, दीपक डे (आई०-43410-के) इन्फैन्ट्री, तारा पती राणा (आई० सी०-43414-ए) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, अशुतोष बड़ियाल (आई०सी०-43413-एक्स) इन्फैन्ट्री, यशपाल काजला (आई०सी०-43427-एक्स) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, अतोप चाहर (आई०सी०-43426-ए) इन्फैन्ट्री, जोतिषा मान गुरंग (आई०सी०-43433-एल) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता, सतीश प्रकाश सिंह (आई०सी०-43434-एन) इन्जिनियर, भुवन चन्द्र राय (आई०सी०-43446-एच) ए०ओ०सी० ज्येष्ठता, अतरे हेमन्त अरविन्द (आई०सी०-43447-एल) सिगनल, इन्द्रदीप सिंह वैन्स (आई०सी०-43448-एन) ए० एस०सी० ज्येष्ठता, रवीन्द्र सिंह गिल (आई०सी०-43449-डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, जोकिम एन्थोनी (आई०सी०-43478-एल) ए०एस०सी० निदिष्टता, कमल चन्द्रा कालीता (आई०सी०-43477-एच) आर्टिलरी, मनीष प्रसाद टंडन (आई०सी०-43482-एन) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, संजय घोवर (आई०सी०-43481-एल) आर्टिलरी, हरप्रीत सिंह आनंद (आई०सी०-43485-एफ) सिगनल ज्येष्ठता, कुलदीप सिंह ठाकुर (आई०सी०-43486-के) इन्फैन्ट्री, पंकज गौड़ (आई०सी०-43493-ए) इन्फैन्ट्री, अमित हाजना (आई०सी०-43494-एच) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, हरमिन्दर पाल, सिंह (आई०सी०-43492-एक्स) इन्फैन्ट्री, सुखविन्द सिंह राठी (आई०सी०-43503-वाई) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, ए० जरोम एलकजेंडर (आई०सी०-43502-डब्ल्यू) ए०ओ०सी०, महीन्द्र सिंह (आई०सी०-43510-पी) आर्टिलरी निदिष्टता, जोगिन्द्र सिंह (आई०सी०-43509-ए) आर्टिलरी, संजीव कुमार साहनी (आई०सी०-43512-एफ) आर्टिलरी निदिष्टता, राजेश पानटा (आई०सी०-43511-एक्स) इन्फैन्ट्री, राजिन्द्र कुमार क्षीर (आई०सी०-43515-एन) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, राम सरन हुडा (आई०सी०-43514-एल) इंजीनियर अरुण साहा (आई०सी०-43530-एच) इंजिनियर निदिष्टता, पंकज कौरीक (आई०सी०-43529-एन) आर्टिलरी, अरविन्दर सिंह (आई०सी०-43532-एन) ए० ओ० सी निदिष्टता, तरकश्वर राय (आई०सी०-43531-एल) सिगनल, अलोक कृष्णाकर (आई०सी०-43550-डब्ल्यू) सिगनल निदिष्टता, दीपीन्द्र सिंह लोचम (आई०सी०-43549-एफ) आर्टिलरी, राकेश रघुबन्शी (आई०सी०-

43556-एक्स) ए०एस०सी० निदिष्टता, समेर सिंह सेंगर (आई०सी०-433535-पी) आर्टिलरी, अरविन्द कोहसी (आई०सी०-43564-डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, संजय बहल (आई०सी०-43563-एन) इन्फैन्ट्री, निर्दोष कुमार संगरा (आई०सी०-43568-एन) एओ०सी० निदिष्टता, बलविन्द सिंह वाजवा (आई०सी०-43567-के) आर्टिलरी, अरविन्द सिंह (आई०सी०-43577-एन) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, अभय स्वारूप (आई०सी०-43576-एल) सिगनल, रमण पाल सिंह, मनकोटिया (आई०सी०-43581-डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, संजीव सुदन (आई०सी०-43580-एन) इन्फैन्ट्री, विक्रम सिंह (आई०सी०-43596-वाई) आर्टिलरी निदिष्टता, के०एन० श्रीकुमार (आई०सी०-43595-डब्ल्यू) ए० सी०, जसवन्त सिंह रन्धावा (आई०सी०-43598-के) मैक इन्फैन्ट्री निदिष्टता, अनिल अहुजा (आई०सी०-43597-एफ) आर्टिलरी, निर्मल विक्रम सिंह रियार (आई०सी०-43605-पी) इन्फैन्ट्री निदिष्टता, अमृत पाल सिंह (आई०सी०-43604-एम) इन्फैन्ट्री, जिनके नाम भारत के राजपत्र तिथि 16-07-88 में दिये गये थे।

एस०सी० जोशी, ली० कर्नल, ए एम एस

सेना शाखा

सं० 1678 दिनांक 3 अक्टूबर, 1988,—राष्ट्रपति, निम्नलिखित को सहर्षे नियुक्तियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

(संक्षिप्त लेफ्टिनेन्ट के पद पर 20 दिसम्बर, 1986 से)

अरुण रावत (आई० सी०-44036 वाई) मैक इन्फैन्ट्री, संजय डोगरा (आई० सी०-44037 एफ) इन्फैन्ट्री, एच० धर्मराजन (आई० सी०-44038 के) इंजीनियर, संजीव जोशी (आई० सी०-44039 एम) आर्टी, राजेन्द्र सिंह रावत (आई० सी०-44040 एफ) इन्फैन्ट्री, मनियल इन्द्राबालन (आई० सी०-44041 के) इंजीनियर, अभिशेख राज बाजपेई (आई० सी०-44042 एम) मैक इन्फैन्ट्री, प्रियाम मोहन भारद्वाज (आई० सी०-44043 पी) इन्जीनियर, धीरज सेठ (आई० सी०-44044 एक्स) ए० सी०, एस० के० प्रसाद (आई० सी०-44045 ए) इन्जीनियर, जगजीत सिंह नन्वा (आई० सी०-44046 एच) इन्फैन्ट्री, गजेन्द्र त्रिपाठी (आई० सी०-44047 एल) इन्फैन्ट्री, प्रशान्त एस० जयस्वाल (आई० सी०-44048 एन) इन्जीनियर, रूपक शकुमोला (आई० सी०-44049 डब्ल्यू) ए० सी०, मेला राम गौतम (आई० सी०-44050 एल) ए० सी०, धर्मवीर सिंह (आई० सी०-44051 एन) मैक इन्फैन्ट्री, राकेश कुमार सिंह (आई० सी०-44052 डब्ल्यू) इन्जीनियर, मोहनवास पी० (आई० सी०-44053 वाई) आर्टी, विवेकानन्द चौधरी (आई० सी०-44054 एल) इन्जीनियर, विनोद मोहन

चन्द्रम (आई० सी०-44055 के) ए० सी०; रणधीर सिंह
बादम (आई० सी०-44056 एम) ई० एम० ई०, राजीव
मनकोटिमा (आई० सी०-44057 पी) इन्फैन्ट्री, सुब्रत कुमार
दास (आई० सी०-44058 एक्स) आर्टी, निखलेश भालचन्द्र
परवकर (आई० सी०-44059 ए) इन्फैन्ट्री, अमील योसम
(आई० सी०-44060 पी) आर्टी, तरणधीर सिंह चह्वा
(आई० सी०-44061 एक्स) सिगनल, अजय वर्मा (आई०
सी०-44062 ए) इन्फैन्ट्री, शैल प्ररोडा (आई० सी०-
44063 एच) इन्फैन्ट्री, भरविन्द कुमार अग्रवाल (आई०
सी०-44064 एल) आर्टी, मनजिन्द सिंह (आई० सी०-
44065 एन) इन्फैन्ट्री, कुमार सनतान (आई० सी०-
44066 डब्ल्यू) ए० सी०, अशीश नाथ झा (आई० सी०-
44067 वाई) इन्फैन्ट्री, बी० दीना बयालन (आई० सी०-
44068 एफ) ए० एस० सी०, सत्यपाल मलिक (आई०
सी०-44070 वाई) ए० ओ० सी०, राजेन्द्र नेगी (आई०
सी०-44071 एफ) ई० एम० ई०, कपिल भारद्वाज
(आई० सी०-44072 के) आर्टी, राजेश प्रकाश (आई०
सी०-44073 एम) ई० एम० ई०, संजीत सिंह बक्शी
(आई० सी०-44074 पी) आर्टी, शक्ति सिंह शर्मा (आई०
सी०-44075 एक्स) इन्फैन्ट्री, अनिल बी० सिन्धगी (आई०
सी०-44076 ए) इन्फैन्ट्री, परमेन्द्र सिंह सन्धु (आई० सी०-
44077 एच) इन्फैन्ट्री, बी० एम० बाबू (आई० सी०-
44078 एल) इन्फैन्ट्री, मानस रंजन चौधरी (आई० सी०-
44079 एन) इन्फैन्ट्री, रमेश कुमार सिंह (आई० सी०-
44080 एच) इन्फैन्ट्री, प्रमोद रावत (आई० सी०-44081-
एल) ई० एम० ई०, संजय पुरी (आई० सी०-44083-
डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, रवि देवन (आई० सी०-44084 वाई)
आर्टी, अतुल केसल (आई० सी०-44085 एफ) ए० सी०,
रोहित अहरोतरा (आई० सी०-44086 के) सिगनल,
सुवीप भट्टाचार्यजी (आई० सी०-44087 एम) आर्टी,
राजवंत सिंह (आई० सी०-44088 पी) इन्फैन्ट्री, मोनेश
गुलाटी (आई० सी०-44089 एक्स) आर्टी, विनय धीसन
(आई० सी०-44090 एम) आर्टी, दीपक काजला (आई०
सी०-44091 पी) इन्फैन्ट्री, गोसाम देव (आई० सी०-
44092 एक्स) आर्टी, गुरवर्धन सिंह गेरवाल (आई० सी०-
44094 एच) ई० एम० ई०, अनिल कुमार कशीव (आई०
सी०-44095 एल) आर्टी, आकाश पोपली (आई० सी०-
44096 एन) ई० एम० ई०, हरजीत सिंह (आई० सी०-
44097 डब्ल्यू) सिगनल, नीरज वाशंनय (आई० सी०-
44099 एफ) ई० एम० ई०, विनय मोहन (आई० सी०-
44100 एल) इन्फैन्ट्री, नीरज कुमार केशव (आई० सी०-
44101 एन) ई० एम० ई०, गणपत सिंह मेरोटिया (आई०
सी०-44102 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, राजीव सिंगले (आई०
सी०-44103 वाई) सिगनल, के० मनोहरन (आई० सी०-
44104 एफ) इन्फैन्ट्री, पंकज दिक्शीत (आई० सी०-
44105 के) सिगनल, इन्द्रकार नितिन राय (आई० सी०-
44106 एम) इन्फैन्ट्री, संजीव एस० राठौड़ (आई० सी०-

44108 एक्स) ई० एम० ई०; कृपाल सिंह (आई० सी०-
44111 एक्स) आर्टी, विवेक आचारी (आई० सी०-44112 ए)
आर्टी, अशीश सोनल (आई० सी०-44114 एल)
इन्फैन्ट्री, कुन्दन जाल अजूरिया (आई० सी०-44116
डब्ल्यू) ए० ओ० सी०, मंजीत सिंह (आई० सी०-44118
एफ) इन्फैन्ट्री, रजनिश अखौरी (आई० सी०-44119 के)
इन्फैन्ट्री, सतपाल सिंह बहिया (आई० सी०-44120 वाई)
इन्फैन्ट्री, विजय, कुमार नारायण सावन्त (आई० सी०-
44121 एफ) इन्फैन्ट्री, समीर खरे (आई० सी०-44122
के) आर्टी, लक्षमन सिंह (आई० सी०-44123 एम)
इन्फैन्ट्री, बरिजेन्द्र सिंह (आई० सी०-44124 पी) इन्फैन्ट्री,
राजनीर सिंह (आई० सी०-44125 एक्स) आर्टी, रविन्द्र
सिंह भाट्टी (आई० सी०-44126 ए) मैक० इन्फैन्ट्री,
जे० नन्दा कुमार (आई० सी०-44127 एच) ए० सी०,
अरुण नायर (आई० सी०-44128 एल) इन्फैन्ट्री, शशी कान्त
असवाल (आई० सी०-44131 एल) ई० एम० ई०,
सुरेश चन्द्र (आई० सी०-44132 एन) ए० ओ० सी०,
सन्जीव रिया (आई० सी०-44133 डब्ल्यू) सिगनल,
एन० ए० प्रवीण (आई० सी०-44134 वाई) आर्टी,
स्वराज आर० राय (आई० सी०-44135 एफ) इन्फैन्ट्री,
रवि धीमड़ी (आई० सी०-44136 के) इन्फैन्ट्री, विवेक मट्ट
(आई० सी०-44137 एम) सिगनल, अजय नरेश्वरणी
आई० सी०-44138 पी) इन्फैन्ट्री, सबीर अशी सिद्दीकी
(आई० सी०-44140 एम) ई० एम० ई०, गिरीश कुमार
शर्मा (आई० सी०-44141 पी) इन्फैन्ट्री, सुधीर कुमार
बी० मेहता (आई० सी०-44142 एक्स) आर्टी, पवन बजाज
(आई० सी०-44146 एन) आर्टी, जितेन्द्र सिंह (आई०
सी०-44147 डब्ल्यू) सिगनल, सन्दीप सप्रवाल (आई० सी०-
44148 वाई) ई० एम० ई०, राजीव कुमार सिंह (आई०
सी०-44149 एफ) ए० ओ० सी०, नीतिन कुमार जोशी
(आई० सी०-44150 डब्ल्यू) आर्टी, सुधीर फिलिपोस
(आई० सी०-44151 वाई) ए० एस० सी०, राजेन्द्र सिंह
वालिया (आई० सी०-44152 एफ) अद्वितीय मोहन मदन
(आई० सी०-44153 के) इन्फैन्ट्री, एम रमेश (आई०
सी०-44155 पी) इन्फैन्ट्री, विहार सिंह खोखावत (आई०
सी०-44156 एक्स) इन्फैन्ट्री, अमीश कुमार (आई० सी०-
44157 ए) मैक इन्फैन्ट्री, अब्दुल रजाक खावर (आई०
सी०-44158 एच) आर्टी, ईन्द्रानील बिस्वास (आई० सी०-
44159 एल) इन्फैन्ट्री, विवेक मट्टा (आई० सी०-44160
एन) ए० ओ० सी०, शेरी पीटर (आई० सी०-44162
एल) इन्फैन्ट्री, मनोज मनोहर टिपनिस (आई० सी०-
44163 एन) इन्जीनियर, गुरबिरेन्द्र सिंह शहीव (आई०
सी०-44164 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, राजीव मनमोहन सिंह
(आई० सी०-44165 वाई) इन्फैन्ट्री, विवेक नायथानी
(आई० सी०-44166 एफ) इन्फैन्ट्री, नरेन्द्र पाल सिंह
(आई० सी०-44167 के) इन्फैन्ट्री, अमोक कुमार अचिकारी
(आई० सी०-44168 एम) आर्टी, अश्वरीश मल्होत्रा

(आई० सी०-44171 एम) ए० एस० सी०, विनोद कुमार राय (आई० सी०-44172 पी) इन्फैन्ट्री, मंदीप घूलयानी (आई० सी०-44174 ए) आर्टी, निमायी सुनिल मोरेश्वर (आई० सी०-44175 एच) इन्फैन्ट्री, विक्रम गोविन्द पाण्डे (आई० सी०-44176 एल) इन्फैन्ट्री, केन्नन मन्थानम (आई० सी०-44178 डब्ल्यू) ए० सी०, राज कुमार (आई० सी०-44179 वाई) इन्फैन्ट्री, संजय त्यागी (आई० सी०-44180 एन) इन्फैन्ट्री, राजीव दुआ (आई० सी०-44182 वाई) आर्टी, सत्य निधी टन्डन (आई० सी०-44183 एफ) आर्टी, एच० शंकर (आई० सी०-44184 के) ई० एम० ई०, अरुण वर्मन (आई० सी०-44186 पी) ए० एस० सी०, किशोर नथानी (आई० सी०-44187 एक्स) ए० ओ० सी०, राम सिंह इंदयान (आई० सी०-44189 एच) इन्फैन्ट्री, अशीश रविन्द्र चन्दोरकर (आई० सी०-44190 एक्स) इन्फैन्ट्री, संदीप सिंह धाडवल (आई० सी०-44191 ए) इन्फैन्ट्री, संजीव भेट (आई० सी०-44192 एच) इन्फैन्ट्री, रणवीर सिंह (आई० सी०-44195 एल) इन्फैन्ट्री, आकाश सचन (आई० सी०-44195 डब्ल्यू) ए० ओ० सी०, जय नाथ सिंह यादव (आई० सी०-44196 वाई) इन्फैन्ट्री, रणविजय सिंह झाला (आई० सी०-44197 एफ) इन्फैन्ट्री, टी० रमेश (आई० सी०-44199 एम) ई० एम० ई०, दीपक सैनी (आई० सी०-44200 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, अरविन्द्र कपूर (आई० सी०-44202 एफ) ए० सी०, अनिल कुमार सिंह (आई० सी०-44203 के) मैक इन्फैन्ट्री, रवि गांगवान (आई० सी०-44204 एम) ई० एम० ई०, अशोक ठाकुर (आई० सी०-44205 पी) ई० एम० ई०, वेलीचेठी वेंकटेश्वरा राव (आई० सी०-44206 एक्स) इन्फैन्ट्री, कार्यमस्वटी शरीत मार्टीन (आई० सी०-44207 ए) इन्फैन्ट्री, राजेन्द्र वर्मा (आई० सी०-44208 एच) इन्फैन्ट्री, टर्ग पराशर (आई० सी०-44209 एल) इन्फैन्ट्री, नरेन्द्र सिंह (आई० सी०-44210 ए) आर्टी, इन्द्र मोहन लाम्बा (आई० सी०-44211 एव) आर्टी, मंजीत सिंह (आई० सी०-44214 डब्ल्यू) ए० ओ० सी०, मनोज कुमार सचन (आई० सी०-44215 वाई) आर्टी, अभिताव मुखर्जी (आई० सी०-44216 एफ) ई० एम० ई०, राजेन्द्र जे० काम्बले (आई० सी०-44217 के) ए० ओ० सी०, अजय मलिक (आई० सी०-44218 एम) ई० एम० ई०, मनप्रीत सिंह चावला (आई० सी०-44219 पी) इन्फैन्ट्री, जयसन के० जोस (आई० सी०-44220 के) इन्फैन्ट्री, श्रीम प्रकाश सुमेरा (आई० सी०-44221 एम) इन्फैन्ट्री, जगमोहन (आई० सी०-44223 एक्स) सिगनल रोहित भुटालिया (आई० सी०-44224 ए) आर्टी, जफरी एम० जे० वालिन्टिने (आई० सी०-44225 एच), ई० एम० ई०, जगजीत सिंह गिल (आई० सी०-44226 एल), 2-304GI/S8

इन्फैन्ट्री, एम० रमेश एम० बी० जोगाराव (आई० सी०-44227 एन) सिगनल, विक्रम सिंह (आई० सी०-44228 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, नरेश जेठवानी (आई० सी०-44230 एन) ईन्फ०, सन्तोष कुमार नन्दा (आई० सी०-44231 डब्ल्यू) ए० एम० सी०, रजत माथुर (आई० सी०-44232 वाई) इन्फैन्ट्री, दिनेश प्रसाद नटवाल (आई० सी०-44223-एफ) इन्जीनियर, विरेन्द्र कुमार हरवाल (आई० सी०-44235 एम) आर्टी, मुजाहिद इस्मार्तल (आई० सी०-44236 पी) ए० सी०, रविन्द्र डोनाल्ड रोडनय (आई० सी०-44237 एक्स) आर्टी, आनन्द मिश्रा (आई० सी०-44238 ए) आर्टी, प्रीत मोहिन्द्रा सिंह (आई० सी०-44239 एच) ए० एम० सी०, जीवन चन्द्रा (आई० सी०-44240 एक्स) आर्टी, अनिल कुमार (आई० सी०-44241 ए) इन्जीनियर, गोख शर्मा (आई० सी०-44242 एन) इन्फैन्ट्री, संजय राठौड़ (आई० सी०-44243 एल) इन्जीनियर, मुनिल वामन (आई० सी०-44244 एम) ई० एम० ई०, बसिल मेस्सी (आई० सी०-44245 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, मथलेन्द्र मिश्रा (आई० सी०-44246 वाई) ए० सी०, संजय कपूर (आई० सी०-44247 एफ) इन्जीनियर, विनोद कुमार चखाल (आई० सी०-44249 एम) ए० एस० सी०, संदीप मुदन (आई० सी०-44251 के) मैक इन्फैन्ट्री, मुनिल खलाल (आई० सी०-44252 एम) ए० एम० सी०, सुभाष एन० के० (आई० सी०-44253 पी) आर्टी, नगेन्द्र सिंह (आई० सी०-44254 एक्स) इन्जीनियर, कृष्णा बिस्म्वर नाथ यादवा (आई० सी०-44256 एच) इन्फैन्ट्री, गिरीश सूरी (आई० सी०-44258 एन) सिगनल, कृष्णा मोहन पोडुरी (आई० सी०-44259 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, सुधाकर श्रीवास्तव (आई० सी०-44260 एल) ई० एम० ई०, श्रिज गोपाल (आई० सी०-44261 एन) इन्फैन्ट्री, बाल गोपाल सिपखीहान (आई० सी०-44262 डब्ल्यू) ए० ओ० सी०, दीपक त्यागी (आई० सी०-44263 वाई) सिगनल, अरविन्द्र वर्मा (आई० सी०-44264 एफ) सिगनल, चन्द्र नाथ बैनर्जी (आई० सी०-44265 के) आर्टी, अनिमेश गंगोली (आई० सी०-44266 एम) आर्टी, राजीव भाटिया (आई० सी०-44268 एफ) ई० एम० ई०, सन्तान नाग (आई० सी०-44269 ए) इन्फैन्ट्री, भुवनेश्वर सिंह यादव (आई० सी०-44271 एक्स) इन्फैन्ट्री, गुरजेन्द्रपाल सिंह ब्रिक (आई० सी०-44272 ए० आर्टी० संदीप कुमार सत्यथी (आई० सी०-44273 एच) इन्फैन्ट्री, रविन्द्र कुमार अग्रवाल (आई० सी०-44274 एल) आर्टी, पी० रमेश (आई० सी०-44275 एन) आर्टी, सुनिल एन० पुरोहित (आई० सी०-44276 डब्ल्यू) ए० ओ० सी०, मनमोहन सिंह सिरगील (आई० सी०-44277 वाई) इन्फैन्ट्री, तजिश्वर सिंह (आई० सी०-44278 एफ) इन्जीनियर

संजय गोस्वामी (आई० सी०-44279 के) आर्टी,
 जयदेव सिंह सामयपाल (आई० सी०-44280 वाई) ए० सी०
 गौतम दत्ता (आई० सी०-44281 एफ) इन्फैन्ट्री,
 शरण जीत सिंह (आई० सी०-44282 के) इन्फैन्ट्री
 अमर सिंह (आई० सी०-44283 एम) इन्फैन्ट्री,
 एस० गुरुप्रसाद (आई० सी०-44284 पी) आर्टी,
 सुनील के० मेहता (आई० सी०-44285 एक्स) ई० एम० ई०,
 प्राणविन्द्र कुमार (आई० सी०-44286 ए) ई० एम० ई०,
 अमित त्रिपाठी (आई० सी०-44287 एच) इन्फैन्ट्री,
 अमन सिंह यादव (आई० सी०-44289 एन) ए० एस० सी०
 अरविन्द्र शोवर (आई० सी०-44290 एच) ए० एस० सी०,
 भाजी सी० वी० (आई० सी०-44291 एल) आर्टी,
 तरुण छिबबर (आई० सी०-44292 एन) आर्टी,
 कुलदीप सिंह दलाल (आई० सी०-44293 डब्ल्यू) सिगनल,
 गणेश बैरेंटा बाडारी सायसंकर (आई० सी०-44295 एफ) इन्फैन्ट्री
 अदीप घोष (आई० सी०-44296 के) आर्टी,
 संदीप धींगड़ा (आई० सी०-44297 एम) सिगनल,
 राजेन्द्र सिंह (आई० सी०-44298 पी) आर्टी,
 जगदीश धर्मासिंघाराव (आई० सी०-44299 एक्स) इन्फैन्ट्री,
 विरेन्द्र कुमार यादव (आई० सी०-44300 एफ) आर्टी,
 नरेन्द्र सिंह (आई० सी०-44302 एम) मैक इन्फैन्ट्री,
 कृष्ण कुमार (आई० सी०-44303 पी) इन्फैन्ट्री,
 सुधीर सिंह चोहान (आई० सी०-44304 एक्स) इन्फैन्ट्री,
 राम रतन नेगी (आई० सी०-44306 एच) इन्जीनियर,
 पी० आयाप्पन साथी (आई० सी०-44307 एल) इन्फैन्ट्री,
 सुरमेल सिंह कट्टाण (आई० सी०-44308 एन) ए० सी०,
 सरूप सिंह तिव्हु (आई० सी०-44309 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री,
 सनिल कुट्टी (आई० सी०-44311 एन) ई० एम० ई०,
 समीर जैन (आई० सी०-44312 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री
 सतबीर सिंह डोगरा (आई० सी०-44313 वाई) ए० ओ० सी०
 नवीन चन्द्र तिवारी (आई० सी०-44314 एफ) ए० एम० सी०,
 मनोज कुमार जैन (आई० सी०-44317 पी) आर्टी,
 पंकज कुमार (आई० सी०-44318 एक्स) इन्फैन्ट्री,
 चन्द्र शेखर नाटवाल (आई० सी०-44319 ए) इन्फैन्ट्री,
 योगेश सिंह पारमार (आई० सी०-44320 पी) ई० एम० ई०-
 पी० वी० सुधीर नारायणन (आई० सी०-44321 एक्स) इन्जी-
 नियर, विवेक कुमार बा.पेड (आई० सी०-44322 ए) इन्फैन्ट्री,
 रवनोत्तकर विनय विथल (आई० सी०-44323 एच) ई० एम०
 ई०, विजय नरेन्द्र गावडे (आई० सी०-44324 एल) इन्फैन्ट्री,
 राकेश कुमार शर्मा (आई० सी०-44325 एन) सिगनल,
 सत्यन आनन्द (आई० सी०-44326 सी डब्ल्यू) आर्टी,
 सायफ डल इस्लाम खान (आई० सी०-44327 वाई) आर्टी,
 सुखबीर सिंह अहलावत (आई० सी०-44328 एफ) इन्फैन्ट्री,
 देवअता माहापात्रा (आई० सी०-44329 के) मैक इन्फैन्ट्री,
 मुत्ताकर मधुसूदन (आई० सी०-44330 वाई) इन्फैन्ट्री,
 प्रसून सिंह (आई० सी०-44331 एफ) आर्टी,

एम० शशीधर राव (आई० सी०-44333 एम) इन्फैन्ट्री,
 सनाल कुमार ए० वी० (आई० सी०-44334 पी) ए० ओ० सी०,
 प्रशान्त कुमार (आई० सी०-44335 एक्स) आर्टी,
 मुखदेव सिंह धालिवाल (आई० सी०-44336 ए) इन्फैन्ट्री,
 मनोज भादवाज (आई० सी०-44337 एच) इन्फैन्ट्री,
 रोमोदीप (आई० सी०-44338 एल) ए० सी०,
 जन्डरू अश्राहम (आई० सी०-44339 एन) इन्फैन्ट्री,
 रविन्द्र बाली (आई० सी०-44340 एच) ई० एम० ई०,
 धर्मेन्द्र कुमार (आई० सी०-44343 डब्ल्यू) आर्टी,
 कंचनजीत सिंह सन्धू (आई० सी०-44344 वाई) इन्फैन्ट्री,
 गौरव राय (आई० सी०-44345 एफ) सिगनल,
 तेजेन्द्र जग्गी (आई० सी०-44346 के) ई० एम० ई०,
 लीलाधर शर्मा (आई० सी०-44347 एन) आर्टी,
 विक्रमजीत गुप्ता (आई० सी०-44349 एक्स) आर्टी,
 अखिल कुमार शर्मा (आई० सी०-44350 एम) आर्टी,
 जसवंत सिंह शोबावत (आई० सी०-44352 एक्स) ए० एस० सी०,
 विरेन्द्र शर्मा (आई० सी०-44353 ए) ए० ओ० सी०,
 राजेन्द्र पाल सिंह अहलुवालिया (आई० सी०-44355 एल)
 इन्जीनियर, रंजन कुमार (आई० सी०-44356 एन) इन्फैन्ट्री,
 अमरदीप सिंह बडवाल (आई० सी०-44357 डब्ल्यू) ए० एस०
 सी०, लोकेश चौपड़ा (आई० सी०-44358 वाई) सिगनल,
 अनिमेष त्रिवेदी (आई० सी०-44359 एफ) आर्टी,
 संजय तलवार (आई० सी०-44360 डब्ल्यू) सिगनल,
 भीम गिरी गोस्वामी (आई० सी०-44361 वाई) इन्फैन्ट्री,
 बिनय कुमार सिंह (आई० सी०-44362 एफ) सिगनल,
 राजेन्द्र कुमार (आई० सी०-44363 के) ए० ओ० सी०,
 एस० वैकटारमण (आई० सी०-44364 एम) आर्टी,
 तपन सिंह (आई० सी०-44366 एक्स) इन्फैन्ट्री,
 ग्लॉन जोहन डी० कुज (आई० सी०-44367 ए) ए० ओ० सी०
 अरिफ मुमताज अहमद ओवायसी (आई० सी०-44368 एच)
 ए० एस० सी०, राजपाल सिंह मलिक (आई० सी०-44369
 एल) ए० सी०, परश प्रोत (आई० सी०-44370 ए) ए० ओ०
 सी०, अनिल शर्मा (आई० सी०-44371 एच) ई० एम० ई०,
 हेमन्त ककड़ (आई० सी०-44372 एल) आर्टी,
 वी० शशी धर (आई० सी०-44373 एम) इन्जीनियर,
 रणबीर सिंह (आई० सी०-44374 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री,
 मंजीव पण्डित (आई० सी०-44375 वाई) सिगनल,
 अनिल मिश्रा (आई० सी०-44376 एफ) ए० सी०,
 अतुल चौधरी (आई० सी०-44377 के) आर्टी,
 लंका श्रीनिवास (आई० सी०-44378 एम) इन्फैन्ट्री,
 आलोक नारायण (आई० सी०-44379 पी) इन्फैन्ट्री,
 मन्तराज सिंह (आई० सी०-44380 के) इन्फैन्ट्री,
 सन्त पाल (आई० सी०-44381 एम) ए० एम० सी०,
 सुनित इस्लाम (आई० सी०-44384 ए) इन्फैन्ट्री,
 सुशान्त कुलशरिण्या (आई० सी०-44385 एच) सिगनल,
 सजय रण देव (आई० सी०-44386 एल) इन्फैन्ट्री,
 अमित अगरी (आई० सी०-44387 एन), अतुल

कुमार होल्कर (आई० सी०-44388 डब्ल्यू) ए०एम० सी०, कुलदीप कुमार चौधरी (आई० सी०-44389 वाई) ए० श्री० सी०, यशवीर चौधरी (आई० सी०-44390 एन) इन्फैन्ट्री, क्षय कुमार (आई० सी० 44392 वाई) इन्फैन्ट्री, संजय कपूर (आई० सी०-44393 एफ) आर्टी, लिओन मिलानिवस डिग्ज (आई० सी०-44395 एम) मैक इन्फैन्ट्री, निशा कान्त रावत (आई० सी०-44396 पी) सिगनल, अनिल राम (आई० सी०-44397 एक्स) ए० सी०, आर० कुमार (आई० सी०-44398 ए) इन्जिनियर, अशोक शर्मा (आई० सी०-44399 एच) ए० सी०, अतुल व्यास (आई० सी०-44400 एम) आर्टी, अजेंदर सिंह कादयान (आई० सी०-44402 एक्स) इन्फैन्ट्री, संजय खन्ना (आई० सी०-44403 ए) ए० एस० सी०, मनोज कुमार विरनाई (आई० सी०-44404 एच) इन्फैन्ट्री, शक्ति कुमार गौतम (आई० सी०-44405 एल) मैक इन्फैन्ट्री, एस० एन० शेखर (आई० सी०-44406 एन) ईस्ट०, प्रदीप मिश्रा (आई० सी० 44407 डब्ल्यू) सिगनल, संजीव शर्मा (आई० सी०-44408 वाई) आर्टी, सुनिल कुमार गुप्ता (आई० सी०-44410 डब्ल्यू) आर्टी, सुखबिन्दर सिंह (आई० सी०-44411 वाई) आर्टी, राम कुमार (आई० सी०-44415 पी) इन्फैन्ट्री, राजकुमार दहिया (आई० सी०-44417 ए) इन्फैन्ट्री, सिधारी नारायण त्रामन (आई० सी०-44419 एल) इन्फैन्ट्री, मधू सुधन सिंह (आई० सी०-44420 ए) आर्टी, रोमेश राजेन (आई० सी०-44422 एल) इन्फैन्ट्री, अरूण देशपाण्डेय (आई० सी०-44423 एन) ए०एस० सी०, दीपक शर्मा (आई० सी०-44424 डब्ल्यू) ई०एम०ई० ।

सं० 1679-दिनांक 6-9-88-परख अवधि पूरी होने पर राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों को पकका करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान आर रोय (एम० आर०-053 83 एम) सैनिक चिकित्सा सेवा, 30 जनवरी 1986 ।

ले० (अब कप्तान) टी० एस० रोय (एम० आर०-05181ए) सैनिक चिकित्सा सेवा—5 जनवरी 1985 ।

ले० (अब कप्तान) पी० के० तिवारी (एम० आर०-05262ए) सैनिक चिकित्सा सेवा—30 अगस्त 1985 ।

ले० (अब कप्तान) एम० एस० चौहान (एम० आर०-05273एम) सैनिक चिकित्सा सेवा—4 सितम्बर 1985 ।

ले० (अब कप्तान) एम० चक्रवर्ती (एम० आर०-05305 के) सैनिक चिकित्सा सेवा—26-12-85 ।

ले० (अब कप्तान) एस० बी० गुप्ता (एम० आर०-05307पी) सैनिक चिकित्सा सेवा—26 दिसम्बर 1985 ।

ले० (अब कप्तान) ए० भट्टाचार्य (एम० आर०-05375 एच) सैनिक चिकित्सा सेवा—9 जनवरी 1986 ।

ले० (अब कप्तान) एस० बी० सैम (एम० आर०-05377 एन) सैनिक चिकित्सा सेवा—10 जनवरी 1986 ।

ले० (अब कप्तान) आर० गिरीश (एम० आर०-05378 डब्ल्यू) सैनिक चिकित्सा सेवा—10 जनवरी 1986 ।

ले० (अब कप्तान) ए० षटोराज (एम० आर०-05382 वाई) सैनिक चिकित्सा सेवा—29 जनवरी 1986 ।

ले० (अब कप्तान) एस० देवनाथ (एम० आर०-05384 के) सैनिक चिकित्सा सेवा—1 फरवरी 1986 ।

सर्जि० सब० ले० (अब सर्जि० ले०) ए० कौष (एम० आर० 04785एम) (75301एन) सैनिक चिकित्सा सेवा—27 जून 1983 ।

सर्जि० सब० ले० (अब सर्जि० ले०) एम० एस० साही (एम० आर०-05317वाई) (75362ए) सैनिक चिकित्सा सेवा—26 दिसम्बर 1985 ।

सर्जि० सब० ले० (अब सर्जि० ले०) एस० देव (एम० आर०-04916एम) (75319बी) सैनिक चिकित्सा सेवा—17 दिसम्बर 1983 ।

सं० 1680, दिनांक 23-9-88—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नति करते हैं:—

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ब्रिगे० से मे० जनरल

एम० के० चैटर्जी (एम० आर०-1407) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०—31-10-87 ।

एयर कमांडोर (ब्रिगे०) से ए० बी० एम० (मे० जनरल)

श्री० पी० सूरी (4784) (एम० आर०-958) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-31-10-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 30-10-87 से ।

कर्नल से ब्रिगे०

एम० एल० सपरा, वी० एस० एम० (एम० आर०-994) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०—25-7-87 ।

ए० दातियारी, वी० एस० एम० (एम० आर०-990) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-29-7-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 20-7-87 से ।

एच० के० सेठ, वी० एस० एम० (एम० आर०-1001) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-1-8-87 ।

डी० जे० मुखर्जी, ए० बी० एस० एम० बी० एस० एम० (एम० आर०-1002) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-1-8-87 ।

बी० आर० शर्मा (एम० आर०-1313) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-1-8-87 ।

एच० एस० श्रोबराय, वी० एन० एम० (एम० आर०-1396) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-7-8-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1-8-87 से ।

एस० सुपौं (एम० आर०-1298) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-26-8-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 25-7-87 से ।

जी० स्वरूप (एम० आर०-917) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-11-9-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 20-7-87 से ।

एस० के० अम्बा (एम० आर०-1468) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-17-10-87 ।

ओ० पी० मंदिरत्ता (एम० आर०-1504) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-19-10-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

आर० के० सूरी, बी० एम० एम० (एम० आर०-1420) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-21-10-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

वी० पी० सोबति (एम० आर०-1723) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-25-10-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

एच० के० अग्रवाल (एम० आर०-993) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-1-11-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

एस० सी० दास, वी० एस० एम० (एम० आर०-2481) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-2-11-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

ए० सिंह (एम० आर०-1421) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-3-11-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

एस० चक्रवर्ती (एम० आर०-1317) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-4-11-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

के० सी० दास (एम० आर०-2682) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-4-16-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

एस० के० जैन (एम० आर०-1711) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-8-11-87 (अपरान्त/पूर्वान्त) ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

बी० सीतारामन (एम० आर०-992) सेना चिकित्सा कोर/ पी० सी०-29-12-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 17-10-87 से ।

ग्रुप के० (कर्नल) से एयर कमा० (त्रिगो०)

डी० पी० सरकार (5491) (एम० आर०-996) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-17-8-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1-8-87 से ।

एन० एस० डे० (5489) (एम० आर०-1000) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-17-8-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 1-8-87 से ।

ले० कर्नल से कर्नल

एम० ए० जार्ज (एम० आर०-2563) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-11-1-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से ।

के० बी० सुब्बाराव (एम० आर०-2015) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-21-12-87 ।

सर्जन कमा० (ले० कर्नल) से सर्जन के० (कर्नल)

एस० आर० दास (75077बी) (एम० आर०-2167) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-5-12-86 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना से ।

के० जी० राव (75090एच) (एम० आर०-1860) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-5-12-86 ।

आर० सी० खुराना (75181आर) (एम० आर०-1908) सेना चिकित्सा कोर/पी० सी०-18-5-87 ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना 5-12-86 से ।

मेजर से ले० कर्नल के पद पर

ए० के० भार्गव (एन० आर०-03228एफ) सैनिक डाक्टर कोर-01 दिसम्बर 1987 ।

मेजर (स्क्वा० लीडर) से ले० कर्नल (वि० कमा०) के पद पर

एम० जी० अजमानी (एम० आर०-04468एल) (13756) सैनिक डाक्टर कोर-03 मई 1988 ।

आर० के० भूटानी (एम० आर०-03756एल) (13757) सैनिक डाक्टर कोर-03 मई 1988 ।

ए० के० खन्ना (एम० आर०-04934पी) (13760)
सैनिक डाक्टरी कोर—04 मई 1988।

मेजर (मा० ले० कमा०) ले ले० कर्नल (मा० कमा०) के
पद पर

ए० अहूजा (एम० आर०-03291डब्ल्यू) (75169
एन) सैनिक डाक्टरी कोर—01 जून 1988।

कैप्टन से मेजर के पद पर

(कुमारी) के सूर, (एम० आर०-05292एन), सैनिक
डाक्टरी कोर, 26 अक्टूबर 1985 ज्येष्ठता-30 जनवरी
1981 से मानी जाएगी।

स्थायी कमीशन

कप्तान (फ्लाईट लेफ्टिनेंट) से मेजर (स्क्वाड्रन लीडर) के पद पर
एस० गोपाल (एम० आर०-03835पी) (13997)
ए० एम० सी०—01 जून 1981।

(30 अगस्त 1986 को प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधि-
सूचना सं० 1581 दिनांक 24-7-86 को जहाँ तक इस अधिनियम
से सम्बन्धित है रद्द किया जाता है।)

कैप्टन के पद पर

एम० पी० शर्मा, (एम० आर०-05219वाई) सैनिक
डाक्टरी कोर—22 अगस्त 1985 ज्येष्ठता-01 जनवरी
1983 से मानी जाएगी।

कैप्टन (फ्लाईट लेफ्टि०) से मेजर (स्क्वाड्रन लीडर) के पद पर
(श्रीमति) ए० सिंह (एम० आर०-05434-के)
(14897) सैनिक डाक्टरी कोर, 9 नितम्बर, 1986
ज्येष्ठता 1 दिसम्बर, 1983 से मानी जाएगी।

कैप्टन से मेजर के पद पर

ए० के० कक्कड़ (एम० आर०-05291-पी०), सैनिक
डाक्टरी कोर 26 अक्टूबर 1985 ज्येष्ठता 2 जनवरी 1984 से
मानी जाएगी।

वेशपाल, (एम० आर०-05089-एफ), सैनिक डाक्टरी
कोर—21 फरवरी 1984।

एम० एम० मट्टनागर, (एम० आर०-05293-ए), सैनिक
डाक्टरी कोर, 26 अक्टूबर 1985 ज्येष्ठता 3 अप्रैल 1984 से
मानी जाएगी।

आर० सिंह, (एम० आर०-05166-एल), सैनिक डाक्टरी
कोर 31 दिसम्बर, 1984 ज्येष्ठता 29 अप्रैल 1984 से मानी
जाएगी।

एल० एन० मौर्या, (एम० आर०-05459-डब्ल्यू),
सैनिक डाक्टरी कोर, 29 दिसम्बर 1986 ज्येष्ठता 13 मई 1984
से मानी जाएगी।

ए० चटर्जी, (एम० आर०-05220-एन), सैनिक डाक्टरी
कोर, 22 अगस्त, 1985 ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 1984 से मानी
जाएगी।

ए० के० बेहरे (एम० आर०-05439-एच), सैनिक
डाक्टरी कोर, 29 सितम्बर 1986 ज्येष्ठता 4 अप्रैल 1985 से
मानी जाएगी।

वाई० के० अरोड़ा, (एम० आर०-05230-एक्स), सैनिक
डाक्टरी कोर, 22 अगस्त 1985 ज्येष्ठता 4 अप्रैल 1985 से
मानी जाएगी।

जी० नरस, एम० आर० (05267-वाई), सैनिक डाक्टरी
कोर, 04 नितम्बर 1985 ज्येष्ठता 04 अप्रैल 1985 से मानी
जाएगी।

आर० कपूर (एम० आर०-05221-डब्ल्यू), सैनिक
डाक्टरी कोर, 22 अगस्त 1985 ज्येष्ठता 01 जून 1985 से
मानी जाएगी।

एम० के० नालूजा, (एम० आर०-05371-एम), सैनिक
डाक्टरी कोर, 9 जनवरी, 1986 ज्येष्ठता 3 दिसम्बर 1985 से
मानी जाएगी।

आर० एस० वी० कुमार, (एम० आर०-05437 एक्स),
सैनिक डाक्टरी कोर, 29 नितम्बर, 1986 ज्येष्ठता 01 जून
1986 से मानी जाएगी।

के० के० अनेजा, (एम० आर०-05229-एच) ए० एम०
सी०-25 अक्टूबर 1986

ए० दास, (एम० आर०-09193-एच) ए० एम० सी०-
28 अप्रैल 1988

के० बी० बालिगा (एम० आर०-04767-के) ए० एम०
सी०-07 मई 1988

डी० सी० ठाकुर (एम० आर०-05491-एल) ए० एम०
सी०-30 मई 1988

कु० एस० जोहरी (एम० आर०-04775-एच) ए०
एम० सी०-25 जून 1988

मनमेन्द्रा (एम० आर०-05449-एम) ए० एम० सी०-
29 जून 1988

ए० के० हसीजा (एम० आर०-05505-ए) ए० एम०
सी०-01 जुलाई 1988

वी० के० सिंह (एम० आर०-04961-वाई) ए० एम०
सी०-02 जुलाई 1988

यू० एस० यादव (एम० आर०-04971-एच) ए० एम०
सी०-03 जुलाई 1988

एस० के० शीष (एम० आर०-04983-एक्स) ए० एम०
सी०-12 जुलाई 1988

आर० काधरा (एम० आर०-04799-एम)-ए० एम० सी०-02 अगस्त 1988

एम०एस० बुरोता (एम०आर०-04993एफ) ए० एम० सी०-6 अगस्त 1988

एच०सी० अग्रवाल (एम०आर०-05465-के) ए० एम० सी०-8 अगस्त 1988

यू०वी० मिश्रा (एम०आर०-05357-ए) ए० एम० सी०-11 अगस्त 1988

बी० रमेशा (एम० आर०-04817-एक्स) ए० एम० सी०-13 अगस्त 1988

जी०यू० चन्द्रा (एम०आर०-05493- डब्ल्यू) ए० एम० सी०-13 अगस्त 1988

एस०सी० करन (एम०आर०-05455-ए) ए० एम० सी०-17 अगस्त 1988

लेफ्टि (फ्लाईंग आफिसर) से कॅप्टन (फ्लाइंग लेफ्टि) के पद पर (श्रीमति) सी० शर्मा, (एम०आर०-05615-पी) (16918), सैनिक डाक्टरी कोर, 14 मई 1987, ज्येष्ठता 7 दिसम्बर 1982 से मानी जाएगी।

लेफ्टि (सर्जन सब लेफ्टि) से कॅप्टन (सर्जन लेफ्टि) के पद पर आर० कोशी, (एम०आर०-5612-एफ) (76294), सैनिक डाक्टरी कोर, 14 मई 1987, ज्येष्ठता 06 दिसम्बर 1983 से मानी जाएगी।

लेफ्टि से कॅप्टन के पद पर (परख पर)

एन०के० दास, (एम०आर०-05616-एक्स), सैनिक डाक्टरी कोर, 14 मई 1987 ज्येष्ठता 22 जनवरी, 1985 से मानी जाएगी।

लेफ्टि (फ्लाईंग आफिसर) से कॅप्टन (फ्लाइंग लेफ्टि) के पद पर (परख पर)

आर० बैजल, (एम०आर०-05330-एफ) (18191), सैनिक डाक्टरी कोर-03 दिसम्बर 1986।

लेफ्टि से कॅप्टन के पद पर (परख पर)

ए० अकलादर, (एम० आर०-5691-एफ), सैनिक डाक्टरी कोर-02 जुलाई 1987

एस० एन० साकिया, (एम० आर०-05641-डब्ल्यू), सैनिक डाक्टरी कोर-5 सितम्बर 1987

एम०एस० अहमद, (एम०आर०-05642-वाई), सैनिक डाक्टरी कोर-5 सितम्बर 1987

लेफ्टि (फ्लाईंग आफिसर) से कॅप्टन (फ्लाइंग लेफ्टि) के पद पर (परख पर)

ए० अग्रवाल, (एम०आर०-05538-एल) (18700), सैनिक डाक्टरी कोर-01 दिसम्बर 1987

(लेफ्टि से कॅप्टन के पद पर) (परख पर)

एन० जी० कामत, (एम०आर०-05624-डब्ल्यू), सैनिक डाक्टरी कोर-01 जनवरी 1988

आर० के० सूद (एम० आर०-05692 के), सैनिक डाक्टरी कोर-14 जनवरी, 1988

आर० तलूर, (एम०आर०-05626-एफ) सैनिक डाक्टरी कोर-01 जून 1988

(कुमारी) बी० तिवारी (एम० आर०-05630-के), सैनिक डाक्टरी कोर-01 जून 1988

ए० मलिक, (एम०आर०-05636-एल), सैनिक डाक्टरी कोर-01 जून 1988

लेफ्टि (फ्लाईंग आफिसर) से कॅप्टन (फ्लाइंग लेफ्टि) के पद पर (परख पर)

ए० जोशी (एम०आर०-05662-एम) (19335) सैनिक डाक्टरी कोर-01 जून 1988

बी० बी० भट्ट (एम०आर०-05664- एक्स) (19336) सैनिक डाक्टरी कोर-01 जून 1988

लेफ्टि से कॅप्टन के पद पर (परख पर)

ए० कुमार (एम०आर०-05689-के), सैनिक डाक्टरी कोर-03 जून 1988

सं० 1681, दिनांक 30-9-1988--राष्ट्रपति निम्न-लिखित अफसरों की पदोन्नतियां करते हैं :-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

लेफ्टि से कॅप्टन

ए०वी० पाटिल (आई० सी०-27814) आर्टिलरी--17 जून 1979

2/लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट

सुबान चन्द (आई० सी०-41188), इंजीनियर्स--18 जून 1985।*

* (लेफ्टि वेतन और गुजारा-भत्ता 25 जून, 1985 से गिना जाए)।

डी० एच० परब, लै० कर्नल ए०एम०एस० 8ए

सं० 1682, दिनांक 28-9-1988--राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अफसर को दिनांक 9 जनवरी, 1986 से सैनिक डाक्टरी कोर से अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते

हूँ और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित है, के अधीन इसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन के पद पर

सत्य प्रकाश राय, एम० बी० बी० एस० (एम०एस०-10842-वाई) अब (एम०आर०-05353-के), सैनिक डाक्टर कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 15 अक्टूबर, 1981 से मानी जाएगी इसमें तपेदिक तथा छाती रोग के लिए एक साल का डिप्लोमा शामिल है जो सेवा निवृत्ति के लिए गिना जाएगा परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12-9-1987 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1723/87 का संबंध जहाँ तक उपरोक्त अधिकारी से है, रद्द किया जाता है।

देवेन्द्र कुमार जैन, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०-10878 एक्स) अब (एम०आर०-05367-के), सैनिक डाक्टर कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 19 अक्टूबर, 1981 से मानी जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 12-9-1987 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 1723 दिनांक का संबंध जहाँ तक उपरोक्त अधिकारी से है रद्द किया जाता है।

थल सेना विभाग

सं० 1683, दिनांक 22-8-1988— राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अधिकारी को दिनांक 14 मई, 1987 से डाक्टर सैनिक कोर से अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 के यथा संशोधित है, के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन के पद पर (परख पर)

श्याम सुन्द गुप्ता, एम० बी० बी० एस० (एम०एस०-11480-80-पी), अब (एम०आर०-05614-एम) सैनिक डाक्टर कोर वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 सितम्बर, 1984 से मानी जाएगी तथा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य नोशनल वरिष्ठता 01 अगस्त 1984 से मानी जाएगी जिसका वेतन तथा भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कैप्टन के पद पर

विजय सिंह, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-10868-एन अब (एम०आर०-05611-वाई) सैनिक डाक्टर कोर,

वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 नवम्बर, 1981 से मानी जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

महाजन सुभाष चन्द्र, आर० एम० बी० बी० एस० (एम० एस०-11157-ए) (एम०आर०-05610-डब्ल्यू), सैनिक डाक्टर कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 24 अगस्त, 1983 से मानी जाएगी तथा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य नोशनल वरिष्ठता 25 जून, 1983 से मानी जाएगी जिसका वेतन तथा भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

राबुला बाला मुरलीकृष्ण, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०-11308-एन) अब (एम०आर०-05609-एफ), सैनिक डाक्टर कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 28 जनवरी, 1984 से मानी जाएगी तथा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य नोशनल वरिष्ठता 25 जून, 1983 से मानी जाएगी जिसका वेतन तथा भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

किर्ती नाथ झा, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०-10988 एम) अब (एम०आर०-05606-एन) सैनिक डाक्टर कोर वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 05 जुलाई 1982 से मानी जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवानिवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

अश्विनी कुमार कुकरेजा, एम० बी० बी० एस० (एम०एस० 11097-डब्ल्यू) अब (एम०आर०-05605-एल), सैनिक डाक्टर कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 30 जनवरी, 1983 से मानी जाएगी (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी)।

लेफ्टि० के पद पर (परख पर)

नलिन किशोर दास, एम० बी० बी० एस०, (एम० एस०-11497-एच) अब (एम०आर०-05616-एक्स), सैनिक डाक्टर कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 12 सितम्बर 1984 से मानी जाएगी तथा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य नोशनल वरिष्ठता 31 अगस्त 1984 से मानी जाएगी जिसका वेतन तथा भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

लेफ्टि० (सर्जन सब लेफ्टि०) के पद पर

रेबू कोशी, एम० बी० बी० एस० (एम०एस०-11047-एल) अब (एम०आर०-05612-एफ) (75294), सैनिक डाक्टर कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 1982 से मानी जाएगी।

लेफ्टि० (फ्लाईंग आफिसर) के पद पर

(श्रीमति) चित्रलेखा शर्मा (पूर्वनाम) कुमारी चित्रलेखा खती, एम० बी० बी० एस० (एम०एस०-10918-एन) अब (एम०आर०-05615-पी) (16918), सैनिक डाक्टर कोर

कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 20 अगस्त 1982 से मानी जाएगी।

(थल सेना विभाग)

सं० 1684, दिनांक 27-9-1988—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित अधिकारी को दिनांक 31 जुलाई, 1987 से डाक्टररी सैनिक कोर से अल्पकालीन कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 के यथा संशोधित है के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कैप्टन के पद पर

कैलाश चन्द्र वर्मा, एम० बी०बी०एस० (एम०एस०-11454 एन) अब (एम०आर०-05685-एन), सैनिक डाक्टररी कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 01 अगस्त, 1984 से मानी जाएगी।

कैप्टन (प्लाइड सेफिट०) के पद पर

श्री निवास मूयि पेन्ड्याल, एम० बी०बी०एस० (एम०एस०-10900-एक्स) अब (एम०आर०-56700 ल) (16760 सैनिक डाक्टररी कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 3 मई 1982 से मानी जाएगी।

कैप्टन के पद पर

(श्रीमति) शशि प्रभा गुप्ता, एम० बी० बी०एस० (एम०एस०-11093-ए) अब (एम०आर०-05675-के), सैनिक डाक्टररी कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 29 जुलाई, 1982 से मानी जाएगी (इसमें शिशु स्वास्थ्य डिप्लोमा के लिए दी गई 01 साल की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) तथा सैद्धान्तिक रूप से स्वीकार्य नौशनल वरिष्ठता 25 जून, 1982 मानी जाएगी जिसका वेतन तथा भत्तों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

कैप्टन के पद पर (परख पर)

(श्रीमति) संजूल खन्ना, एम० बी०बी०एस०, (एम०एस०-10346-एक्स) अब (एम०आर०-05667-एल) सैनिक डाक्टररी कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 29 अप्रैल, 1978 से मानी जाएगी।

कैप्टन के पद पर

(श्रीमति) नागालक्ष्मी भट्टाचार्या एम० बी०बी०एस०, (एम०एस०-10718-एक्स) अब (एम०आर०-05666-एच), सैनिक डाक्टररी कोर, वेतन तथा पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता 9 अप्रैल, 1974 से मानी जाएगी (इसमें पूर्ण वेतन सेवा के लिए बी गई 5 वर्ष 88 दिन की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी तथा एम० डी० डिग्री (आंस और ग्यानों) के लिए दी गई 2 वर्ष की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु

उपदान के लिए नहीं गिनी जाएगी) सिवाय मेजर की पदोन्नति के लिए 9 अप्रैल, 1975 से गिनी जाएगी

सेना शाखा

सं० 1685 दिनांक 27 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को उनके आगे लिखित तिथियों से उनके साधारण निवृत्ति की आयु के प्राप्त करने पर सेना की सेवा से निवृत्त करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

1. कर्नल एच० डी० कोल (आई० सी० 8544 के०) सिख 31 मार्च 88 (अपराह्न)

2. कर्नल आर० के० आनन्द (आई० सी० 10024 एक्स) इजीनियर्स 31 मार्च 88 (अपराह्न)

3. कर्नल आर० एस० सूरी (वा 64 एल) आर० वी०सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)

4. कर्नल बेभ्रन्त सिंह (आई० सी० 10504 एफ) अस्ताम 31 मार्च 88 (अपराह्न)

5. ले० कर्नल उदय सिंह (आई० सी० 12525 डब्ल्यू) मद्रास 31 मार्च 88 (अपराह्न)

6. ले० कर्नल एम० एस० गिल (आई० सी० 13924 एम) जाट 31 मार्च 88 (अपराह्न)

7. ले० कर्नल बालकर सिंह (आई० सी० 13965 डब्ल्यू) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)

8. ले० कर्नल ए० पी० नायर (आई० सी० 15169 एम) ए०ओ०सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)

9. ले० कर्नल एम० एस० बाजवा (आई० सी० 13014 वाई) पंजाब 31 मार्च 88 (अपराह्न)

10. ले० कर्नल आर० के० साहनी (आई० सी० 7680 एन) पंजाब 31 मार्च 88 (अपराह्न)

11. ले० जे० के० मिथा (आई० सी० 8234 वाई) इजीनियर्स 31 मार्च 88 (अपराह्न)

12. ले० कर्नल एस० जी० पितरे (आई० सी० 8634 एल) जी० आर० 31 मार्च 88 (अपराह्न)

13. ले० कर्नल वी० पी० शरद (आई० सी० 15164 एन) ए०ओ०सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)

14. ले० कर्नल सी० बी० एम० थाकुर (आई० सी० 18285 ए) ए०एस०सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)

15. ले० कर्नल जे० पी० भाटिया (आई० सी० 18307 एन) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)

16. ले० कर्नल वी० के० जसवाल (आई० सी० 20974 ए) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)

17. ले० कर्नल एम० एस० चहल (आई० सी० 20902 डब्ल्यू) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
18. ले० कर्नल बी० के० एस० परमार (आई० सी० 22372 एल) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
19. ले० कर्नल टी० एम० जमवाल (22471 एन) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
20. ले० कर्नल छल्लू राम (आई० सी० 15284 एम) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
21. ले० कर्नल सी० एस० बर्मा (आई० सी० 15286 एक्स) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
22. मेजर रतन सिंह (आई० सी० 20101 पी) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
23. मेजर आई० सी० रतन (आई० सी० 21380 एक्स) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
24. ले० कर्नल एम० एम० चौबे (आई० सी० 21776 एफ) ए० ओ० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
25. मेजर जसवन्त सिंह (आई० सी० 22086 एच) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
26. ले० कर्नल (टी० एस०) किशर सिंह (आई० सी० 7766 एम) महार 31 मार्च 88 (अपराह्न)
27. ले० कर्नल (टी० एस०) डी० आर० अग्रवाल (आई० सी० 8574 एफ) ए० ओ० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
28. ले० कर्नल (टी० एस०) के० एस० सिन्हा (आई० सी० 10022 एम) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
29. कर्नल (टी० एस०) ओ० पी० सिंह (आई० सी० 10581 डब्ल्यू) डोगरा 31 मार्च 88 (अपराह्न)
30. ले० कर्नल (टी० एस०) एस० के० रसहन (आई० सी० 11676 एच) सिग्नल 31 मार्च 88 (अपराह्न)
31. ले० कर्नल (टी० एस०) जे० एस० गिल (आई० सी० 13271 डब्ल्यू) जैफ एल० आई० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
32. ले० कर्नल (टी० एस०) पी० एस० थापा (आई० सी० 13953 एफ) गररीफ 31 मार्च 88 (अपराह्न)
33. ले० कर्नल (टी० एस०) जोगिन्दर सिंह (आई० सी० 15185 के) ए० ओ० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
34. ले० कर्नल (टी० एस०) डी० एन० बिष्ट (आई० सी० 15208 ए) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
35. ले० कर्नल (टी० एस०) के० एस० परमार (आई० सी० 15313 डब्ल्यू) ए० एस० सी० 31 मार्च 1988 (अपराह्न)
36. ले० कर्नल (टी० एस०) पीजूशाकान्धिवेव (आई० सी० 15337 ए) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
37. ले० कर्नल (टी० एस०) प्रहलाद टोरो (आई० सी० 15613 एक्स) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
38. ले० कर्नल (टी० एस०) वी० डी० गम्भीर (आई० सी० 18203 एम) इंजीनियर्स 31 मार्च 88 (अपराह्न)
39. ले० कर्नल (टी० एस०) डी० के० द्विलन (आई० सी० 18820 पी) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
40. ले० कर्नल (टी० एस०) प्रताप सिंह (आई० सी० 18978 एक्स) राजरीफ 31 मार्च 88 (अपराह्न)
41. ले० कर्नल (टी० एस०) पी० जी० गोस्वामी (आई० सी० 20082 पी) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
42. ले० कर्नल (टी० एल०) के० एस० रणधावा वी० एस० एम० (आई० सी० 20787 एम) ए० ओ० सी०—31 मार्च 88 (अपराह्न)
43. ले० कर्नल (टी० एस०) रमेश चन्द (आई० सी० 21032 डब्ल्यू ई० एम० ई० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
44. ले० कर्नल (टी० एस०) गुरचरन सिंह (आई० सी० 22147 डब्ल्यू) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
45. ले० कर्नल (टी० एस०) जी० एम० मान (आई० सी० 20249 एन) डोगरा 31 मार्च 88 (अपराह्न)
46. मेजर संजय तामंग (आई० सी० 14934 एच) ए० ओ० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
47. मेजर भीमशंकर सवालगे (आई० सी० 15589 एम) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
48. मेजर वी० एस० धान्डीवाल (आई० सी० 20178 एक्स) ए० ओ० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
49. मेजर ओ० डी० जोशी (आई० सी० 21809 एफ) आर्टी 31 मार्च 88 (अपराह्न)
50. ले० कर्नल (टी० एस०) भूपेन्द्रा शर्मा (आई० सी० 22345 एफ) ए० एस० सी० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
51. मेजर एन० के० शर्मा, वी० आर० सी० (आई० सी० 22598 एन) जैफ एल० आई० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
52. ले० कर्नल (टी० टी०) सीवासकरन नायर (एम० एल० 876 बाई) आर० ओ० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
53. ले० कर्नल वेद प्रकाश (एम० एल० 1524 एन) ई० एम० ई० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
54. ले० कर्नल (टी० एस०) ए० एस० राघवा (एम० एल० 1411 एल) आर० ओ० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
55. मेजर डी० एम० करमारकर (एम० एल० 1323 पी०) क्यू० एम० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
56. मेजर अमोलक सिंह (एम० एन० 1971 एक्स) ई० एम० ई० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
57. मेजर शिव सिंह राणा (एम० एल० 1885 एम) क्यू० एम० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
58. कप्तान टी० के० वी० पिस्तई (एम० एल० 1345 एन) क्यू० एम० 31 मार्च 88 (अपराह्न)

59. कर्नल एस० आर० सेन (आई० सी० 10172 एन) ई० एम० ई० 31 मार्च 88 (अपराह्न)
60. ले० कर्नल (टी० एस०) एम० एल० चैत्रथ (आई० सी० 22241 ए) सीख 31 मार्च 88 (अपराह्न)
61. ले० कर्नल (टी० एस०) जे० एम० सांगर (आई० सी० 22629 एल) सिग्नलस 31 मार्च 88 (अपराह्न)
62. ले० कर्नल (टी० एस०) ए० के० मुखोपाध्याय (आई० सी० 22185 एम) सिग्नलस 31 मार्च 88 (अपराह्न)
63. कर्नल के० एस० पुरी (आई० सी० 8267 के) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
64. कर्नल डी० एस० गुजराल (आई० सी० 11235 एम) ए० ओ० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
65. कर्नल के० सी० ठाकुर (आई० सी० 8483 एक्स) आर्टी 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
66. ले० कर्नल बी० आर० साह (आई० सी० 11202 एफ) 1 जी० आर० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
67. ले० कर्नल के० एस० नागरा (आई० सी० 12658 एम) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
68. ले० कर्नल राम कुमार (आई० सी० 12828 एल) गरनेडोयरस 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
69. ले० कर्नल हर्षोप सिंह (आई० सी० 15177 एल) ए० ओ० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
70. ले० कर्नल हरिशंकर जोशी (आई० सी० 15192 ए) ए० ओ० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
71. ले० कर्नल धर्मपाल (आई० सी० 15285 पी) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
72. ले० कर्नल निरंजन सिंह (आई० सी० 15551 एच) आर्टी 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
73. ले० कर्नल वेद प्रकाश चत्रथ (आई० सी० 20420 एफ) 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
74. ले० कर्नल एस० पी० सिंह (आई० सी० 10516 डब्ल्यू) मद्रास 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
75. ले० कर्नल एस० एस० गुसाई (आई० सी० 10559 एफ) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
76. ले० कर्नल आई० एस० सेठी (आई० सी० 11162 एल) कुमाऊ 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
77. ले० कर्नल के० एस० धालीवाल (आई० सी० 11821 पी) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
78. ले० कर्नल के० एस० भान्जारी (आई० सी० 13595 एफ) 1 जी० आर० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
79. ले० कर्नल ब्रह्मानन्द (आई० सी० 13662 एफ) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
80. ले० कर्नल एस० सी० पुरी (आई० सी० 15162 एच) ए० ओ० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
81. ले० कर्नल बकशी राम (आई० सी० 15241 एक्स) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
82. ले० कर्नल मेला राम (आई० सी० 18283 पी) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
83. ले० कर्नल सी० एस० के० बी० नाथडू (आई० सी० 18775 एन) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
84. ले० कर्नल एस० डी० शर्मा (आई० सी० 19791 एक्स) इंजीनियर्स 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
85. ले० कर्नल अर्जुन सिंह (आई० सी० 20180 पी) इंजीनियर्स 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
86. ले० कर्नल पी० एस० नेगी (आई० सी० 21286 एन) सिग्नलस 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
87. ले० कर्नल के० के० राव (आई० सी० 13721 एच) ई० एम० ई० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
88. ले० कर्नल चेमवथ वीजयान (आई० सी० 15147 एन) ए० ओ० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
89. ले० कर्नल एस० पी० एस० सिधा (आई० सी० 18709 एल) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
90. मेजर केहरी सिंह (आई० सी० 22152 एफ) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
91. मेजर प्रकाश सिंह (आई० सी० 22295 एफ) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
92. ले० कर्नल (टी० एस०) ए० पी० गुप्ता (आई० सी० 8219 के) आर्टी 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
93. ले० कर्नल (टी० एस०) एस० के० कौशल (आई० सी० 10174 एन) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
94. ले० कर्नल (टी० एस०) एस० आर० एम० मनहाम (आई० सी० 10178 के) गरनेडोयरस 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
95. ले० कर्नल (टी० एस०) एस० सी० बिग (आई० सी० 10434 एन) गारडस 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
96. ले० कर्नल (टी० एस०) ए० एस० रतन (आई० सी० 10500 एल) जैकरीफ 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
97. ले० कर्नल (टी० एस०) जी० एस० भल्ला (आई० सी० 11146 एन) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
98. ले० कर्नल (टी० एस०) जे० जुन्वरारमय्या (आई० सी० 12796 एन) ई० एम० ई० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
99. ले० कर्नल (टी० एस०) दलजीत सिंह (आई० सी० 13936 एफ) जाट 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
100. ले० कर्नल (टी० एस०) विलाथिल जंघरगेस फिलिप (आई० सी० 15222 एम०) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)

101. ले० कर्नल (टी० एम०) आर० आर० बकशी (आई० सी० 15318 पी) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
102. ले० कर्नल (टी० एस०) पी० एम० देवेन्द्रा (आई० सी० 18007 एम) राजपूत 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
103. ले० कर्नल (टी० एस०) ए० आर० लोधा (आई० सी० 18069 एम) डोगरा 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
104. ले० कर्नल (टी० एस०) रामचन्द्रा हटवाल (आई० सी० 18524 के) ए० एस० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
105. ले० कर्नल (टी० एस०) एस० डी० कामत (आई० सी० 18544 एक्स) ई० एस० ई० 20 अप्रैल 88 (अपराह्न)
106. ले० कर्नल (टी० एस०) बी० एस० बाजवा (आई० सी० 20066 एक्स) आर्टी 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
107. ले० कर्नल (टी० एस०) के० एस० मनहास (आई० सी० 20221 एन) जैकरीफ 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
108. ले० कर्नल (टी० एस०) अमरोक सिंह (आई० सी० 21913 पी) आर्टी 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
109. ले० कर्नल (टी० एस०) बी० जगदीशन (आई० सी० 21983 एन) आर्टी 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
110. मेजर गुरवीन्द्र सिंह (आई० सी० 15144 ए०) ए० ओ० सी० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
111. मेजर के० जे० ए० कुट्टी (आई० सी० 20086 एल) ई० एस० ई० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
112. मेजर बी० एस० मान (आई० सी० 22287 एच) डी० आर० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
113. मेजर एन० एस० सोडी (आई० सी० 22858 डब्ल्यू) इंजीनियर्स 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
114. मेजर पी० रामाचन्द्रन (एस० एल० 1538 एन) क्यू० एम० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
115. मेजर सुच्चा सिंह (एस० एल० 1599 एल) क्यू० एम० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
116. ले० कर्नल (टी० एम०) दलेल सिंह (एस० एल० 1926 एल) क्यू० एम० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
117. मेजर के० पी० श्रीधरन (एस० एल० 1958 एच) ई० एम० ई० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
118. कप्तान सुर्जन सिंह (एस० एल० 1951 के) इंजीनियर्स 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
119. ले० कर्नल जी० एल० लूथरा (आई० सी० 6918 डब्ल्यू) एम० एफ० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
120. ले० कर्नल ओ० पी० खन्ना (आई० सी० 11042 एम) आर्टी 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)
121. ले० कर्नल हमजी अग्रवाल (आई० सी० 10612 एल) ई० एम० ई० 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)

122. ले० कर्नल (टी० एस०) बी० के० यमन (आई० सी० 14354 एम) इंजीनियर्स 30 अप्रैल 88 (अपराह्न)

एस० सी० कुठियाला
कर्नल
एम० एम०-7

सं० 1686 दिनांक 10-8-88--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उनकी अपनी प्रार्थना पर सेवा से समय से पूर्व रिटायर होने तथा उनका तबावला रिजर्व क्लास (एक्स) में करने की अनुमति प्रदान करते हैं :

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

स्क्वा लीडर एस० के० मेठ (एन० आर० 03222ए) (13358) सैनिक डॉक्टरी कोर 06 जुलाई 1984 (एफ० ए०)

थल सेना विभाग

सं० 1687 दिनांक 27-9-88--राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को उनकी प्रार्थना पर समयपूर्व सेना से निवृत्त होने तथा उनका स्थानान्तरण अफसरों की नियमित रिजर्व (श्रेणी एक्स) में करने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

नियमित सेना
स्थायी आयोग

सर्जन बी० ए० डी० एम० सां० एम० गिल (75296) ए (एम० आर० 542) सेना चिकित्सा कोर पीसी 31-10-87 (अपराह्न)

त्रिगुण किशोर तिवारी
उप म० लि० म० से० वि० से०

सं० 1688, दिनांक 30-9-88--निम्नलिखित अफसर समरी जांच के दण्डावेश अनुसार इसके नाम के सामने दी गयी सेवा से वंचित होते हैं।

नियमित सेना
स्थायी कमीशन

आई० सी०-42416 लैफ्टिनेंट नौरज सेठ, इन्फैंट्री--पदोन्नति के लिए 6 महीने की सेवा से वंचित--26 जून 1987।

एस० एल०-2382 बी० बी० एन० चारी--पदोन्नति के लिए 3 महीने की सेवा से वंचित--24 फरवरी 1988।

आई० सी०-37145 कप्तान जी० नागरज, इन्फैंट्री--पदोन्नति के लिए 6 महीने की सेवा से वंचित--26 जून 1987।

डी० एच० परज;
ले० कर्नल
ए० एम० एस०

सेना शाखा

स्थायी सेना—अस्थायी कमीशन

सं० 1689, दिनांक 3 अक्टूबर, 1988:—राष्ट्रपति द्वारा सेना डाक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों को इनके सामने लिखित तिथि से कमीशन छोड़ने के बाद अपना पद जैसा इनके सामने, नाम के सामने लिखा है बनाये रखने की अनुमति सहर्ष प्रदान करते हैं—

अफसरों का विवरण	कमीशन छोड़ने की तिथि	कमीशन छोड़ने के बाद का पद
टी० सी०-31186 डब्ल्यू० ले० कर्नल जसपाल सिंह बक्सी	30 जून (ए/एन)	ले० कर्नल
टी० सी०-31376 डब्ल्यू० ले० कर्नल अनुपम प्रसाद श्रीवास्तव	30 जून 88 (एफ/एन)	मेजर
टी० सी०-31322 एफ० कप्तान प्रहलाद बलवंत राव ईनामदार	01 जुलाई 88 (एफ/एन)	कप्तान
टी० सी०-31300 एन० कर्नल रामकृष्ण बन्सल	31 मई 88 (ए/एन)	कर्नल
टी० सी०-31334 डब्ल्यू० ले० कर्नल दीपक बुदर्की	27 फरवरी 88 (ए/एन)	ले० कर्नल
टी० सी०-31362 एच० ले० कर्नल प्रिथ्वी-राज कुमार	31 मई, 88 (ए/एन)	ले० कर्नल
टी० सी०-31363 एल० ले० कर्नल यशपाल सिंह मोहन	30 जून 88 (ए०/एन)	मेजर
टी० सी०-31378 एच० मे० रज जोर्ज लिनन	08 मई 88 (ए/एन)	मेजर
टी० सी०-31256 के० मेजर मदुराई सुब्रमनियम	30 अप्रैल 88 (ए/एन)	मेजर

अनिल कुमार
अपर सचिव

सं० 1690, दिनांक 28 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति सहर्ष थल सेना अनुदेश 14/79 द्वारा यथा संशोधित थल सेना अनुदेश 75/78 के अधीन 5 वर्ष के लिये निम्नलिखित नियुक्ति करते हैं—

नियमित सेना

अल्पकालीन कमीशन

कैप्टन के पद पर

देवेन्द्र कुमार जैन, एम० बी० बी० एस० (एम० एस०-10878 एक्स०), सैनिक डाक्टरी कोर, 19 अप्रैल, 1982 वेतन तथा पदोन्नति के लिये ज्येष्ठता 19 अक्टूबर 1981 से मानी जायेगी) (इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिये दी गई 6 माह की पूर्व ज्येष्ठता शामिल है जो उदात्त के लिये नहीं गिनी जायेगी)।

(भारत सरकार के राजपत्र दिनांक 9-10-1982 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 2054 दिनांक 10-8-1982 का सम्बन्ध जहाँ तक उपरोक्त अधिकारी से है, रद्द किया जाता है)।

सैनिक शाखा

सं० 1691, दिनांक 5 अक्टूबर, 1988:—राष्ट्रपति निम्नलिखित को पांच वर्ष के लिये विशेष सैनिक अनुदेश 11 का 64 के अन्तर्गत 24 अगस्त, 1985 से 2/लैफ्टीनेंट के पद पर (जो परखाधीन है) परखाधीन समय समाप्त होने पर उसी तिथि से पुष्ट किया जाता है—

विजय नायर (एम० एम० 32219 एच०) इन्फैन्ट्री तथा अजेश कुमार भारद्वाज (एम० एम० 32220 एक्स) मेक इन्फैन्ट्री तथा शंकरन एम० (एम० एम० 32221 ए०) आर्टिलरी ज्येष्ठता विनिश्चिता 2/लैफ्टीनेंट सन्दीप मित्तल (एम० एम० 32222 एच०) मेक इन्फैन्ट्री, सुनील प्रताप राव भोंसले (एम० एम० 32233 पी०) इन्फैन्ट्री, विनोद कुमार आर० (एम० एम० 32234 एक्स०) इंजीनियर्स तथा मुर्ली मनोहर भट्ट (एम० एम० 32255 ए०) इन्फैन्ट्री निर्दिष्ट तथा ज्येष्ठता, 2/लैफ्टीनेंट नीरज पटानिया (एम० एम० 32232 एम०) आर्टिलरी, विश्वनाथ विशाधर गोड बोले (एन० एम० 32240 एल०) इन्फैन्ट्री तथा नागेन्द्रा राव किलकुरी (एम० एम० 32241 एन) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लैफ्टीनेंट, घनश्याम पाण्डे (एम० एम० 32242 डब्ल्यू०) आर्टिलरी के ऊपर, दीपिन्द्र जीत सिंह चाहल (एम० एम० 32252 ए०) आर्माड कोर तथा निश्चल रौत (एम० एम० 32253 एच) आर्माड कोर निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2 लैफ्टीनेंट रविन्द्र सिंह ठिल्लो (एम० एम० 32251 एक्स०) आर्माड कोर के नीचे, संजय सेठी (एम० एम० 32256 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, ज्येष्ठता निर्दिष्टता, 2/लैफ्टीनेंट, दिनेश बाबू (एम० एम० 32257 वाई) इन्फैन्ट्री, करमजीत सिंह (एम० एम० 32261 एफ०) सिग्नल तथा सुनील कुमार यादव (एम० एम० 32262 के) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता लैफ्टीनेंट, रमजीत सिंह (एम० एम० 32260 वाई) इन्फैन्ट्री राजीव पनवर (एम० एम० 32264 पी०) इन्फैन्ट्री, निर्दिष्टता ज्येष्ठता, 2/लैफ्टीनेंट मोनीश दत्ता (एम० एम०

32263 एच) इन्फैन्ट्री, निर्मल सिंह (एस० एस० 32270 एन) इंजीनियर्स, पूर्णप्रागता जी० ए० (एस० एस० 32272 एम) सिगनल्स तथा हेमन्त कुमार पुरी (एस० एस० 32273 डब्ल्यू०) आर्टिलरी ज्येष्ठता निर्दिष्टता, 2/लैफ्टीनेंट जयन जकब बरगीष (एस० एस० 32274 वाई०) आर्मर्ड कोर के ऊपर, कमलजीत सिंह गुरना (एम० एस० 32276 के) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, पी० नारायण मैनन (एस० एस० 32275 एफ०) आर्मर्ड कोर, वक्कर ज्योति दास (एस० एस० 32279 एक्स०) इन्फैन्ट्री, ज्येष्ठता निर्दिष्टता, 2/लैफ्टीनेंट विरेन्द्र कुमार घोटिया (एस० एस० 32281 पी०) इन्फैन्ट्री, के ऊपर, हरकिशन बसोया (एस० एस० 32282 एक्स०) इन्फैन्ट्री, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, विरेन्द्र कुमार घोटिया (एस० एस० 32281 पी०) इन्फैन्ट्री, धनश्याम मिश्रा (एस० एस० 32287 डब्ल्यू) इन्फैन्ट्री, ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लैफ्टीनेंट, शकील अहमद (एस० एस० 32288 वाई०) इन्फैन्ट्री के ऊपर, त्रिलोचन सिंह परमार (एम० एस० 32289 एफ०) ई० एम० ई० तथा रामेश कुमार एम० (एस० एस० 32290 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट शकील अहमद (एस० एस० 32288 वाई०) इन्फैन्ट्री नीरज झा (एस० एस० 32294 एम०) इन्फैन्ट्री, निर्दिष्टता, ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, आखिल शर्मा (एस० एस० 32293 एक्स०) इन्फैन्ट्री, लियालु दिनेश जोसफ (एस० एस० 32297 ए०) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, मनमोहन सिंह (एस० एस० 32296 एक्स०) इन्फैन्ट्री, गनीत चौधरी (एस० एस० 32305 एन०) आर्मर्ड कोर, सुधीर कुमार बुडाकोटी (एस० एस० 32307 वाई०) इन्फैन्ट्री तथा मुकेश एम० सी० (एस० एस० 32308 एफ०) इन्फैन्ट्री, ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लैफ्टीनेंट, जेसन अनिल ई० (एस० एस० 32309 के) इन्फैन्ट्री के ऊपर, मनेती तन्वन (एस० एस० 32317 एच०) आर्मर्ड कोर ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लैफ्टीनेंट, प्रभजीत सिंह शेरवाल (एस० एस० 32318 एल०) आर्टिलरी के ऊपर, संजीव महतोत्रा (एस० एस० 32327 एम०) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लैफ्टीनेंट, मुनील कुमार सिंह (एस० एस० 32328 पी०) आर्टिलरी, के ऊपर, कमल सिंह पठानिया (एस० एस० 32329 एक्स०) आर्मर्ड कोर, निर्दिष्टता एस० 32328 पी०) आर्टिलरी, वेनु गोपाल दास बी० (एस० एस० 32332 एक्स०) इंजीनियर्स, ज्येष्ठता निर्दिष्टता, 2/लैफ्टीनेंट, सतेन्द्र रावत (एस० एस० 32333 ए०) आर्मर्ड कोर के ऊपर, जादव अरूण शंकर, (एस० एस० 32334 एच०) इन्फैन्ट्री, अशोक कुमार (एम० एस० 32348 एच०) इन्फैन्ट्री, तथा जी० यू० कुमार (एस० एस० 32349 एल०) इंजीनियर्स, ज्येष्ठता निर्दिष्टता, 2/लैफ्टीनेंट, जोशी विवेक जे० (एस० एस० 32350 ए०) आर्टिलरी के पर, रवि एस० (एस० एस० 32356 पी०) आर्मर्ड कोर, अतथा जसविन्द्र पाल सिंह (एस० एस० 32357

के) आर्मर्ड कोर ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लैफ्टीनेंट, जोगिन्द्र सिंह (एस० एस० 32358 एम) इन्फैन्ट्री के ऊपर, जयदेव पटनायक (एस० एस० 32362 पी०) आर्मर्ड कोर निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, मिर्जा मंजर बेग (एस० एस० 32361 एम) आर्टिलरी, तथा अजय कुमार बघावन (एस० एस० 32368 डब्ल्यू०) ई० एम० ई० निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, अरूण सनयाल (एस० एस० 32364 ए०) सिगनल्स जिनके नाम भारत के राजपत्र सं० 610 दिनांक 28 मार्च 87 में प्रकाशित है।

निम्नलिखित को पांच वर्ष के लिये विशेष सैनिक अनुदेश 11 का 64 के अन्तर्गत 27 अगस्त 1983 से 2/लैफ्टीनेंट के पद पर (जो परखाधीन है) परखाधीन समय समाप्त होने पर उसी तिथि से पुष्ट किया जाता है :—

अनुराग श्रीवास्तवा (एस० एस० 31438 एक्स०) मैक इन्फैन्ट्री तथा वीरेन्द्र मोहन (एस० एस० 31439 ए०) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट अखिल कुमार मिश्रा (एस० एस० 31437 ए) इन्फैन्ट्री, राजीव कुमार (एस० एस० 31444 एल) इन्फैन्ट्री ज्येष्ठता निर्दिष्टता 2/लैफ्टीनेंट लीलेश सूद (एस० एस० 31445 एन) इन्फैन्ट्री के ऊपर, मुभाव चन्द्र (एस० एस० 31446 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, लीलेश सूद (एस० एस० 31445 एन) इन्फैन्ट्री अनिल खन्ना (एस० एस० 31458 एल०) इंजीनियर्स तथा गगने प्रवीर, बसन्त (एस० एस० 31459 एन) आर्टिलरी निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट अतुल कौशि (एस० एस० 31457 एच) इन्फैन्ट्री दीपक भण्डारी (एस० एस० 31479 एफ०) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, रोहिणी कुमार पाठक (एस० एस० 31478 वाई०) आर्टिलरी, राकेश चौधरी (एस० एस० 31481 वाई०) इन्फैन्ट्री तथा प्रणव कुमार (एस० एस० 31482 एफ०) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, संजय बाबा (एस० एस० 31480 डब्ल्यू०) ए० एस० सी०, राघवन बी० एस० (एस० एस० 31493 एन) आर्मर्ड कोर निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, राजीव कुमार (एस० एस० 31492 एल) इन्फैन्ट्री, सूरज सिंह गिल (एम० एस० 31496 एफ०) आर्टिलरी, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट सैथ्यू ऊमन सुजीत (एस० एस० 31495 वाई०) आर्टिलरी, राविन्द्र कुमार भण्डारी (एस० एस० 31501 एफ०) इन्फैन्ट्री निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट सिगरू रामाकान्त मनोहर (एस० एस० 31500 वाई०) आर्टिलरी, संदीप कोहली (एस० एस० 31512 एन) ए० ओ० सी० निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, राजिन्द्र सिंह रावत (एस० एस० 31511 एल०) आर्मर्ड कोर, चरनजीत सिंह (एस० एस० 31519 एक्स०) आर्टिलरी तथा रामेश चन्द्र शर्मा (एस० एस० 31521 पी०) इन्फैन्ट्री, निर्दिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, बालासाहिब होन (एस० एस० 31518 पी०) आर्टिलरी,

संजीव कुमार (एस० एस० 31529 एफ०) इन्फैन्ट्री तथा राजीव प्रासर (एस० एस० 31530 डब्ल्यू०) ई० एम० ई०, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, बलवीर कुमार ठाकुर (एस० एस० 31528 वाई०) इन्फैन्ट्री, हरिन्द्र पाल सिंह (एस० एस० 31535 पी०) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, सुरेन्द्र पाल सिंह (एस० एस० 31533 के) आर्टिलरी, युद्धवीर सिंह पठानिया (एस० एस० 31552 पी०) आर्टिलरी, राजीव पनवर (एस० एस० 31554 ए) मैक इन्फैन्ट्री, उत्पल कुमार भूपन (एस० एस० 31555 एच) इन्फैन्ट्री, प्रकाश सरन (एस० एस० 31556 एल) इन्फैन्ट्री, ईशविन्द्र सिंह सहदेवा (एस० एस० 31557 एल) इन्फैन्ट्री, हरभजन सिंह फगरा (एस० एस० 31558 डब्ल्यू०) मैक इन्फैन्ट्री, अमरित पाल सिंह गिल (एस० एस० 31560 एन) ए० एस० सी०, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट परविन्द्र सिंह (एस० एस० 31551 एम) इंजीनियर्स, अरविन्द्र नाथ सोनी (एस० एस० 31566 पी०) आर्मंड कोर, निदिष्टता ज्येष्ठता 2 लैफ्टीनेंट, दीपक आनन्द (एस० एस० 31565 एम) आर्मंड कोर, हरविन्द्र सिंह मदान (एस० एस० 31568 ए) इन्फैन्ट्री, उमाकान्त गुप्ता, (एस० एस० 31569 एच) इंजीनियर्स, ज्येष्ठता निदिष्टता, 2/लैफ्टीनेंट, अणोक्त ऋट्टी (एस० एस० 31570 एक्स०) इन्फैन्ट्री, रामाचन्द्रन नायर (एस० एस० 31576 वाई०) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट रविचन्द्रन आर० (एस० एस० 31575 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स, प्रवीर कुमार भारती (एस० एस० 31578 के) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, रवि श्रीनिवास एस० (एस० एस० 31577 एफ०) आर्टिलरी, तनविन्द्र सिंह (एस० एस० 31585 ए) आर्मंड कोर निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, पराग कुमार श्रीवास्तवा (एस० एस० 31583 पी) आर्टिलरी, धीरेन्द्र सिंह गुसाई (एस० एस० 31588 एन) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, पालाकामशेती गणेश कुमार नायडू (एस० एस० 31089 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, मायंक कुमार सिंह (एस० एस० 31592 डब्ल्यू०) इंजीनियर्स, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, 2 कुलवन्त सिंह नगियाल (एस० एस० 31591 एन) इंजीनियर्स, शिव शंकरिया सुरगीमठ (एस० एस० 31599 ए) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट परभून कुमार श्रीवास्तवा (एस० एस० 31598 एक्स०) आर्टिलरी, आनन्द कुमार सचदेवा (एस० एस० 31610 एन०) इन्फैन्ट्री निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, मुकेश वर्मा (एस० एस० 31609 वाई०) इन्फैन्ट्री, विरेन्द्र सिंह रघुवंशी (एस० एस० 31612 वाई०) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, श्री कृष्णा बसन्त जोशी (एस० एस० 31611 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, राजीव सबलोक (एस० एस० 31617 एक्स०) आर्मंड कोर तथा उमाकान्त सिंह (एस० एस० 31617 ए) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, कपिल मोहन सचदेवा (एस० एस० 31616 पी०) आर्टिलरी, अमरजीत सिंह (एस० एस० 31621 ए) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट,

हरिन्द्र पाल सिंह (एस० एस० 31620 एक्स०) इंजीनियर्स, सुनील मनचन्वा (एस० एस० 31630 एफ०) सिगनल्स निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, मनोज गोड़ (एस० एस० 31629 एम) ई० एम० ई० मुकेश कुमार यादव (एस० एस० 31632 एम) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, नवीन वर्मा (एस० एस० 31631 ए) ए० ओ० सी० विरिन्द्र मनहास (एस० एस० 31634 एक्स०) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, सतपाल सिंह उप्पल (एस० एस० 31633 पी०) आर्टिलरी, सुधीर थापा (एस० एस० 31636 एच०) सिगनल्स, निदिष्टता ज्येष्ठता 2 लैफ्टीनेंट अजय शर्मन (एस० एस० 31637 एल०) आर्मंड कोर, जगदीश सिंह रणधावा (एस० एस० 31640 एल०) ई० एम० ई० निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, अजय रामपाल (एस० एस० 31639 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, अरून सिंह राठीर (एस० एस० 31642 डब्ल्यू०) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, एम० बी० दिनकर (एस० एस० 31641 एन०) ए० एस० सी० जिनके नाम भारत के राजपत्र सं० 1129 दिनांक 21 जून 86 तथा भारत के राजपत्र सं० 1295 दिनांक 4 जुलाई 1987 में प्रकाशित है।

निम्नलिखित को पाँच वर्ष के लिए विशेष सैनिक अनुदेश 11 का 64 के अन्तर्गत 12 मार्च 1983 से 2/लैफ्टीनेंट, के पद पर (जो परखाधीन है) परखाधीन समय समाप्त होने पर उसी तिथि से पुष्ट किया जाता है :—

विरेन्द्र सिंह यादव (एस० एस० 31318 वाई०) इंजीनियर्स, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, गुरला रोवन मोक्षानन्दम (एस० एस० 31317 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, जड़ेजा बनराज सिंह एस० (एस० एस० 31320 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, कमरेन्द्र सिंह नेगी (एस० एस० 31319 एफ०) इन्फैन्ट्री, रविन्द्रन भीस (एस० एस० 31333 एन) आर्मंड कोर, तथा सनतानु घोष (एस० एस० 31334 डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता लैफ्टीनेंट, भरत कुमार सिवल (एस० एस० 31332 एल०) आर्मंड कोरडं जोगिन्द्र सिंह (एस० एस० 31340 के) आर्मंड कोर, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, नरेन्द्र कुमार (एस० एस० 31339 पी०) इन्फैन्ट्री, प्रवेज हुसैन (एस० एस० 31344 ए०) मैक इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, अरविन्द्र कुमार कमबोज (एस० एस०—31343 एक्स) आर्टिलरी, सुरेश कुमार के० सी० (एस० एस०—31349 वाई०) ए० ओ० सी०, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, कुलजिन्द्र सिंह (एस० एस०—31348, डब्ल्यू०) इन्फैन्ट्री, शिवशंकर प्रसाध सिंह (एस० एस०—31356पी) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, शान सिंह (एस० एस० 31355एम) आर्टिलरी, दलवीर सिंह (एस० एस०—31371के) इन्फैन्ट्री निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट, भरत चन्द्र डैश (एस० एस०—31370 एफ) आर्टिलरी, प्रवीर कुमार महान्ती (एस० एस०—31377 एल) सिगनल्स निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लैफ्टीनेंट महाजन, दलीप

कुमार जगन्नाथ एस० एस०-31376एच) ए० एस० सी०, निखिल कुमार सिंह (ए० एस०-31379डब्ल्यू) इन्जीनियर्स निदिष्ट ज्येष्ठता 2/लेफ्टीनेंट एटीफन फिलिप (एस० एस०-31378एन) इन्फैन्ट्री, श्रीम प्रकाश नारायण (एस० एस०-31392ए) इन्फैन्ट्री, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लेफ्टीनेंट विनय-कुमार सिंह (एस० एस०-31391एक्स) आमर्ड कोर, कीशिक कुमार सूलाधर (एस० एस०-31394एल) इन्फैन्ट्री तथा जोहन माईकल (एस० एस०-31395एन) आर्टिलरी, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लेफ्टीनेंट सतेन्द्र सिंह पुन्डीर (एस० एस०-31393एच) मंक इन्फैन्ट्री, राजीव वैन्जामिन लयाल (एस० एस०-31398एफ) आर्मड कोर, निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लेफ्टीनेंट राज (कुमार शर्मा एस० एस०-31397वाई) ए० एस० सी०, रजनीश कुमार (एस० एस०-31405एम) इन्जीनियर्स निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लेफ्टीनेंट विनोद बलराम नायर (एस० एस०-31404के) सिगनल्स, विजय कुमार नन्दी (एस० एस०-31418के) आर्टिलरी, प्रतुल शतुरवेदी (एस० एस०-31419एम) आर्टिलरी तथा विनोद वसंत रतनापार्थी (एस० एस०-31420एफ) आर्टिलरी निदिष्टता ज्येष्ठता 2/लेफ्टीनेंट शिव कुमार सारावत (एस० एस०-31417एफ) इन्फैन्ट्री जिनके नाम भारत के राजपत्र दिनांक 28 जनवरी 1984, 31 मई 1986 तथा 12 दिसम्बर 1987 में प्रकाशित हैं ।

एस० सी० जी० शी, ले० कर्नल
सहायक सेना सचिव 8वीं

थल सेना विभाग

सं० 1692, दिनांक 30-9-88-राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसरों की पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

2/लेफ्टीनेंट से लेफ्टीनेंट

सुधीर त्रिपाठी (एस० एस०-31433), ए० सी० —
26 अगस्त 1984 ।

(लेकिन 17 अगस्त 1985 से वेतन गिना जाए)

डी० एच० परब, ले० कर्नल

ए० एम० एस०-8

सेना शाखा

सं० 1693, दिनांक 4-10-88-राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

लेफ्टिनेंट से कैप्टन बनाया जाता है ।

कुलदीप सिंह सान्धू (टी० एफ०-41539), इन्जीनियर्स—
03 जुलाई 1987 ।

सेना शाखा

सं० 1694, दिनांक 3-10-88-राष्ट्रपति निम्नलिखित अफसर को प्रादेशिक सेना सेवा से निष्काशित करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

मेजर पी० के० बहल, टी० ए०-41394, इन्फैन्ट्री—
13 अप्रैल, 1988 ।

एच० डी० सिन्हा, अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

सं० 1695, दिनांक 30-9-88-राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेवा

सेना आयुद्ध कोर

पक्के सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन रनजीत सिंह बर्मा
(जे० सी०-65654एक्स)—01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार मेजर अम्युनिशन तकनीशियन राम प्रसाद
(जे० सी०-65652एम)—01 मई 1988 ।

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक सामान्य कर्तव्य के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक सामान्य कर्तव्य आर गोपाल
कृष्णन नायर (जे० सी०-78244ए)—01 अप्रैल 88 ।

पक्के सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार के रैंक में

पे/ए सूबेदार मेजर लिपिक भण्डार मनबीर सिंह (जे० सी०
80555एक्स)—01 अप्रैल 1988 ।

पक्के सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन बनी सिंह
(जे० सी०-91437वाई)—01 फरवरी 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन जी० अनीसदन
पिल्लै (जे० सी०-92087के)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन दर्शन सिंह जस्साल
(जे० सी०-90648एफ)—06 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन जीत सिंह (जे० सी०-
96876एन)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन चालूवालिल वर्गीश
थोमस (जे० सी०-91250एम)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन बांके लाल वर्मा
(जे० सी०-96873ए)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन सुखेन्दु विकास
बिश्वास (जे० सी०-96871पी)—01 अप्रैल 88 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन गुरमेल सिंह मान
(जे० सी०-91251पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन देवी राम वर्मा
(जे० सी०-91438एफ)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन मनफूल सिंह
(जे० सी०-91252एक्स)---01 अप्रैल 88 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन तारा चन्द दलाल
(जे० सी०-96874एच)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन चन्द्ररामा राम
(जे० सी०-91249एक्स)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन खप्पनी थियागाराज
(जे० सी०-96872एक्स)---01 अप्रैल 88 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन सोहन सिंह (जे०
सी०-101382डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन उग्र सिंह (जे० सी०-
91440वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन गोपालाकृष्णन
वैद्यनाथन (जे० सी०-92224एक्स)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन राम सिंहासन सिंह
यादव (जे० सी०-92086एफ)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन गुलाब सिंह (जे०
सी०-91296के)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार अम्युनिशन तकनीशियन विजय बहादुर सिंह
(जे० सी०-91248पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पक्के सूबेदार लिपिक ए० श्री० सी० के रैंक में

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, सत्य प्रकाश कौशिक
(जे० सी०-114510एफ)---01 फरवरी 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण बन्नी प्रसाद पाण्डे
(जे० सी०-110881एम)---01 मार्च 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण के० के० चेलप्पा
पानीकर (जे० सी०-110884ए०)---01 मार्च 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, मोहन चन्द्र जोशी
(जे० सी०-114519डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, हृदय नारायण सिंह
(जे० सी०-114508एम)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, हनुमन्त पाण्डे
(जे० सी०-114561पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण महादेव पवले (जे०
सी०-114535एन)---01 अप्रैल 1988 ।

सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन राम सरण दास टागरा
(जे० सी०-111250डब्ल्यू)---01 अप्रैल 88 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, निगप्पा पाटील
(जे० सी०-114533एच)---01 अप्रैल 88 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, शिव मूर्ती सिंह
(जे० सी०-114982एक्स)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, शंकर लाल (जे०
सी०-114534एल)---01 अप्रैल 88 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, अश्वथ राज तिवारी
(जे० सी०-114639पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, कृष्णा रवीन्द्रन नायर
(जे० सी०-97706डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, विरेन्द्रा पाल
सक्सेना (जे० सी०-111253के)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, इन्दराज सिंह
(जे० सी०-114537वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, एम० एन० जनार्धनन
नायर (जे० सी०-114523वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, पाती राम (जे०
सी०-111254एम)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, सूर्या नाथ सिंह
(जे० सी०-114538एक्स)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, जय नारायण सिंह
(जे० सी०-111251वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, राम सिंह सेहरावत
(जे० सी०-114557एम)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, ब्रह्म दत्त (जे०
सी०-114522डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, राधा कृष्णन टी०
भार० (जे० सी०-114530पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, कपूर सिंह (जे०
सी०-114532ए)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, वोपी राम (जे०
सी०-111252एफ)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, पृथ्वी राज वैद
(जे० सी०-111249एफ)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, पी० के० कृष्णन
पिल्ले (जे० सी०-114559एक्स)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, श्याम चरण बैनर्जी
(जे० सी०-114528एक्स)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, मदन मोहन मजूमदार
(जे० सी०-114526एम)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, नित्या नन्द पाण्डा
(जे० सी०-114525के)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, बनवारी लाल शर्मा
(जे० सी०-114521एन)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार प्रोविजन, राम बहादुर (जे० सी०-114536एक्स)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, जय राम तवीन (जे० सी०-114986एन)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, हरीशचन्द्र मठपाल (जे० सी०-111243ए)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, सकिन्द्र सिंह धालीवाल (जे० सी०-114991वाई)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, थंगावेल्लु नटाजत (जे० सी०-114640के)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य मोहम्मद सोहरब मियात बिस्ती (जे० सी०-114988वाई)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, वशिष्ठ मुनी तिवारी (जे० सी०-114987डब्ल्यू)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, रतन सिंह (जे० सी०-130907एक्स)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, जितेन्द्र नारायण गुक्ला (जे० सी०-114992एफ)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक भण्डार नियंत्रण, श्याम पडा भाचार्या (जे० सी०-114990डब्ल्यू)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार लिपिक सामान्य कर्तव्य, राधेश्याम दुबे (जे० सी०-114989वाई)---01 मई 1988 ।

पक्के सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० सिंगल तरसेम, सिंह मेहरू के (जे० सी०-104524एन)---01 जनवरी 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० वैपन मन्बर सिंह नेगी (जे० सी०-108001एम)---01 मार्च 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०, सुरेश परैया (जे० सी०-108013एफ)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, धर्म सिंह रावत (जे० सी०-109650के)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, जग सरण शर्मा (जे० सी०-10797 न)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, शिव राम सिंह (जे० सी०-107977के)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्बुनिशन, हरदाम सिंह (जे० सी०-107970ए)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी०, अम्बुनिशन कोहल प्रसाद गौतम (जे० सी०-109649पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, बदाके वीधुराम कुरूप बसकारा कुरूप (जे० सी०-109645वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, बामन (जे० सी०-108011डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०, मन्कियत सिप भगर (जे० सी०-108012वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० अम्बुनिशन प्रभाकरण बेलन्दी (जे० सी०-107972एल)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०, कमल किशोर सिंह (जे० सी०-109841वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, मोहन चन्द्र वोंराह (जे० सी०-108016पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, अनन्त राज राम पाथरे (जे० सी०-110601एन)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी०, जी० एस० एण्ड सी०, हरी प्रसाद (जे० सी०-110422एन)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, घनानन्द जोशी (जे० सी०-109652पी)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० श्री, चन्व कुमार (जे० सी०-111257ए)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी०, देवासया कुरियाकोम करवाटाथेयिल (जे० सी०-109654 ए)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी०, सीता राम वर्मा (जे० सी०-109646एफ)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० आनन्द पी० के० (जे० सी०-108015एच)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० कंचल सिंह (जे० सी०-107974डब्ल्यू)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० रणक लाल (जे० सी०-109651एम)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० रंजीत सिंह नेगी (जे० सी०-107975वाई)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० आनन्द प्रकाश शर्मा (जे० सी०-108014के)---01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० निरन्ताहाक्षा राम (जे० सी०-114540वाई)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० एम० टी० हकीम सिंह (जे० सी०-110427एल)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० प्रफुल्ल चन्द्र वर्मा (जे० सी०-109842एफ)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० धर्मबीर सिंह (जे० सी०-110423डब्ल्यू)---01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० काला गुडा पाटिल (जे० सी०-110605के०)—01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार एम० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० उदय राज गौरया (जे० सी०-110602डब्ल्यू)—01 मई 1988 ।

पक्के सूबेदार चालक के रैंक में

पे/ए सूबेदार ओ० एम० एच० ई० अमल कान्त बैनर्जी (जे० सी०-130938वाई)—01 मार्च 1988 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० रामेश्वर (जे० सी०-132632एन)—01 मार्च 1988 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० दुली चन्द (जे० सी०-131178एम)—01 मार्च 88 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० वी० बीरा मेजीवा रायडू (जे० सी०-134127के०)—01 अप्रैल 88 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० शिव राम (जे० सी०-139138ए)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० नरोत्तम दास (जे० सी०-132633डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० राम प्रकाश (जे० सी०-136543एम)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० वी० मोती राम (जे० सी०-134128एम)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार चालक एम० टी० मोती लाल (जे० सी०-139140एक्स)—01 मई 1988 ।

पक्के सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य सेराज अहमद खान (जे० सी०-109677एफ)—01 फरवरी 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य किशन चन्द (जे० सी०-109863एक्स)—01 मार्च 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य कल्याण जट्टी (जे० सी०-109864एक्स)—01 मार्च 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य बलबीर सिंह नेगी (जे० सी०-109868डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य होशियार सिंह यादव (जे० सी०-110468डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य बट्टी प्रसाद (जे० सी०-109870डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य राज विशोर रावत (जे० सी०-109869वाई)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य बनवारी लाल (जे० सी०-97767एन)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य अनन्त पवार (जे० सी०-109871डब्ल्यू)—01 अप्रैल 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य नन्द किशोर (जे० सी०-110616डब्ल्यू)—01 मई 88) ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य कर्ण सिंह (जे० सी०-110887एन)—01 मई 1988 ।

पे/ए सूबेदार स्टोर हैण्ड सामान्य कर्तव्य राम बहादुर सिंह (जे० सी०-109872वाई)—01 मई 1988 ।

पक्के सूबेदार ई० आर० (यूनिट) के रैंक में

पे/ए सूबेदार ई० आर० (यूनिट) टुफानी राम (जे० सी०-131919एक्स)—01 अप्रैल, 1988 ।

पक्के सूबेदार पेन्टर (यूनिट) के रैंक में

पे/ए सूबेदार पेन्टर (यूनिट) बेरी नरसिम्हा मूर्ति (जे० सी०-144155के०)—01 अप्रैल, 1988 ।

पक्के सूबेदार ओ० एल० पी० के रैंक में

पे/ए सूबेदार ओ० एल० पी० शिव शंकर (जे० सी०-146717पी०)—01 अप्रैल, 1988 ।

पे/ए सूबेदार ओ० एल० पी० शंकर राम (जे० सी०-142761एफ)—01 अप्रैल, 1988 ।

ए० एस० राव,
अवर सचिव

(थल सेना विभाग)

संख्या 1696 दिनांक 30 सितम्बर, 1988—राष्ट्रपति निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

सेना आयुद्ध कोर

नायब सूबेदार लिपिक ए० ओ० सी० के रैंक में

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण मनोहर लाल (सं० 6892448 एफ० अब जे० सी०-175620एम)—28 मार्च, 1988।**

*नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठतम 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी) ।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण श्री कान्त भारद्वाज (सं० 6893114एफ० अब जे० सी०-175621 पी०)—01 मार्च 1988 ।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण काली शंकर पाल (सं० 6893154एच० अब जे० सी०-175622एक्स)—01 मार्च, 1988 ।

हवलदार सामान्य कर्तव्य लिपिक जोगिन्द्र सिंह (सं० 6893400एच० अब जे० सी०-175623ए०)—01 मार्च, 1988 ।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राम प्रताप सिंह (सं० 6893495एन० अत्र जे० सी०-175624एच०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण बरनाम सिंह यादव (सं० 6893680पी० अत्र जे० सी०-175625ए०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन

हवलदार एम० के० टी० अम्पुनिशन ज्ञान सिंह पठानिया (सं० 6892034एक्स० अत्र जे० सी०-175626एन०)—19 फरवरी, 1988 *

* (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० वैपन इन्द्रजात मिश्रा (सं० 6893388एम० अत्र जे० सी०-175627 डब्ल्यू०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० वैपन सोहन लाल यादव (सं० 6893399वाई०)—अत्र जे० सी०-175628वाई०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एम० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० जी० पुरुषन पिल्लै (सं० 6893565एफ० अत्र जे० सी०-175629एफ०)—10 अप्रैल, 1988 **

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० राम वृक्ष (सं० 6893577डब्ल्यू० अत्र जे० सी०-175630डब्ल्यू०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० जी० एम० एण्ड सी० केसर सिंह (सं० 6893584एम० अत्र जे० सी०-175631वाई०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० सिगनल अजमत सिंह (सं० 6893957पी० अत्र जे० सी०-175632एफ०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० सिगनल अरविन्दा सिंह (सं० 6894133वाई० अत्र जे० सी०-175633के०)—22 मार्च, 1988 **।

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एम० के० टी० एम० टी० अमर बल्ल शर्मा (सं० 6894687एक्स० अत्र जे० सी०-175634एम०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० सुमन चन्व (सं० 6895349एम० अत्र जे० सी०-175635पी०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार चालक के रैंक में

हवलदार चालक एम० टी० अमर सिंह (सं० 6892836एफ० अत्र जे० सी०-175636के०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य राम मने ही (सं० 6893546डब्ल्यू० अत्र जे० सी०-175637ए०)—01 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार स्टोर एण्ड तकनीकीशियन के रैंक में

हवलदार स्टोर हेण्ड तकनीकीशियन जुलियस टोपो (सं० 6894267वाई० अत्र जे० सी०-175638एच०)—01 मार्च 1988।

हवलदार स्टोर हेण्ड तकनीकीशियन के.एम. राम (सं० 6894341 एन० अत्र जे० सी०-175639एल०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार पेन्टर (यूनिट) के रैंक में

हवलदार पेन्टर (यूनिट) जोगिन्द्र सिंह (सं० 4444109एम अत्र जे० सी०-175640ए०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार सैडलर एवं एम० के रैंक में

हवलदार सैडलर एच० एच० एम० बुद्धि बहादुर सरकी (सं० 6901214के अत्र जे० सी०-175641एच०)—01 जनवरी, 1988।

नायब सूबेदार लिपिक ए० आ० सी० के रैंक में

हवलदार लिपिक भण्डार प्रवीणजन ज्ञान चन्द्रा शर्मा (सं० 6892834डब्ल्यू० अत्र जे० सी०-175642एल०)—01 फरवरी, 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राम करन खिखर (सं० 6893115के० अत्र जे० सी०-175643एन०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य वीर पाल सिंह (सं० 6893211वाई० अत्र जे० सी०-175644डब्ल्यू०)—01 मार्च 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण योहाननटी टी० (सं० 6893168एच० अत्र जे० सी०-175645वाई०)—01 मार्च 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य राम अरवधेन सिंह (सं० 6893297एच० अत्र जे० सी०-175646एफ०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण राजेन्द्र सिंह (सं० 6893243एफ० अत्र जे० सी०-175647के०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य मुन्नी लाल (सं० 6893293 एम० अत्र जे० सी०-175648एम०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य टोन्डा राम (सं० 6893401 एल० अब जे० सी०-175649पी०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य चन्द्रा भान सिंह (सं० 6893463 अब जे० सी०-175650के०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य सुभाष चन्द्र बहल (सं० 6893539ए० अब जे० सी०-175651एम०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य रिछी राम (सं० 6893540एम० अब जे० सी०-175652पी०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण सन्तोष कुमार द्विवेदी (सं० 6893606ए० अब जे० सी०-175653ए०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण मत्या नारायण सिंह (सं० 6893701एम० अब जे० सी०-175654एच०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार स्टोर कीपर तकनीशियन के रैंक में

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० फिलीप एम० वी० (सं० 6892109के० अब जे० सी०-175655एल०)—28 फरवरी, 1988 *

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० रामाधर (सं० 6893422एफ० अब जे० सी०-175656एन०)—24 मार्च, 1988।**

** (नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० माहेश सिंह (सं० 6895635डब्ल्यू० अब जे० सी०-175657डब्ल्यू०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० सिगनल भगवती प्रसाद (सं० 6894575एक्स० अब जे० सी०-175658डब्ल्यू०)—01 मार्च 1988।

हवलदार एस० के० टी० सिगनल बलजीत सिंह (सं० 6894993एम० अब जे० सी०-175659वाई०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० तिलोक चन्द्रा दत्ता (सं० 6895315वाई० अब जे० सी०-175660एन०) 01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० एम० टी० मुख्तार सिंह (सं० 6895403पी० अब जे० सी०-175661डब्ल्यू०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार चालक के रैंक में

हवलदार चालक एम० टी० नरेश प्रसाद सिंह (सं० 6892758 पी० अब जे० सी०-175662वाई०)—01 फरवरी, 1988।

नायब सूबेदार स्टोर एण्ड सामान्य कर्तव्य के रैंक में

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य सुभा चन्द (सं० 6893159एफ० अब जे० सी०-175663एफ०)—01 जनवरी, 1988।

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य वेद सिंह (सं० 6893831 पी० अब जे० सी०-175664के०)—01 फरवरी, 1988।

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य यश्विन्द्र कुमार (सं० 6892973ए० अब जे० सी०-175665एम०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार स्टोर हेण्ड सामान्य कर्तव्य हरि शंकर (सं० 6895104डब्ल्यू० अब जे० सी०-175666पी०)—01 मार्च, 1988।

ए० एम० राव, अवर सचिव

हवलदार अस्प्युनिशन तकनीशियन श्याम लाल (सं० 6897079एफ० अब जे० सी०-175667एक्स०)—01 जनवरी, 1988।

हवलदार अस्प्युनिशन तकनीशियन शांभू नाथ पाण्डे (सं० 6897547डब्ल्यू० अब जे० सी०-175668ए०)—01 मार्च 1988।

हवलदार अस्प्युनिशन तकनीशियन नरीनाल कान्ती बनर्जी (सं० 6897936डब्ल्यू० अब जे० सी०-175669एच०)—22 मार्च, 1988

*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च, 1988 से दी जायेगी)।

नायब सूबेदार लिपिक ए० श्री० सी० के रैंक में

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य रामा चन्द्रा सावले (सं० 6892677पी० अब जे० सी०-175670वाई०)—01 फरवरी 1988।

हवलदार लिपिक सामान्य कर्तव्य डुंगर सिंह (सं० 6893032वाई० अब जे० सी०-175671ए०)—01 फरवरी, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण बलराम चौबे (सं० 6893145एफ० अब जे० सी०-175672एच०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण लालन सिंह (सं० 6893369एफ० अब जे० सी०-175673एल०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण केवल कृष्ण (सं० 6893541एक्स० अरब जे० सी०-175674एन०)—01 मार्च 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण कमलेश नारायण सक्सेना (सं० 6893500एन० अरब जे० सी०-175675डब्ल्यू०) 01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण जगदीश (सं० 6893676 वाई० अरब जे० सी०-175676 वाई०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार लिपिक भण्डार नियंत्रण देव नारायण यादव (सं० 6893702पी० अरब जे० सी०-175677एफ०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार स्टोर क्रीपर तकनीशियन के रैंक में

हवलदार एस० के० टी० अम्युनिशन हकम सिंह (सं० 6892179एच० अरब जे० सी०-175678के०)—01 फरवरी, 1988।

हवलदार एस० के० टी० अम्युनिशन रतन प्रकाश (सं० 6892569एल० अरब जे० सी०-175679एम०)—01 फरवरी 1988।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० दीप चन्द्र शर्मा (सं० 6893391एम० अरब जे० सी०-175680एफ०) 01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० वैपन बुद्ध राम (सं० 6893333 एच० अरब जे० सी०-175681के०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० रजनी कन्ठा शर्मा (सं० 6894727एन० अरब जे० सी०-175682एम०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० मूरज भान (सं० 6893578 वाई० अरब जे० सी०-175683पी०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० जी० एस० एण्ड सी० हरभजन सिंह (सं० 6893586एक्स० अरब जे० सी०-175684एक्स०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० गिगमल राजे सिंह रावत (सं० 6893953 वाई० अरब जे० सी०-175685ए०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार एस० के० टी० मिगनल बाबू राम गिरी (सं० 6894573 वाई० अरब जे० सी०-175686एच०)—10 मार्च, 1988।**

(*नायब सूबेदार के रैंक में बतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 1988 से दी जायेगी)।

हवलदार एस० के० टी० वैपन सत्या प्रकाश (सं० 6894797एन० अरब जे० सी०-175687एल०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार चालक के रैंक में

हवलदार चालक एम० टी० रग लाल (सं० 6892798 डब्ल्यू० अरब जे० सी०-175688एन०)—01 मार्च, 1988।

हवलदार चालक एम० टी० शेर सिंह (सं० 6892895एन० अरब जे० सी०-175689डब्ल्यू०)—01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार स्टोर हेण्ड तकनीशियन के रैंक में

हवलदार स्टोर हेण्ड तकनीशियन सूत्रामणी उमापाथी (सं० 6893655एच० अरब जे० सी०-175690एल०)—01 जनवरी, 1988।

हवलदार स्टोर हेण्ड तकनीशियन प्रताप चन्द (सं० 6894192एल० अरब जे० सी०-175691एन०)—01 फरवरी, 1988।

हवलदार स्टोर हेण्ड तकनीशियन धीरेन्द्रा नाथ पोदार (सं० 6894137पी० अरब जे० सी०-175692 डब्ल्यू०)—01 फरवरी 1988।

एह० एस० राव, अवर सचिव

थल सेना विभाग

सं० 1697, दिनांक 4 अक्टूबर, 1988-राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :—

नियमित सेना

तोपखाना रेजीमेंट

सबस्टेन्टिव सूबेदार (क्लर्क) के पद पर

नायब सूबेदार मानवतिरा माचय्या भीमय्या (जे० सी०-134705एन०)—01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार राम बचन सुन्धार (जे० सी०-134706-डब्ल्यू०)—01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार चन्द्रभान सिंह यादव (जे० सी०-132699एम०) 01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार गुरमीत सिंह संधेरा (जे० सी०-132700डब्ल्यू०)—01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार मानिका गोंडर चिन्तप्यन (जे० सी०-136086के०)—01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार श्री राम (जे० सी०-136184के०)—01 अगस्त, 1988।

नायब सूबेदार सुहिनंदर सिंह विक्रं (जे० सी०-136161एच०)—01 अगस्त, 1988।

सबस्टेन्टिव सूबेदार (जी० डी०) के पद में

नायब सूबेदार बाल कृष्ण (जे० सी०-136217के०)—01 जुलाई, 1987।

नायब सूबेदार दामोदर राव (जे० सी०-155543एफ०) 01 मार्च, 1988।

नायब सूबेदार धूप सिंह (जे० सी०-136205 पी०)---
01 जून, 1988 ।

नायब सूबेदार थयाथाथिल लक्ष्मी बालकृष्णन
(जे० सी०-135101एफ) 01 जून 1988 ।

नायब सूबेदार एम० के अब्दुला (जे० सी०-149249एल०)
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार चन्द्रा पानी कृष्णा राम (जे० सी०-
158480पी०)---01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार प्रभाकरन (जे० सी०-156263ए०)
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार चरन सिंह (जे० सी०-135443पी०)---
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार इन्द्रपाल सिंह (जे० सी०-132208एल०)---
01 जुलाई, 1988

नायब सूबेदार जय सिंह (जे० सी०-139471बाई०)---
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-138615के०)---
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार अरुमुगम थन्गाराज (जे० सी०-140159
एच०)---01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार जगदीश प्रकाश (जे० सी०-155871पी०)---
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार गुरनाम सिंह (जे० सी०-146275एफ०)---
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार शेर सिंह (जे० सी०-118354ए०)---01
जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार जय लाल (जे० सी०-151030पी०)---
01 जुलाई, 1988 ।

नायब सूबेदार चन्द्र दत्त (जे० सी०-148110एफ०)---
01 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार उत्तम सिंह (जे० सी०-133281 डब्ल्यू०)---
01 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार प्रल्हाद (जे० सी०-130881एन०)---
01 अगस्त, 1988 ।

नायब सूबेदार शितल प्रसाद (जे० सी०-139327के०)---
01 अगस्त, 1988 ।

सं० 1698, दिनांक 23 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित
नियुक्तियों, नामों के आगे की गई तारीखों से करते हैं :—(नौसेना अनुदेश
15/69 देखें)

भारतीय नौसेना

स्थायी काष्ठर

मास्टर चीफ पेट अफसर प्रथम श्रेणी के रैंक में

क्र० सं०	नाम	निजी सं०	रैंक	तारीख
1	2	3	4	5
1.	पी० सी० गौर	048669एन	एम सी पी ओ-2	13-08-88
2.	के० जान	051823एफ	एम सी ई ए ए आर-2	01-02-87
3.	एम बेनियल	067060के	एम सी पी ओ ए एफ-2	01-04-86
4.	बाई० लाल	063763टी	एम सी पी ओ सी के (एम)-2	01-01-86
5.	अमगर अली	049000आर	एम सी एम ई-2	01-04-86
6.	ए एस जोराफ	064848बी	एम सी पी ओ टीप-2	01-01-86
7.	भवन चन्द्र	046738जैड	एम सी पी ओ-2	01-03-86
8.	पी० एन० उपाध्याय	047716बाई	एम सी पी ओ-2	01-02-86
9.	बी० सी० सिंह	047760के	"	01-04-86
10.	एम० एम० नेगी	048070ए	"	01-02-86
11.	के० सूर्य नारायण	048125ए	"	01-03-86
12.	कनी राम	049054एन	"	01-04-86
13.	के० ए० आर० पन्डारे	049074एन	"	01-04-86
14.	एम० सी० बी० कुलकर्णी	049216एफ	"	01-03-86
15.	एच सिंह	049386टी	"	01-03-86
16.	बी० राम	049553बाई	"	01-03-86
17.	जी० एन० ब्राजवा	049639टी	एम सी पी ओ-2	01-02-86
18.	के० पी० स्पेन्त	049778एच	"	01-04-86
19.	पी० एन० राय	049845के	"	01-03-85
20.	पी० सिंह	049934एन	"	01-04-86
21.	एम० एन० ब्राजवा	064091एन	"	01-03-86
22.	एल० राम	064724ए	"	01-03-85
23.	बी० बी० सिंह	064762एन	"	01-04-86
24.	एम० ज० पाठक	064771एच	"	01-03-86
25.	पी० सी० बायुदेवन	065584एफ	"	01-03-86
26.	एम० टी० एन्डानी	065586के	"	01-03-86
27.	एस० एस० राजत	065925एफ	"	0-02-86
28.	एस० एस० चौहान	065934ए	"	01-02-86
29.	आर० पी० यादव	066078बी	"	01-02-86
30.	एम० एस० चौहान	066086बाई	"	01-03-86

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
31.	डी सिंह	066755टी	एम सी पी ओ-2	01-03-86	70.	अहमार्थ कुरो	080895बी	एम सी पी ओ राइटर-2	1-1-86
32.	इन्दर सिंह	066762एच	"	01-04-85	71.	बिहारी लाल	080919एच	"	1-2-86
33.	एन एन मेहता	066883एच	"	01-04-86	72.	एन चन्द	080954एन	"	1-4-86
34.	आर सिंह	066944वाई	"	01-05-86	73.	के पी रस्मोनाल	081113जैड	"	1-4-86
35.	पी राम	066964टी	"	01-04-86	74.	बी टी अलैजीडर	081137बी	"	1-4-86
36.	पी सिंह	066998इन्स्यू	"	01-03-86	75.	डी वर्धराजन	064339ए	एम सी पी ओ	1-1-86
37.	के सी माम्मेन	067021वाई	"	01-03-86	76.	बी एम रावत	080788ए	"	1-2-86
38.	पी सिंह	067118टी	"	01-03-86	77.	पी सिंह	080850ए	"	1-2-86
39.	के एम वैद्यु	067230वाई	"	01-04-86	78.	डी पाल सिंह	080983बी	"	1-3-86
40.	एम सी मथार्थ	067468एन	"	01-06-85	79.	के सी गुप्ता	081063के	"	1-4-86
41.	के लाल	067660जैड	"	01-03-86	80.	बी बी बापा	081064एन	"	1-4-86
42.	आर सिंह	067688एन	"	01-03-86	81.	पी के आर बीधरी	066367के	एम सी पी ओ स्टुडेंट-2	1-1-86
43.	ओम प्रकाश	067779इन्स्यू	"	01-04-86	82.	बी एस रावत	080826वाई	"	1-1-86
44.	एम एल शर्मा	067864एन	"	01-04-86	83.	ए एम कोथियाल	080851बी	"	1-1-86
45.	ओ पी यादव	086126टी	"	01-03-86	84.	जे ए डायस	042691ए	एम सी पी ओ सूजीसियन-2	1-2-86
46.	बी लाल	086391इन्स्यू	"	1-4-86	85.	शंकर दास	066256एच	एम सी पी ओ ए एफ-2	1-6-86
47.	जी गम	087210एफ	"	1-5-86	86.	के ए देवन	086833जैड	एम सी ई एल ए-2	1-5-86
48.	जे चन्द	066782बी	"	1-5-85	87.	डाल चन्द	048487जैड	एम सी ए (ए एच)-2	1-5-86
49.	एन एस पहलू	046567के	एम सी एट आर्म्स-2	1-2-86	88.	आर कंजाले	067911इन्स्यू	"	1-5-86
50.	गुरचरण सिंह	048304एच	"	1-3-86	89.	एच पी मिश्रा	049200इन्स्यू	"	1-5-86
51.	के के आर एस नायर	063774टी	"	1-2-86	90.	जे पाल	067886एन	एम सी ए (पी एच)-2	1-5-86
52.	अवतार सिंह	065338वाई	"	1-1-86	91.	डी शिन्डे	082615एन	एम सी ए (मैट)-2	1-5-86
53.	जे सिंह	065498के	"	1-1-86	92.	एम राम	088086वाई	एम सी ए (एस ई)-2	1-5-86
54.	एन एम मानप्पा	066624इन्स्यू	"	1-3-86	93.	रमेश चन्द	092278जैड	एम सी ई एल ए-2	1-5-86
55.	पूरन चन्द	049678एफ	एम सी पी ओ आर (टैक) 2	1-3-86	94.	एस सिंह	051966एफ	एम सी ई ए ए-2	1-6-86
56.	जे एस नरबाल	049960वाई	"	1-3-86	95.	ए हर्लेगो	051770के	"	1-6-86
57.	के आर जैता	066014एच	"	1-3-86	96.	एम पी जोसेफ	067243ए	एम सी ए (मेट)-2	1-1-86
58.	घान सिंह	065695एच	"	1-3-86	97.	ए के देवगन	051858ए	एम सी ए ए-2	1-6-86
59.	एस आर आनन्द	063274एफ	एम सी पी ओ एम ए-2	1-1-86	98.	बी सिंह	048161एच	एम सी पी ओ ए एफ-2	1-3-86
60.	हरपाल सिंह	064010बी	"	1-2-86	99.	आर एस पाण्डेय	048335बी	एम सी ए (ए एच)-2	1-4-86
61.	गुरदास राम	063454आर	एम सी पी ओ टॉप-2	1-1-86	100.	एस एस भट्टी	047589एच	"	1-1-86
62.	सिगराम	063675टी	"	1-1-86	101.	आर सी राय	051968के	एम सी ई ए ए-2	1-6-86
63.	पी के कृष्णन्	065261वाई	"	1-1-86	102.	पी एन सिंह	048486वाई	एम सी इन्स्यू एम-2	1-6-86
64.	के राज	066562बी	"	1-1-86	103.	जे आर शीर्ष	052984इन्स्यू	एम सी ई ए पी-2	1-6-86
65.	आर एम वर्मा	081560आर	एम सी पी ओ आर (टैल) 2	1-5-86	104.	पी लाल	086082टी	एम सी मैक (आर)-2	1-6-86
66.	जी पिल्लई	086834ए	"	1-4-86	105.	मुभाप चन्द	087435टी	एम सी मैक (आर)-2	1-3-86
67.	आर एन जी पिल्लई	086880एफ	"	1-3-86	106.	बी पी कश्यप	092526एन	एम सी ई ए आर-2	1-5-86
68.	एम मुन्ना	087957बी	"	1-4-86	107.	के प्रेगत	092612एच	"	1-6-86
69.	टी मां चेरियान	080609बी	एम सी पी ओ राइटर-2	1-1-86	108.	आर श्री निवासन	093192ए	"	1-6-86

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
109.	बी सी गौड़	068927एफ	एम सी मैक-2	1-6-86	145.	के राम	063417एफ	एम सी पी ओ कुक (ओ)-2	1-3-86
110.	बी एस हिलो	067483वाई		1-6-86	146.	पी घोष	064201एन	"	1-3-86
111.	बी सिंह	086586एन	"	1-6-86	147.	एस के पाल	063511डब्ल्यू	"	1-1-86
112.	जी बी लिपाडी	086830टी	"	1-6-86	148.	के सिंह	042654डी	एम सी पी ओ (म्यूजिशियन)-2	1-1-86
113.	जे सिंह	087081एन	"	1-3-86	149.	एम बरागी	049672डी	एम सी पी ओ आर (टैल)-2	1-4-86
114.	श्रीश अली	087674के	"	1-5-86	150.	जे पी मिश्रा	088813जेड	एम सी मैक-2	1-3-86
115.	बाई सित्थाराज	087987वाई	"	1-6-86	151.	एस के भट्टाचार्य	063958के	एम सी पी ओ एम ए-2	1-1-86
116.	डी झा	051666जेड	एम सी ई आर ए-2	1-5-86	152.	एम सिंह	064357टी	एम सी पी ओ कुक (एस)-2	1-3-86
117.	के प्रसाद	180053एन	"	1-3-85	153.	बी सी ठाकुर	066215आर	एम सी एम ई-2	1-3-86
118.	जे के चक्रवर्ती	180172एच	"	1-6-86	154.	डी एन ठाकुर	180026ए	एम सी ई ए पी-2	1-7-85
119.	बाई एम एम राव	048263आर	एम सी एम ई-2	1-3-86	155.	गोविन्द कनिस्कर	080391एच	एम एम सी पी ओ-2	1-4-86
120.	के डी शर्मा	048775वी	"	1-4-86	156.	एम के घोष	066481ए	एम सी पी ओ स्टुडेंट-2	1-1-86
121.	जय सिंह	049219एन	"	1-4-86	157.	के सिंह राजा	080963डब्ल्यू	एम सी पी ओ राइटर-2	1-3-86
122.	आर एस मेहरा	066002एफ	"	1-2-86	158.	बी मलयदेवन	087086जीड	एम सी पी ओ आर (टैल)-2	1-3-86
123.	एस राज	066499के	"	1-3-86	159.	जिया लाल	063208एफ	एम सी पी ओ टॉप-2	1-2-85
124.	जी बी जोशी	086324टी	"	1-4-86	160.	एच नाथ	051491ए	एम सी ए ए (डब्ल्यू)-2	1-6-84
125.	सी बी सिंह	089009डब्ल्यू	एम सी ई एल पी-2	1-5-86	161.	एम सोहटटन	051691एफ	एम सी ई ए ए आर-2	1-4-85
126.	बी सिंह	088946ए	एम सी ई एल आर-2	1-5-86	162.	एस बी गांगुली	047759डब्ल्यू	एम सी ए ए एच-2	1-6-85
127.	पी एस नेगी	049179वाई	एम सी पी ओ-2	1-4-86	163.	बी आर राजू	048095एच	एम सी पी ओ ए एफ-2	1-5-85
128.	पी पी एम नायर	049464डब्ल्यू	"	1-2-86	164.	एम जी वनजी	048562डब्ल्यू	एम सी पी ओ ए ओ एफ-2	01-05-85
129.	जयराम सिंह	067604वाई	"	1-5-86	165.	पी सी जी नायर	048658एन	एम सी ए ए एच-2	01-06-85
130.	रतन लाल	086491वाई	"	1-4-86	166.	पी पी लाल	051741डब्ल्यू	एम सी ए ए-2	01-02-85
131.	जय सिंह	049219एन	"	1-4-86	167.	ए के मरेश्वर	051862डब्ल्यू	"	01-07-85
132.	एम राय	054541एच	एम सी एम-2	1-5-86	168.	जे सिंह	065547वाई	एम सी ए ए एच-2	01-05-85
133.	रामजी प्रसाद	067144ए	एम सी एम ई-2	1-4-86	169.	आर आर कोठारी	087227डब्ल्यू	एम सी ई एल ए-2	01-05-85
134.	आर निजामुद्दीन	180071बी	एम सी ई आर ए-2	1-6-86	170.	हरवंश सिंह	089344एफ	"	01-05-85
135.	एस एस शर्मा	067610ए	एम सी पी ओ आर (टैल)-2	1-4-86	171.	एम एल चौहान	090395डब्ल्यू	एम सी ए एम-2	01-03-85
136.	जी सुभा- मनियम	086759एफ	"	1-4-86	172.	के मंधार	046425एन	एम सी पी ओ-2	01-04-85
137.	सी एन सिंह	090219डब्ल्यू	एम सी मैक (ए आर)-2	1-6-86	173.	डी सिंह	046466एफ	"	01-03-85
138.	बी सिंह	087218जीड	एम सी ई एल पी-2	1-5-86	174.	एच बी राजन	046840एफ	"	01-04-85
139.	आर सिंह	086661एच	एम सी पी ओ-2	1-4-86	175.	डी एस वेदी	047461टी	"	01-04-85
140.	जी चन्द	066677आर	"	1-3-86	176.	के एस वर्मा	047466बी	"	01-02-85
141.	के राम	066973एन	"	1-3-86	177.	पी एम के नायर	048262एन	"	01-02-85
142.	बी एन डिमरी	049549एन	"	1-3-86	178.	ए के चक्रवर्ती	049141के	"	01-01-85
143.	एम के परमराज	080578एच	एम एम सी पी ओ-2	1-1-86	179.	एल बी सिंह	049471के	"	01-02-85
144.	बी टी अन्ना- स्वामी	063283ए	एम सी पी ओ कुक (एस)-2	1-2-86	180.	पी सी कृष्णन्	064540एच	"	01-04-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
181.	जे सी यादव	064610टी	"	01-04-85	213.	जे निङ्ग	066908आर	"	01-05-85
182.	जोगिन्दर सिंह	066783एफ	"	01-05-85	214.	आर आर सिंह	067810आर	"	01-04-85
183.	ए पी मलिक	086860के	"	01-05-85	215.	टी जोशी	086141ए	"	01-05-85
184.	टी एस करयात	087254एफ	"	01-06-85	216.	सी बी जोग	051676वाई	एम सी ई ए आर-2	01-10-84
185.	के बी बालचन्द्र	180127एफ	एम सी ई ए पी-2	01-06-85	217.	आर एस मिश्र	051681एच	"	01-10-84
186.	आर ब्रजेश	063160वाई	एम सी पी ओ टॉप-2	01-01-85	218.	श्रीराम सिंह	082434ए	एम सी ई एल पी-2	01-05-85
187.	बी दास	045944डब्ल्यू	एम सी एट आर्म्स-2	01-01-85	219.	पी एम पाव	052764डब्ल्यू	एम सी एम डब्ल्यू ए-2	01-06-84
188.	एफ सिंह	047794जैड	"	01-03-85	220.	टी गंगाधरन	066572ए	एम सी मैक-2	01-06-84
189.	आर के एस भवोरिया	052943ए	एम सी ई आर ए-2	01-04-85	221.	राजगोपालन	0668829के	"	01-06-84
190.	के टी जोसेफ	067015एच	एम सी मैक-2	01-06-85	222.	एम सिंह	067978वाई	एम सी मैक-2	01-03-85
191.	आर अचेवर	086101के	"	01-06-85	223.	जे पी शर्मा	047049एफ	एम सी ए एस ई-2	01-08-84
192.	एल सिंह	086045एच	"	01-03-85	224.	जी सी शर्मा	048344जैड	एम सी ए ए एच-2	01-05-85
193.	आर के शर्मा	180088टी	एम सी ई आर ए-2	01-04-85	225.	जे एम पन्नु	048399जैड	एम सी पी ओ ए एफ-2	01-03-84
194.	बी सिंह	047343जैड	एम सी ई एल आर-2	01-01-85	226.	एन एम राव	048449एन	एम सी ए एम-2	01-05-84
195.	पी कुमार	069188वाई	एम सी ई एल पी-2	01-05-85	227.	के लाल	048996एफ	एम सी पी ओ ए ओ एफ-2	01-06-85
196.	के सिंह	083644ए	"	01-06-85	228.	जे बी फर्नाण्डिस	051589जैड	एम सी ए ए-2	01-06-85
197.	एम आर चक्रवर्ती	046499एफ	एम सी पी ओ-2 आरपी-1	01-04-85	229.	एम सिंह	064581ए	एम सी ए ए एच-2	01-08-84
198.	जी आर रेड्डी	047102ए	एम सी पी ओ-2 जी-1	01-05-85	231.	टी कोशे	065170आर	एम सी पी ओ ए एफ-2	01-02-84
199.	पी ऐकफ	047855एन	एम सी पी ओ-2 टी ए एम-1	01-08-84	231.	सी गोपाल-कृष्णन्	067679टी	एम सी ए सैट-2	01-06-85
200.	एच एच काजी	048273एन	एम सी पी ओ-2 जी-1	01-06-84	232.	एच चन्द	081399जैड	एम सी ई एल ए आर-2	01-08-84
201.	पी एम गोसाई	049183एफ	"	01-07-84	233.	के बी के कुट्टी	088805एफ	एम सी ई एल ए-2	01-06-85
202.	जे सिंह	064073वाई	एम सी पी ओ-2 स्पोर्ट्स-1	01-04-85	234.	यू एम राठोर	089210ए	एम सी मैक ए एल-2	01-07-84
203.	ए के बोबे	064316जैड	एम सी पी ओ-2 यू डब्ल्यू-1	01-04-85	235.	के एम सिंह	091720एफ	एम सी ए ए-2	01-07-84
204.	भगवान कदम	065902बी	एम सी पी ओ-2 पी आर-1	01-08-84	236.	टी डी पल्ल	091834आर	"	01-07-85
205.	ए सिंह	066981एफ	एम सी पी ओ-2 एसआर-1	01-04-85	237.	बी एस पठनिया	063265के	एम सी पी ओ एम ए-2	01-03-85
206.	एम एस बाबल	067405डब्ल्यू	एम सी पी ओ-2 जी-1	01-05-85	238.	बी बी सिंह	068290टी	"	01-05-85
207.	ए एच खान	080549टी	एम एस सी पी ओ-2	01-01-84	239.	के लाल	063411टी	"	01-01-85
208.	पी एम पीटर	063529के	एम सी पी ओ टॉप-2	01-01-84	240.	एस के साह	063559बी	"	01-02-85
209.	के लाल	063534वाई	"	01-01-84	241.	बी बिस्वास	063564आर	"	01-02-85
210.	आर एम पांडे	063515बी	एम सी पी ओ कुक (एस)-2	01-01-84	242.	सी एस कांगो	063706एन	"	01-04-85
211.	एम सिंह	065320एफ	एम सी एम ई-2	01-05-85	243.	आर एस यादव	047020आर	एम सी पी ओ आर टैल-2	01-06-84
212.	सी बी ओला	066884के	"	01-05-85	244.	जे एम गिल	086497के	एम सी पी ओ आर टैक-2	01-06-85
					245.	डी सिंह	045744आर	एम सी पी ओ-2	01-03-85
					246.	के एस बुगालियो	047298वाई	"	01-01-85
					247.	के एस रायत	047486जैड	"	01-03-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
248.	ए एस ब्रिज्जन	047863एफ	,,	01-01-85	282	जे एन शर्मा	063993आर	एम सी पी ओ कुक (ओ)-2	1-1-85
249.	राम कुमार	049345जैड	,,	01-03-85	283	डी प्रसाद	065312एन	एम सी पी ओ स्टुडेंट्स-2	1-1-85
250.	आर एस चौहान	063822ए	,,	01-04-85	284	डी सिंह	080329टी	,,	1-2-85
251.	बी एम परदेवी	064808टी	,,	01-03-85	285	पी सिंह	065329ए	,,	1-1-85
252.	डी सिंह	064989बी	एम सी पी ओ-2	1-4-85	286	पी पी शनकरप्पन	064187एफ	एम सी पी ओ कुक-2	1-3-85
253.	के सिंह	066059के	,,	1-4-85	287	जी एम रावत	080478ए	एम सी पी ओ राष्ट्र-2	1-2-85
254.	एच सिंह	066087जैड	,,	1-4-85	288	जी एस सुहाग	081036जैड	,,	1-4-85
255.	एस पी सिंह	066731एन	,,	1-6-85	289	के के आर नायर	080843के	,,	1-3-85
256.	आर के ससुप्रिया	067132जैड	,,	1-6-85	290	एस सिंह	065660बी	,,	1-1-85
257.	डी डी भट्ट	067988डब्ल्यू	,,	1-5-85	291	टी के जार्ज	080172के	,,	1-2-85
258.	सी डी सिंह	066231ए	एम सी एम ई-2	1-4-85	292	सी एस चौहान	080280एफ	,,	1-2-85
259.	हरि राम	049412ए	,,	1-7-85	293	एस पी सिंह	080870आई	,,	1-3-85
260.	एच सिंह	049033आर	,,	1-5-85	294	जी सी चौधरी	080991आई	,,	1-4-85
261.	एच एस जैन	049351एन	,,	1-7-85	295	जी एस सुहरा	048362आर	एम एस सी पी ओ-2	1-1-85
262.	पी सिंह	051584एन	एम सी ई ए ए आर-2	1-7-85	296	आर एन गुप्ता	065904एच	,,	1-2-85
263.	एन सिंह	089054आई	एम सी ई एल ए आर-2	1-5-85	297	एम सिंह	080109टी	,,	1-1-85
264.	एम सिंह	088334के	एम सी मैक ए आर-2	1-2-85	298	ए सिंह	080389बी	,,	1-3-85
265.	एम आर्ष के शाथा	091734एन	एम सी ए ए-2	1-2-85	299	बी पी शर्मा	080228एन	,,	1-1-85
266.	एस बी रहमान	048808बी	एम सी पी ओ ए एफ-2	1-5-85	300	जी सिंह	080707ए	,,	1-3-85
267.	एच लैट कुआंगा	047712एन	एम सी ए ए एन-2	1-6-85	301	आई निकाम	080183के	,,	1-2-85
268.	आर के घोष	048215एफ	एम सी पी ओ ए ओ एफ-2	1-6-85	302	जी सिंह	080493आर	,,	1-1-85
269.	डी सी दत्ते	088398एफ	एम सी मैक ए आर-2	1-3-85	303	बी पी भारतीय	049078टी	,,	1-2-85
270.	बी राम	089661ए	,,	1-3-85	304	एक्स अरुण	080238के	,,	1-1-85
271.	टी एम नायर	086909आई	एम सी सैट-2	1-5-85	305	बी के बी नायर	086445टी	एम सी पी ओ आर टैल-2	1-6-85
272.	जी एस संघु	046873एफ	एम सी एट आर्से-2	1-2-85	306	पी राम	067979जैड	,,	1-5-85
273.	एस सिंह	046615एच	,,	1-1-85	307	ओ के गंगाधरन	047264एच	,,	1-5-85
274.	बी डी सिंह	045885के	,,	1-1-85	308	के पी जी नायर	063539एच	एम स व ओ एम ए-2	1-2-85
275.	डी सिंह	063481ए	एम सी पी ओ कुक (एस)-2	1-2-85	309	डी पी पण्डेय	063331के	,,	1-6-85
276.	बी नन्द	063627एच	,,	1-1-85	310	एल बाज	042640के	एम सी पी ओ स्मूजिसियन-2	1-1-85
277.	आर ए सिंह	063671एच	,,	1-1-85	311	जी प्रसाद	067551ए	एम सी मैक-2	1-3-85
278.	एल नन्द	063953जैड	,,	1-2-85	312	सीता राम	069025ए	एम सी ई एल आर-2	1-6-85
279.	जे डी मस्करहास	064177एच	,,	1-4-85	313	जे एस जसवाल	069272एन	,,	1-6-85
280.	एस जे सिंह	064204डब्ल्यू	,,	1-3-85	314	एस बी सिंह	082038ए	,,	1-3-85
281.	एच सीहम्मद	063959एन	एम सी पी ओ कुक (ओ)-2	1-1-85	315	एस एस हंम	086836एफ	एम सी मैक-2	1-4-85
					316	के डी के कुट्टी	088805एफ	एम सी ई एल ए-2	1-6-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
317	अर्जुन सिंह	044565के	एम सी पी ओ-2	1-1-84	346	जगन सिंह	046133जैड	एम सी पी ओ एट आर्म्स-2	1-1-84
318	अनी राम	046647टी	"	1-8-84	347	घनश्याम	063449बी	एम सी पी ओ टाय-2	1-1-84
319	कुलवंत सिंह	048820एफ	"	1-6-84	348	दलीप सिंह	042609आर	एम सी पी ओ म्यूजिसियम-2	1-1-84
320	कृष्णा गनु सखोरे	064588टी	"	1-9-84	349	संत सिंह	086495एफ	एम सी ई एल आर-2	1-8-84
321	दया नन्द नोटियाल	064744बी	"	1-2-84	350	सुल्तान सिंह	067772बी	एम सी मैक-2	1-6-84
322	जय सिंह	064758बी	"	1-9-84	351	कंवर राम दूवी	052855ए	एम सी ई आर ए-2	1-9-84
323	प्रभुदयाल सिंह	064813बी	"	1-8-84	352	बैलंगट्टू कुट्टापन नारायण पिल्ले	052944बी	"	1-7-84
324	राम गोपाल	064929टी	"	1-6-84	353	बबतावर सिंह	090360आर	"	1-9-84
325	जय नारायण सिंहा	065122एफ	"	1-2-84	354	कृष्ण कुमार श्रीवास्तव	052985वार्ड	एम सी ई ए पी-2	1-7-84
326	ककूपा कलियप्पन	065406ए	"	1-7-84	355	बालिल गोविन्दन	051598इन्ड्यू	एम सी ई ए आर-2	1-4-84
327	कोकथ गोविन्दन	066684एफ	"	1-8-84	356	प्रवीर कुमार नाथ	051618आर	"	1-10-84
328	रिसाल सिंह आर्य	066729एच	"	1-8-84	357	रक्षपाल सिंह	089995के	"	1-6-84
329	धमर चन्द कोशल	066799टी	"	1-3-84	358	शिवराज सिंह	091939बी	"	1-10-84
330	भास्कर बिस्वाल	067631एच	"	1-8-84	359	रणवीर प्रसाद	069235बी	एम सी मैक (आर)-2	1-9-84
331	मुन्वर सिंह रावन	049734एच	एम सी पी ओ टैक-2	1-7-84	360	हरमजन सिंह संघु	087076ए	"	1-9-84
332	दया किशन जोशी	048175आर	एम सी पी ओ टैक-2	1-7-84	361	राजन्द्र प्रसाद	088891ए	"	1-6-84
333	कुलदीप सिंह बघवाल	065811वार्ड	एम सी पी ओ आर टैक-2	1-7-84	362	कालीबिडी नरसिम्हा राजू	046572वार्ड	एम सी ए (ए एच)-2	1-5-84
334	आत्मा सिंह	066253ए	"	1-4-84	363	पालनपडियन कुन्ही मोर्षीयन कुट्टी	046985के	एम सी पी ओ ए ओ एफ-2	1-6-84
335	राज किशोर प्रसाद	063194जैड	एम सी पी ओ एम ए-2	1-1-84	364	पारी अब्दुल कादिर	051594के	एम सी ए ए-2	1-5-84
336	गुरचरण सिंह	063421आर	"	1-2-84	365	गुरदियाल सिंह	051673आर	"	1-7-84
337	मुन्सूमी	064899जैड	एम सी पी ओ राइटर-7	1-1-84	366	बी बी राज	051557ए	"	1-5-84
338	विश्वनाथन पंचपकेसन	065468टी	"	1-1-84	367	सी श्रीनिवासन	091781इन्ड्यू	"	1-5-84
339	हरदयाल सिंह	066406जैड	"	1-1-84	368	गोविन्दासामी नन्दकुमार नायडू	051307एच	एम सी ई ए ए आर-2	1-6-84
340	शिव लीजन पाण्डेय	080255जैड	"	1-1-84	369	मंगूररमन प्रसादचन्द्रन नाथर	051624बी	"	1-7-84
341	प्रीतम सिंह	080269एफ	एम सी पी ओ राइटर-2	1-1-84	मास्टर पीक पीटी अफसर द्वितीय श्रेणी के रैंक में				
342	सोहन सिंह	066071एन	एम एस पी ओ-2	1-1-84	1	एच सी बजेथा	082945एन	सी पी ओ	01-10-86
343	धामस जोसेफ	080201ए	"	1-1-84					
344	अक्षयपरमियल जोसेफ जेवियर	064416ए	एम सी पी ओ स्टुडेंट-2	1-1-84					
345	परम राम	063178एन	एम सी पी ओ कुक (एस)-2	1-1-84					

1	2	3	4	5
2	दयानन्द	083861डब्ल्यू	सी पी ओ	01-12-86
3	आर एम राजपूत	084021एच	"	01-12-86
4	ए० सिंह	085224डी	"	01-12-86
5	के० सिंह	068699के	सी पी ओ आर (टैक)	01-12-86
6	एन० सिंह	084622जैड	"	01-12-86
7	पी० एन० सिंह	084993टी	"	01-12-86
8	के० मिश्रा	089939एच	"	01-12-86
9	यू० बाल सुबामनियम	093868एन	"	01-12-86
10	बी० सिंह	069482आर	सी पी ओ आर (टैल)	01-12-86
11	ओम प्रकाश	{085008ए	"	01-12-86
12	के० के० मनी	091281एच	"	01-12-86
13	बी० सिंह	092054आर	"	01-12-86
14	एस० सिंह	084520टी	सी पी ओ आर (एस पी एल);	01-12-86
15	बी० कुमार	190180बी	एक्टिंग सी एच एस डब्ल्यू ए	01-05-86
16	जे० एन बिनकर]	200317टी	सी एच एस डब्ल्यू ए	01-11-86
17	एम एम मैथ्यू	190263टी	एक्टिंग सी एच ई आर ए	01-12-86
18	के० श्री० राव	190264डब्ल्यू	"	01-12-86
19	अयनन्द वाम	190282के	"	01-12-86
20	राजेश प्रसाद	200759आई	"	01-12-86
21	जगदीप सिंह	200874एच	"	01-12-86
22	एस० राम	080701एन	सी पी ओ कुक (ओ)	01-04-86
23	एस० अनापन	082479बी	सी पी ओ राइटर	01-02-86
24	टी० अणाराव	056336एन	सी एच ई एस पी	01-12-86
25	एस० सिंह	057528आई	"	01-12-86
26	ए के ओबराय	096176एच	"	01-12-86
27	के बी मोहम्मद	096768डी	"	01-12-86
28	रामकृष्ण राम	096358आई	सी एच ई एस आर	01-12-86
29	जे० किशोर	096902एच	"	01-12-86
30	आर० निवास	097036एन	"	01-12-86
31	आर एन मीना	097215डब्ल्यू	"	01-12-86
32	अब्दुल रहीम एन	190202बी	एक्टिंग सी एच ई ए सी	01-05-86
33	आर विजयन	190240आर	एक्टिंग सी एच ई ए पी	01-11-86
34	एम के पालीवाल	190344ए	एक्टिंग सी एच ई ए आर]	01-11-86
35	पान सिंह	190353डब्ल्यू	"	01-11-86

1	2	3	4	5
36	अमरजीत सिंह	200998के	"	01-11-86
37	एच एम चौधरी	054158एन	एक्टिंग सी एच डब्ल्यू एम	01-12-86
38	जी सिंह	053929टी	सी पी ओ ए एफ	01-12-86
39	के पी राय	054150डब्ल्यू	"	01-12-86
40	राधानरण	054681ए	"	01-11-86
41	जे सिंह	054929आर	"	01-12-86
42	एस सिंह	098701एच	"	01-12-86
43	एच जे सिंह	093844एच	"	01-12-86
44	कालिका	094342 आर	"	01-12-86
45	आर सिंह	095075एफ	सी पी ओ ए ओ एफ	01-12-86
46	एस सिंह	095128ए	"	01-12-86
47	एस सी बाल	096085ए	सी एच ई एस ए	01-12-86
48	बी पी सिंह	096659एफ	"	01-12-86
49	आर निवास	097108ए	"	01-12-86
50	बी मुन्डर	094886ए	सी एच ई एस ए आर	01-12-86
51	जे यादव	095088के	"	01-12-86
52	ए कुमार सिंह	095147डब्ल्यू	"	01-12-86
53	के चन्दर	082741जैड	सी पी ओ	01-08-86
54	एस डी जोगम	180270एच	एक्टिंग सी एच ई आर ए	01-12-86
55	बी के बनर्जी	190037बी	सी एच ई आर ए	01-04-85
56	ए पी सिंह	096198एच	सी एच ई एस आर	01-12-85
57	वेद पाल	092713एन	एक्टिंग सी एच ई एस	01-10-85
58	पी एम जाट	082243टी	सी पी ओ	01-11-86
59	पी एस राजू	049038ए	"	09-09-85
60	एम सिंह	049600बी	"	01-10-86
61	यू पी सिंह	067704जैड	"	01-08-86
62	के लाल यादव	081634एच	"	01-08-86
63	धीर सिंह	081801एन	"	01-10-86
64	एच एस मूमय्य	082140एच	"	01-11-86
65	एच सिंह	082634एच	"	01-09-86
66	आई सिंह	082752जैड	"	01-10-86
67	आर अतर	{082924आर	"	01-11-86
68	आर एम राम	082949आई	"	01-09-86
69	एस आर एस चौहान	082974बी	"	01-08-86
70	डी राम	083045आर	"	01-10-86
71	एम पाल	083109के	"	01-09-86
72	एच सिंह	083125आई	"	01-08-86
73	एम सिंह	083243आर	"	01-09-86
74	बी एस पा खेय	083397आर	"	01-11-86
75	के लाल	083469बी	"	01-11-86

1	2	3	4	5
76.	जे सिंह	083530टी	सी पी श्री	01-10-86
77.	पी सिंह	083564डब्ल्यू	"	01-08-86
78.	सी राम	083634बी	"	01-11-86
79.	सूरज भान	084283बी	"	01-09-86
80.	के पी बडोला	083363एन	"	01-11-86
81.	जी लाल	084366टी	"	01-11-86
82.	आर जेबियर	084509टी	"	01-10-86
83.	ए जी जाधव	084678ए	"	01-11-86
84.	सदा नन्द	084740टी	"	01-10-86
85.	डी पान	084905टी	"	01-11-86
86.	एच सिंह	085220एच	"	01-09-86
87.	एम पाल	085586आर	"	01-11-86
88.	आर सी जोशी	086062आई	"	01-10-86
89.	एन नागरमल	086636ए	"	01-08-86
90.	एस आर हेले	086702ए	"	01-09-86
91.	जी सिंह	086967बी	"	01-08-86
92.	के सिंह	087047के	"	01-11-86
93.	राम सिंह	088950के	"	01-09-86
94.	जे सिंह	089380एन	"	01-08-86
95.	भरमर नाथ	090608बी	"	01-11-86
96.	जे राम	090993आर	"	01-10-86
97.	एम सिंह	089430ए	"	01-11-86
98.	आर सिंह	054242बी	सी पी ओ ए एफ	01-11-88
99.	के पी सिंह	054569आई	"	01-11-86
100.	ओम प्रकाश स्यागी	092267त्रैड	"	01-12-85
101.	जी एस रावत	092651आई	"	01-10-86
102.	एस आर धुवाजी	094268आई	"	01-11-86
103.	टी डी जोशी	093923एन	सी पी ओ ए ओ एफ	01-11-86
104.	सी लाल	094026आई	"	01-10-86
105.	आर एम यादव	095042एफ	"	01-11-86
106.	के सिंह	094748एच	सी एच ई एल ए	01-11-86
107.	पी जनारदनन्	096794एन	सी एच ई एल ए आर	01-11-86
108.	एम राम	095864त्रैड	एम एम (डब्ल्यू) - 2	01-11-86
109.	के के रामपोपावल	200213एफ	एडिटर सी एच ए ए	01-11-86
110.	एस के शर्मा	200736डब्ल्यू	"	01-11-86
111.	ए बी चेलियाह	200903त्रैड	"	01-11-86
112.	पवन कुमार	201050एच	"	01-11-86
113.	एम बी जाल	190210आई	* सी एच ई ए ए	01-05-86
114.	जे आर मूति	200984एच	एडिटर सी एच ई ए ए	01-11-86

1	2	3	4	5
115.	बी के कालियर	201343त्रैड	एडिटर सी एच ई ए ए	01-11-86
116.	पी ए के राव	201588ए	"	01-11-86
117.	ओम प्रकाश	053164बी	सी एच ए (पी एच)	01-08-86
118.	तारा वत्त	068478बी	सी एच ए (ए एच)	01-10-86
119.	डी राम	089698के	"	01-08-86
120.	आर प्रमाद	090449टी	"	01-08-86
121.	के धिवरकारन	090778एन	"	01-08-86
122.	बी एस पंवार	056103एच	सी एच एम ई सी एच	01-05-86
123.	आर सिंह	089737त्रैड	"	01-11-86
124.	आर कपूर	190101त्रैड	एडिटर सी एच ई आर ए	01-05-86
125.	बी सिंह	190104एफ	सी एच ई आर ए	01-11-86
126.	ए एम जाधव	190148एफ	"	01-05-86
127.	ए सिंह	190166आई	"	01-11-86
128.	देश राज	190187डब्ल्यू	"	01-05-86
129.	आर एम राजा	190262आर	"	01-11-86
130.	एम ए एच वेग	190281एच	"	01-11-86
131.	बी आर शर्मा	200646आर	"	01-11-86
132.	एम महापात्र	200914त्रैड	"	01-11-86
133.	एम सिंह	200938बी	"	01-11-86
134.	बी एन प्रगाद	201022डब्ल्यू	"	01-11-86
135.	एल सी शर्मा	201048बी	ई आर ए-3	01-10-85
136.	एम सी शर्मा	201048बी	सी एच ई आर ए	01-11-86
137.	एच पी शुक्ला	201391एच	"	01-11-86
138.	ए एम राठौर	190265आई	सी एच एम डब्ल्यू ए	01-11-86
139.	के डी कुमार	190272एन	"	01-11-86
140.	आर प्रमाद	190274टी	"	01-11-88
141.	यू एन मल	057206आर	सी एच मॉक (आर)	01-04-85
142.	जे पी महापात्र	190218आर	एडिटर सी एच ई ए सी	01-05-86
143.	पी बी राणा	190229आर	सी एच ई ए पी	01-11-86
144.	मिलाप चन्द	190233जड	एडिटर सी एच ई ए पी	01-11-86
145.	के सिंह	190234ए	सी एच ई ए पी	01-11-86
146.	वेर पाल सिंह	190242डब्ल्यू	एडिटर सी एच ई ए पी	01-11-86
147.	बी के सिंह	190338एन	एडिटर सी एच ई ए पी	01-11-86
148.	एम सी शर्मा	201341डब्ल्यू	सी एच ई ए पी	01-11-86
149.	पी के चतुर्वेदी	201349एन	एडिटर सी एच ई ए पी	01-11-86
150.	वी के कौशल	190231डब्ल्यू	एडिटर सी एच ई ए आर	01-11-86
151.	ओम प्रकाश बुधरिवाल	190241टी	"	01-11-86

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
152.	प्रताप सिंह	190244जैड	एक्टिंग सी एच ई ए आर	01-11-86	192.	के जोशी	089360टी	सी पी ओ आर टैल	01-10-86
153.	के ए ए शेरफ	190247एफ	सी एच ई ए आर	01-11-86	193.	टी सिंह	090027एच	"	01-11-86
154.	के निवारी	190340टी	एक्टिंग सी एच ई ए आर	01-11-86	194.	एच एस भट्टी	055109जैड	सी पी ओ आर (टैक)	01-11-86
155.	एस के पटनायक	200364जैड	सी एच ई ए आर	01-11-86	195.	बी राम	068654एच	"	01-10-86
156.	ओ पी श्रीवास्तव	200473वार्ड	"	01-11-86	196.	एच के साहनी	068688के	"	01-10-86
157.	ए के सिंह	200952के	"	01-11-86	197.	एम एम सिंह	069422बी	"	01-09-86
158.	बी चन्द	201004बी	"	01-11-86	198.	डी सिंह	084242के	"	01-01-86
159.	पी सी श्यामल	201040के	"	01-11-86	199.	सी एस चौहान	084279डब्ल्यू	"	01-11-86
160.	प्रेम सिंह	201069जैड	"	01-11-86	200.	आर एन साहा	088416वार्ड	"	01-10-86
161.	एम के झा	201193एच	"	01-05-86	201.	ए के जायं	090567के	"	01-11-86
162.	एस सिंह	053485एच	एक्टिंग सी एच डब्ल्यू एम	01-11-86	202.	जे आर फोगट	091142वार्ड	"	01-11-86
163.	पी के शर्मा	085958के	"	01-11-86	203.	एस राम	091200जैड	"	01-11-86
164.	एम बी सिंह	042744वार्ड	सी पी ओ स्पूजिसियन	01-01-86	204.	एस पी सिंह	094739टी	"	01-11-86
165.	जे एस पीकसोटो	042816के	"	01-02-86	205.	के जे ए पीयूष	048779एन	सी पी ओ	01-07-86
166.	भरेन्द्र सिंह	042879बी	"	01-2-86	206.	के ए एन सिंह	049949वार्ड	"	01-01-86
167.	रामेश्वरन	056120 वार्ड	सी एच ई एल आर	01-4-86	207.	टी एम सामुएल	066614आर	"	01-04-86
168.	एस सिंह	057430 जैड	"	01-10-86	208.	एम एल चितकारा	067195टी	"	01-02-86
169.	एम लाल	057638 वार्ड	"	01-10-86	209.	एस एल बर्मा	067652एफ	"	01-02-86
170.	जे एन पान्डेय	095307एच	"	01-10-86	210.	जी सिंह	081907बी	"	01-02-86
171.	पी सी सिंह	096126डब्ल्यू	"	01-10-89	211.	आर मोहंती	082690एच	"	01-08-86
172.	बी बिहारी	096282जैड	"	01-11-86	212.	आर रतन	082750डब्ल्यू	"	01-07-86
173.	बी बेरीबाल	096744जैड	"	01-10-86	213.	जी राम	082793टी	"	01-08-86
174.	डी एन शण्डारी	057405टी	सी एच ई एल एफ	01-10-86	214.	आर सी शर्मा	082992डब्ल्यू	"	01-06-86
175.	आर शिबर	094109के	"	01-10-86	215.	एस सिंह	083076के	"	01-03-86
176.	बी सिंह	096158टी	सी एच ई एल पी	01-10-86	216.	बी राम	083330एन	"	01-08-86
177.	एस पी पिल्लई	056148के	सी एच एम ई	01-11-86	217.	ए डी सुकुमारन	083380ए	"	01-08-86
178.	बी सिंह	056651बी	"	01-11-86	218.	जी बी सिंह	083396एन	"	01-08-86
179.	जे सिंह	057462वार्ड	"	01-10-86	219.	के चन्द	083629टी	"	01-10-86
180.	एस राम	069620बी	"	01-11-86	220.	बी कृष्णन्	083775जैड	"	01-07-86
181.	जोहन सिंह	089122ए	"	01-11-86	221.	टी सिंह	083999एच	"	01-08-86
182.	टी अब्राहम	089814जैड	"	01-10-86	222.	आर राय	086321के	"	01-07-86
183.	एस प्रसाव	091188ए	"	01-11-86	223.	एस एस यादव	086600डब्ल्यू	"	01-02-86
184.	बी राम	091634के	"	01-11-86	224.	एम सिंह	086964वार्ड	"	01-05-86
185.	राम प्रसाव	091756एन	"	01-11-86	225.	एस के शर्मा	87098ए	"	01-05-86
186.	डी एस यादव	092636एन	"	01-08-86	226.	यू सी डोगरा	087811वार्ड	"	01-10-85
187.	ए के जोशी	068585ए	सी पी ओ आर (टैल)	01-10-86	227.	बिहारी लाल	088142जैड	"	01-07-86
188.	आर बी सिंह	068671वार्ड	"	01-09-86	228.	जी एन सिंह	088159एन	"	01-08-86
189.	एच बी सिंह	068698एच	"	01-11-86	229.	बी सी विस्वास	088675के	"	01-06-86
190.	ओ पी यादव	069112जैड	"	01-10-86					
191.	के सी साहनी	084101आर	"	01-10-86					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
230.	एच सिंह	088710आर	सी पी श्री	01-02-86	265.	एम चन्द	069737डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच मैक	01-05-86
231.	जी सिंह	091183के	"	01-10-86	266.	पी एच बालू	091189जैड	सी एच मैक	01-05-86
232.	बी एस नासजोगी	190009आर	एक्टिंग सी एच ई ए पी	01-10-85	267.	आर एन प्रसाद	092568एच	"	01-05-86
233.	पी वास	052386के	सी एच ई आर ए	01-04-86	268.	एन बी हूडा	052410आर	सी एच ई ए पी	01-04-86
234.	एच कुमार	097289एन	सी एच ई आर ए	01-04-86	269.	एच मिस्तर	097930डब्ल्यू	सी एच ई ए पी	01-05-86
235.	एम बी प्रकाश	180206वाई	"	01-04-86	270.	जे के कार	190008एन	सी एच ई ए पी	01-04-86
236.	एल एस कबीरा	180209टी	एक्टिंग सी एच ई आर ए	01-05-86	271.	जी पी पी कुमार	190089वाई	एक्टिंग सी एच ई ए पी	01-05-86
237.	एम सी जाना	190049एफ	"	01-05-86	272.	आर सिंह	190189डब्ल्यू	सी एच ई ए पी	01-05-86
238.	एस सी धनलियाल	190145जैड	"	01-05-86	273.	के चन्दर	190200जैड	"	01-05-86
239.	जे एस परिहार	190152आर	सी एच ई आर ए	01-05-86	274.	पी एस सोमल	190201ए	"	01-05-86
240.	एम एस राय	190154डब्ल्यू	"	01-05-86	275.	एस खुदानिया	190205के	"	01-05-86
241.	एच नायर के के	190155वाई	"	01-05-86	276.	याम्बी पी जे	190208टी	एक्टिंग सी एच ई ए पी	01-05-86
242.	प्रेम सिंह	190161जैड	"	01-05-86	277.	पी आर बोर्से	190221वाई	"	01-05-86
243.	एस राजा	190163आर	"	01-05-86	278.	चन्द्रन एम	190225एफ	"	01-05-86
244.	जे एस मनी	190165डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ई आर ए	01-05-86	279.	पी पटनायक	190226एच	सी एच ई ए पी	01-05-86
245.	एम बी जोसेफ	190171एच	सी एच ई आर ए	01-05-86	280.	रामाचन्द्रन टी आर	200758डब्ल्यू	"	01-05-86
246.	जी मोहनती	190185आर	"	01-05-86	281.	डी एस सांगवान	057291एच	सी एच मैक (आर)	01-05-86
247.	सी गोस्वामी	190189जैड	"	01-03-86	282.	के सिंह	097454एन	सी एच ई ए आर	01-04-86
248.	के ए आर काली }	200220वाई	ए जी सी एच ई आर ए	01-05-86	283.	राम चन्दर	097469वाई	एक्टिंग सी एच ई ए आर	01-04-86
249.	के सिंह	200359एन	"	01-05-86	284.	के के चौहान	097931वाई	सी एच ई ए आर	01-04-86
250.	पी के वास	051928डब्ल्यू	सी एच एस डब्ल्यू ए	01-04-86	285.	बी डी मिश्रा	190228एन	"	01-05-86
251.	बी आर चौधरी	052388टी	एक्टिंग सी एच एस डब्ल्यू ए	01-04-86	286.	एस माह	200065डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ई ए आर	01-05-86
252.	एन कुमार बी	190022डब्ल्यू	सी एच एस डब्ल्यू ए	01-01-86	287.	एस पी शशिधरन्	200071एच	सी एच ई ए आर	01-05-86
253.	जे पिल्लई के	190055डब्ल्यू	"	01-05-86	288.	यू आर शर्मा	200135बी	"	01-04-86
254.	बी मुरलीधरन्	190156जैड	एक्टिंग सी एच एस डब्ल्यू ए	01-05-86	289.	डी नाग	200261आर	"	01-05-86
255.	आर के आनन्द	190170एफ	"	01-05-86	290.	एस एस मेहता	081828जैड	सी एच ए (ए एच)	01-08-86
256.	आर कुमार	190178जैड	"	01-05-86	291.	कुट्टन पिल्लई	089112बी	"	01-07-86
257.	के के रामाकृष्णन्	190191बी	सी एच एस डब्ल्यू ए	01-05-86	292.	एच सिंह	190130आर	ए जी सी एच ए ए	01-05-86
258.	आर सिंह	056185डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच मैक	01-05-86	293.	एफ डिस्सा	190150के	"	01-05-86
259.	बी राम	056275जैड	"	01-05-86	294.	योगेश्वर	200087डब्ल्यू	"	01-04-86
260.	आर चन्द	056319जैड	सी एच मैक	01-05-86	295.	ए किमोर	052160वाई	सी एच ए ए (डब्ल्यू)	01-04-86
261.	एन के पंत	056976टी	एक्टिंग सी एच मैक	01-05-86	296.	आर भगवान	052317बी	"	01-04-86
262.	ए कुमार	057276जैड	सी एच मैक	01-05-86	297.	मनोहर लाल	052347वाई	"	01-05-86
263.	एच आर शर्मा	068217आर	सी एच मैक	01-05-86	298.	के कुमार	052374एच	"	01-05-86
264.	बी डी शर्मा	069559आर	एक्टिंग सी एच मैक	01-05-86	299.	यू एन कटोच	095109एच	सी एच ए ए (डब्ल्यू)	01-05-86
					300.	आर पी सिंह	095182जैड	"	01-04-86
					301.	बी एन प्रसाद	083286एन	सी एच ए (मैट)	01-04-86
					302.	एस कुमार	096005डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच मैक (ए एच)	01-04-86

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
303.	बी सिंह	096162ए	एक्टिंग सी एच सैक (ए एच)	01-05-86	343.	के एम राव	058201ए	एम सी पी ओ	01-03-86
304.	एम लॉरेंस	097940टी	एक्टिंग सी एच ई ए ए	01-05-86	344.	सी खड्कवाल	058310बी	"	01-02-86
305.	टी एम राव	200006बी	"	01-05-86	345.	ए के विश्वास	058344ए	"	01-02-86
306.	के पी बी जी कृष्णन्	200215के	सी एच ई ए ए	01-10-85	346.	बंवर सिंह	058368एफ	"	01-03-86
307.	डी सिंह	092964एच	ए जी सी एच ए एम	01-05-86	347.	आर एम कुडीगे	058381के	"	01-03-86
308.	एम पी ठाकुर	093655बी	"	01-05-86	348.	निर्मल सिंह	058428टी	"	01-02-86
309.	बी एन गेखो	095238ए	"	01-05-86	349.	प्रेम सिंह	069228एन	"	01-02-86
310.	बी के गुप्ता	097740एन	"	01-05-86	350.	के टी धामस	069851बी	"	01-04-86
311.	पी चन्द्रशेखरन्	097773एन	"	01-05-86	351.	आर आर सविता	069873बी	एस सी पी ओ	01-03-86
312.	डी डी ठाकुर	058045वाई	सी एच पी ओ राइटर	01-04-86	352.	जे प्रसाद	069882बी	"	01-02-86
313.	पी कुमार	058496वाई	सी पी ओ राइटर	01-05-86	353.	एन सिंह	069953के	"	01-02-86
314.	के सिंह	058062के	"	01-02-86	354.	आई सिंह	069960ए	"	01-03-86
315.	टी एम बोरा	058089वाई	"	01-04-86	355.	एच भट्टाचार्य	081120आर	"	01-01-86
316.	जे सी कोयवारी	058347एच	"	01-02-86	356.	एस सी अवस्थी	082347डब्ल्यू	"	01-01-86
317.	हरभंस सिंह	058362टी	"	01-02-86	357.	जे सिंह	058035बी	सी पी ओ कुक (ओ)	01-04-86
318.	एच सिंह	058624वाई	"	01-04-86	358.	जे सिंह	065787टी	सी पी ओ कुक (एस)	01-02-86
319.	टी चन्द	059090वाई	"	01-04-86	359.	के बी सिंह	066600आर	सी पी ओ कुक (ओ)	01-03-86
320.	ए सी देवनाथ	069962एफ	"	01-04-86	360.	नरदेव सिंह	069140एन	"	01-03-86
321.	डी एस भकूनी	081441डब्ल्यू	"	01-01-86	361.	एम के पिल्लई	069917बी	"	01-04-86
322.	जे सिंह	081825टी	सी पी ओ राइटर	01-01-86	362.	आर बी सिंह	080403के	"	01-02-86
323.	कीमती लाल	058607बी	सी पी ओ स्टुडेंट	01-03-86	363.	ओम प्रकाश	080602एन	"	01-04-86
324.	एम आर प्रसाद	058849बी	"	01-04-86	364.	बी एल ब्राह्मण	080657एन	"	01-03-86
325.	डी साहू	058961बी	"	01-05-86	365.	जगत राम	080106के	सी पी ओ कुक (एस)	01-03-86
326.	टी एस बाबण	059231टी	"	01-05-86	366.	दोमन राम	080278ए	"	01-01-86
327.	राज सिंह	066491टी	"	01-01-86	367.	जी सिंह	080342वाई	"	01-01-86
328.	राम प्रसाद	068320बी	"	01-03-86	368.	पूरन सिंह	080547एन	"	01-01-86
329.	कुलदीप सिंह	069003ए	"	01-03-86	369.	दर्शन सिंह	080677के	"	01-02-86
330.	एल राम	069006एच	"	01-03-86	370.	पी जी के पिल्लई	067476एफ	एम ए ए	01-03-86
331.	सुरेश प्रसाद	069732एच	"	01-03-86	371.	पी गोपीनाथन	083059वाई	"	01-04-86
332.	संतोष कुमार	080841एफ	"	01-02-85	372.	हरमेश सिंह	083525एफ	"	01-02-86
333.	हरी सिंह	081893वाई	"	01-03-86	373.	सी सिंह	088051टी	"	01-01-86
334.	के के चक्रवर्ती	084405एफ	"	01-04-86	374.	टी राम	089709के	"	01-03-86
335.	एस चक्रवर्ती	084537एफ	"	01-03-86	375.	आर पाल	066504वाई	सी पी ओ टॉप	01-02-86
336.	बी नारायण	084570एफ	"	01-04-86	376.	सुरज पाल	080110डब्ल्यू	"	01-01-86
337.	के सिंह	084575टी	"	01-04-86	377.	मोहन लाल	080554बी	"	01-01-86
338.	एस एस बाजवा	084628एन	"	01-04-86	378.	जे वैनसन	080570आर	"	01-01-86
339.	संतोष कुमार	058053आर	एस सी पी ओ	01-02-86	379.	जासिम राम	080675बी	"	01-03-86
340.	मृती लाल	058091ए	"	01-02-86	380.	जे पी सिंह	068362डब्ल्यू	सी एच एम ई	01-06-86
341.	आर एन चौधरी	058142टी	"	01-02-86	381.	श्रीम प्रकाश	089036एफ	"	01-07-86
342.	डी एस बोले	058190ए	"	01-03-86	382.	बी दास	056366एफ	सी एच ई एल आर	01-07-86

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
383.	एन प्रार एन याशव	090326टी	सी एच ई एल पी	01-07-86	421.	बी बाली	093519डब्ल्यू	सी एच एम ई	01-12-85
384.	बोविन्ड पाटिल	082482के	सी पी प्रो प्रार (टल)	01-08-86	422.	जे पाल	068582डब्ल्यू	सी पी प्रो प्रार (टल)	01-12-85
385.	एच सिंह	082549एन	"	01-06-86	423.	एन सिंह	068626डब्ल्यू	"	01-12-85
386.	जे के सिंह	065040डब्ल्यू	सी पी प्रो	01-10-85	424.	एम के चौपड़ा	068863बी	"	01-12-85
387.	एच सिंह	066939एफ	"	01-06-85	425.	के सिंह	089467एफ	"	01-12-85
388.	प्रार पी. राज	067539जीड	"	01-11-85	426.	बी सिंह	083139बी	"	01-12-85
389.	बी सिंह	067938एफ	"	01-10-85	427.	एस सी सुब	090169एफ	"	01-12-85
390.	प्रार एच मिश्रा	081514एन	"	01-12-85	428.	बी रजकनबोल	090192एच	"	01-10-85
391.	के कृष्णन्	081540डब्ल्यू	"	01-11-85	429.	पी के संजीवन	090283प्रार	"	01-10-85
392.	एन एन बिष्ट	081842एफ	"	01-10-85	430.	प्रार बी पद्माल	068664एफ	सी पी प्रो प्रार (टल)	01-12-85
393.	वी प्रकाश	081971जीड	"	01-12-85	431.	एच सिंह	082643एफ	"	01-12-85
394.	प्रार बी सिंह	082313ए	"	01-12-85	432.	प्रार कुमार	082668एच	सी पी प्रो प्रार (टल)	01-10-85
395.	के चन्द्रबेखरन्	082762वाई	"	01-11-85	433.	बी सिंह	088913ए	सी पी प्रो प्रार (टल)	01-12-85
396.	एम राम	082910एच	"	01-10-85	434.	प्रार सिंह	089072जीड	"	01-11-85
397.	सी सी राजपूत	082996बी	"	01-11-85	435.	डी राज	089130डब्ल्यू	"	01-12-85
398.	बी लाल	083458बी	"	01-11-85	436.	बी एन हरित	089236के	"	01-12-85
399.	सी अणुबुधन	083394एच	"	01-12-85	437.	टी एम मान	089569टी	"	01-12-85
400.	एच लाल	083890के	"	01-12-85	438.	एस एस पाठक	089960एफ	"	01-12-85
401.	एम चन्व	083984जीड	"	01-12-85	439.	बी सिंह	057287जीड	सी एच ई एल प्रार	01-10-85
402.	पी वी पाषाणकृष्णन्	084025टी	"	01-12-85	440.	एम पित्तलई के	057444एफ	"	01-10-85
403.	के सिंह	084542टी	"	01-12-85	441.	एम कुमार	057479के	"	01-12-85
404.	प्रार पण्डेय	086755वाई	"	01-10-85	442.	एम एम नायरराजन	057573जीड	"	01-10-85
405.	ए के कुम्हू	087150डब्ल्यू	"	01-12-85	443.	एम राम याशव	093927वाई	"	01-10-85
406.	प्रार एम मोहरा	087253बी	"	01-10-85	444.	एम प्रार सिंह	095331एन	"	01-12-85
407.	प्रार सिंह	088390एन	"	01-12-85	445.	प्रार के चौधरी	095414ए	"	01-12-85
408.	प्रो डी जेवा कुमार	088754डब्ल्यू	"	01-12-85	446.	के सिंह	095762टी	"	01-12-85
409.	जी सी कौशल	087773के	"	01-10-85	447.	ब सिंह	058100ए	सी एच ई एल पी	01-12-85
410.	एम कुमार	089885के	"	01-12-85	448.	एम बाबा सुबामनियन	058387बी	"	01-12-85
411.	के चन्व	089954टी	"	01-11-85	449.	एम एस राजत	056856डब्ल्यू	"	01-11-85
412.	प्रार सिंह	090733एन	"	01-12-85	450.	ए एस राजत	057039के	"	01-12-85
413.	पी एस के नायर	091254वाई	"	01-12-85	451.	जे सिंह	057222ए	"	01-11-85
414.	पी एन लाल	057164डब्ल्यू	सी एच एम ई	01-12-85	452.	एच सिंह	057404प्रार	"	01-11-85
415.	जे प्रार चौहान	068188जीड	"	01-10-85	453.	एस के सहा	087216डब्ल्यू	"	01-12-85
416.	एम सिंह	068924वाई	"	01-12-85	454.	के प्रार शर्मा	092635के	"	01-11-85
417.	के पी शर्मा	068929एच	"	01-10-85	455.	जे सिंह	091308डब्ल्यू	सी एच पीक (प्रार)	01-04-85
418.	प्रार कल्प	089548डब्ल्यू	"	01-12-85	456.	प्रो पी शर्मा	190088डब्ल्यू	एडिटा सी एच ई ए पी/सी	01-10-85
419.	एम पाटिल	090036बी	"	01-12-85	457.	के सिंह	190207प्रार	एडिटा सी एच ई ए सी	01-10-85
420.	ए. एन सिंह	090528वाई	"	01-12-85	458.	के के शर्मा	190209डब्ल्यू	सी एच ई ए सी	01-10-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
459.	भार सिंह	190223ए	एक्टिंग सी एच ई ए सी	01-10-85	498.	सी एम बी			
460.	एत सिंह	190087टी	एक्टिंग सी एच ई ए पी	01-10-85		जोसेफ	190144वार्ड	एक्टिंग सी एच ए ए	01-10-85
461.	ए के सुधीष्ट	097828एन	सी एच ई ए भार	01-10-85	499।	एन जैकब	190146ए	"	01-10-85
462.	एस एन शर्मा	097872एन	"	01-10-85	500.	आर बिरु-			
463.	डी एस बिष्ट	190070बी	एक्टिंग सी एच ई ए भार	28-10-85		कड्डय	097776डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ई ए ए	01-10-85
464.	एस एन नारायणम्	19077डब्ल्यू	"	01-10-85	501.	एस के पुंजोर	190078वार्ड	सी एच ई ए ए	01-10-85
465.	एन एस गुप्ताई	190080ए	"	01-10-85	502.	आर प्रसाद	200067जैड	एक्टिंग सी एच ई ए ए	01-10-85
466.	सीज राम	200040एन	"	01-10-85	503.	पी जी एन			
467.	एच पी चौधरी	200044वार्ड	"	01-10-85		रमचन्द्रन	200329एन	"	01-10-85
468.	आई ववाल	200077वार्ड	सी एच ई ए भार	01-10-85	504.	पी दत्त	096262बी	सी एच ई ए ए	01-12-85
469.	डी बास	200120डब्ल्यू	एक्टिंग सी० एच० ई० ए० भार	01-10-85	505.	बी गोप	093153 एन	सी एच ई ए ए भार	01-12-85
470.	ए के सिंह	200316आर	सी० एच० ई० ए० भार	01-10-85	506.	आर एस तोमर	093339के	"	01-12-85
471.	एस० ए० ठाकुर	051725एच	एक्टिंग सी एच एस डब्ल्यू ए	01-01-85	507.	जे पी एस			
472.	एस एम पिल्लई	190133वार्ड	"	01-10-85		राजन	094985ए	"	01-12-85
473.	ए एस मलिक	200198वार्ड	"	01-10-85	508.	एस एस बाबब	093499वार्ड	एक्टिंग सी एच ई ए (ए भार)	01-04-85
474.	भार के जोशी	180211वार्ड	एक्टिंग सी० एच ई भार	01-10-85	509.	जे डी शर्मा	094165 एन	"	01-04-85
475.	ए भार राव	180212जैड	सी एच ई भार ए	01-10-85	510.	ए एन चन्द	066817एच	सी पी ओ	01-01-85
476.	बी बी राव	180213ए	"	01-10-85	510.	एस बी बास	048502एच	"	01-05-85
477.	के प्रनाड	190029 के	"	01-10-85	511.	एम सी आनन्द	049706डब्ल्यू	"	01-05-85
478.	आर एम निमिन	1990067वार्ड	"	01-10-85	512.	रामनिवास	067194आर	"	01-05-85
479.	आर सी कौशल	190118एन	"	01-10-88	513.	एन के बालन	067318वार्ड	"	01-09-85
480.	बी के शर्मा	190123जैड	"	01-10-85	514.	जे सिंह	067472वार्ड	"	01-04-85
481.	ए पी पठक	190125 बी	"	01-10-85	515.	आर एस रावत	067650ए	"	01-06-85
482.	ए सिंह	190143डब्ल्यू	"	01-10-85	516.	एन मेहानी	067875एन	"	01-05-85
483.	ए-एम जावा	200167ए	"	01-10-85	517.	जी एस नागी	081513एच	"	01-05-85
484.	बी गोपल	200284टी	एक्टिंग सी एच ई आर ए	01-10-85	518.	एम रामचन्द्रन	081548एन	"	01-09-85
485.	बलदेव राज	054689डब्ल्यू	सी पी ओ ए एफ	01-12-85	519.	बीर सिंह	081676बी	"	01-03-85
486.	सी आर मट्टू	053798डब्ल्यू	"	01-11-85	520.	राधे श्याम	081977एन	"	01-09-85
487.	जी आर सी पीसले	053863टी	"	01-11-85	521.	आर के सिंह	082080वार्ड	"	01-06-88
488.	बी तिवारी	053898वार्ड	"	01-12-85	522.	सी एस बालन	082368ए	"	01-06-85
489.	ए पी सिंह	053947एच०	"	01-12-85	523.	मी सिंह	082334जैड	"	01-09-85
490.	एस सिंह	083210 टी	"	01-12-85	524.	पी पवार	082767 एच	"	01-07-85
491.	के दिनकरन	091744के	सी पी ओ ए ओ एफ	01-12-85	525.	यू सिंह	082942एफ	"	01-09-85
492.	जी सेखावन	094041 एफ	"	01-12-85	526.	डी सिंह	082969टी	सी पी ओ	01-09-85
493.	आर के त्रिपाठी	094177आर	"	01-12-85	527.	शामराव पाटिल	083064 एच	"	01-09-85
494.	के साहा	081503के	सी एच ए (पी एच)	01-10-85	528.	एस जे बालन	083187एन	"	01-09-85
495.	जे एस राणा	190095एन	एक्टिंग सी एच ए ए०	01-10-85	529.	सवाराम	083282एच	"	01-07-85
496.	आर बी सैन	190098एफ	"	01-10-85	530.	पी सिंह	083455 वार्ड	"	01-06-85
497.	जे वू साहिब	190141आर	"	01-10-85	531.	पी आर तलवार	083637के	"	01-09-85
					532.	आर के सिंह	083670के	"	01-09-85
					533.	एस सिंह	083842ए	"	01-09-85
					534.	एन एस रावत	086610टी	"	01-06-85
					535.	टी चन्द	086632टी	"	01-05-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
536.	ए प्रकाश	087120ए	सी पी मो	{01-06-85	578.	यू एन बाबु			
537.	जी एस चौहान	087685के	"	{01-09-85	देवन	190136बी	सी एच ई आर ए		01-10-85
538.	आर सिंह	087916के	"	{01-09-85	579.	आर प्रसाद	056354बी	सी एच ई एन आर	{01-06-85
539.	स्वरूप चन्द	088232बी	"	{01-05-85	580.	जे शिवराम	088559वाई	"	01-07-85
540.	टी एम अलैन्जेन्द्र	088577एन	"	01-09-85	581.	बी सिंह	093140वाई	"	01-08-85
541.	आर बी दुबे	088633आर	"	01-09-85	582.	बी एन हंगल	052265डब्ल्यू	सी एच ई ए पी	01-10-85
542.	एस के० चक्रवर्ती	088749बी	"	01-06-85	583.	एम तरायणन	097565आर	"	01-04-85
543.	आर के सिंह	089221ए	"	01-09-85	584.	राजेन्द्र राव	097575एन	"	01-10-85
544.	एम राम	089499एच	"	01-09-85	585.	एम कुमार	097620आर	सी एच ई ए पी ए सी	01-10-85
545.	के० सिंह	089525टी	"	01-09-85	586.	आर ए कुरबाहा	097638एफ	सी एच ई ए पी	01-10-85
546.	एम भान	090420ए	"	01-05-85	587.	आर कौशिक	190007के	"	01-04-85
547.	पी एस मेहता	066851के	सी एच एम ई	01-05-85	588.	एम नाग	190071एफ	"	01-04-85
548.	एम पी शर्मा	067898आर	"	{01-04-85	589.	बी पी पाण्डेय	190075आर	"	01-10-85
549.	आर ए यादव	068463जैड	"	01-09-85	590.	एम आर शर्मा	200010डब्ल्यू	"	01-10-85
550.	यू एस राम	069748डब्ल्यू	"	01-08-85	591.	आर कुमार	200054टी	"	01-10-85
551.	के नू राव	087272वाई	"	01-02-85	592.	रियाजुद्दीन	052495 एच सा एच० ई ए आर		01-04-85
552.	एस एन सिंह	088788टी	"	01-09-85	593.	ए सिंह	097619एन	"	{01-04-85
553.	बी सिंह	089229डब्ल्यू	"	01-06-85	594.	एस सिंह	200397 जैड	"	01-10-85
554.	एच सिंह	089641एफ	"	01-04-85	595.	टी ज़ासी	082220आर सा एच ए (ए एच०)		01-06-85
555.	के कुमार	091551वाई	सी एच एस डब्ल्यू ए	01-04-85	596.	एम राम	082343 डब्ल्यू	"	01-06-85
556.	डी एस बागड़ी	056381आर	एक्टिंग चीफ मैक	{01-04-85	597.	बी सिंह	082377वाई	"	01-05-85
557.	ए अकसुगम	056571वाई	"	01-10-85	598.	जी एस रावत	083676 जैड	"	01-09-85
558.	आर मिश्रा	056815 ए	"	{01-10-85	599.	बी के सरकार	087913बी	"	01-05-85
559.	सी के सिंह	056875एच	"	01-04-85	600.	एच सिंह	088278 एच०	"	01-08-85
560.	ओम प्रकाश	068866आर	"	01-10-85	601.	एम बाला			
561.	धनी राम	088981एफ	"	{01-10-85	सुब्रामनियन	088688आर	"		01-09-85
562.	एम सिंह	090583वाई	"	01-10-85	602.	सी एफ पाल	067234बी	"	01-04-85
563.	बी सिंह	090589के	"	01-10-85	603.	के० एन० मूर्ति	089161आर	सी एच ए (एस ई०)	01-05-85
564.	अजीत सिंह	090742एच	"	{01-04-85	604.	सी० शर्मा	{088542 एच सी एच ए (एम ई टी)		01-09-85
565.	पी डी कृष्णन	090784बी	"	{01-10-85	605.	बी० आयपे	190025 ए	सी एच ए ए	01-04-85
566.	डी किशन	091636आर	"	01-04-85	606.	एस० अब्राहम	190038 एफ०	"	01-04-85
567.	आनन्द सिंह	092268ए	"	01-04-85	607.	आर० सिंह	190040के	"	01-04-85
568.	बी एन काले	096986जैड	एक्टिंग सी एच ई आर-ए	01-04-85	608.	एस० आर० यादव	096527 के	सी एच ए ए (डब्ल्यू)	01-09-85
569.	एस स्वरूप	097574 के	"	01-04-85	609.	एस० बी० नाथ	190090 जैड	एक्टिंग सी एच ई ए ए	01-10-85
570.	के चन्व	097874 टी	"	01-04-85	610.	पी० पी० नू०			
571.	ए सैथ्यू	190015बी	"	01-04-85	कृष्णन	200068 ए	"		01-10-85
572.	एन के मदान	190019एन	"	01-04-85	611.	ए० ए० रिजबी	094966 एच सी एच ई ए ए आर		01-09-85
573.	साहस्रिख टीपी	190094एच	सी एच ई आर ए	01-04-85	612.	जे० सिंह	095052 बी	"	01-09-85
574.	टी ज्ञान	190047 ए	"	01-04-85	613.	डी० सिंह	{095102 टी	"	01-09-85
575.	ए सिंह	190050 एच	"	01-04-85	614.	बी० बी० सिंह	093809बी	एक्टिंग चीफ मैक (एएल)	01-04-85
576.	बी एस एस				615.	आर० गोपाल	067987टी	सी पी ओ आर (टैक)	01-09-85
	बोला	190100वाई	"	01-10-85	616.	के० कुमारन	069094एच	सी पी ओ आर (टैल)	01-05-85
577.	सी एम कन्दपाल	190129एन	"	01-10-85	617.	एन० किशोर	082543जैड	"	01-06-85
					618.	प्याग० सिंह	082576 जैड	"	01-06-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
619.	पी० चन्द	{ 082786 ए	सी पी ओ आर (टैल)	01-04-85	660.	एल० चन्द	{ 066523आर	सी पी ओ एन	01-02-85
620.	आर० बी० सिंह	083077 एन	"	01-12-85	661.	आर० आर० कुमार	080159एफ	"	01-01-85
621.	एम० बी० कुवेरन	086011एफ	"	01-06-85	662.	एम० भोरे	080250एन	"	01-01-85
622.	एफ आर विहीकी	087145एचसी पी ओ आर (टैक)	"	01-09-85	663.	ए० के० कुन्दू	080303एच	"	01-01-85
623.	बी० सिंह	087281टी	सी पी ओ आर (टैल)	01-06-85	664.	जे० पी० शर्मा	080313एफ	"	01-01-85
624.	धार० उमाध्याय	088427वाई	"	01-04-85	665.	एस० सिंह	080315के	"	01-01-85
625.	डी० राम	058026बी	सी पी ओ आर (टैल)	01-05-85	666.	एम० एल० कौशल	080323बी	"	01-01-85
626.	एन० राम	058189 जेड	"	01-04-85	667.	के० के० लक्ष्मी	080370के	"	01-01-85
627.	एम० सिंह	066195एचएनपीसी पी ओ कुक (एन)	"	01-01-85	668.	बी० आर० ध्यान	080624एन	"	01-01-85
628.	एफ० रनावरे	080043 टी	"	01-04-85	669.	बी० एम० रत्नम	080790आर	"	01-02-85
629.	मदन खान	066513टी	"	01-05-85	670.	सी० कटसया	080894ए	"	01-01-86
630.	वाई० दस्तु	080705वाई सी पी ओ टैल	"	01-01-85	671.	आर० सिंह	049006बी एम ए ए	"	01-01-85
631.	एम० एम० यन्त्री	052260जेड सी एच ई ए ए	"	01-01-84	672.	पी० सिंह	049466जेड	"	01-01-88
632.	एम० एल० सिंह	048933एन सी पी ओ	"	01-02-85	673.	एम० पी० बरगादी	049634एफ	"	01-01-85
633.	के० सिंह	049177टी	"	01-01-85	674.	जे० एस० खन्का	066849 एफ	"	01-01-85
634.	के० पी० शुक्ला	049202जेड	"	01-01-85	675.	बी० जी० घावगे	067599के	"	01-01-85
635.	बी० के० पाटिल	049841ए	"	01-02-85	676.	एस० सी० एल राजोरिया	080907एफ	"	01-01-85
636.	जय राम	067822टी	"	01-02-85	677.	जे० एस० जसवाल	081818ए	"	01-01-85
637.	फतुरी राम	067890वाई	"	01-03-85	678.	जे० एस० रावत	086065बी	"	01-01-85
638.	आत्मा सिंह	081679के	"	01-01-85	679.	आर० आर० बंसवाल	086132एफ	"	01-01-85
639.	जे० चन्दर	082133टी	"	01-01-85	680.	जी० एम० रावत	086508 के	"	01-01-85
640.	डी० सिंघा	082341 आर	"	01-02-85	681.	ए० के० बटर्जी	086638एफ	"	01-01-85
641.	डी० सिंह	082781 आर	"	01-02-85	682.	एम० सिंह	086988ए	"	01-01-85
642.	ए० सिंह	087598एन	"	01-02-85	683.	के० एस० गिल	087926एच	"	5-01-85
643.	एम० ए० खान	087939 एन	"	01-03-85	684.	मोहन	084690 जेड सी पी ओ टैल	"	01-01-85
644.	पी० सिंह	089727 ए	"	01-03-85	685.	मोहन लाल	065785एन	"	01-01-85
645.	आर० पन्डित्याल	065957बी मी एच एम ई	"	01-02-85	686.	यू० सिंह	065223 के	"	01-01-85
646.	बी० आर० सुरा	067448 टी	"	01-02-85	687.	आर० स्वरूप	065238 डब्ल्यू	"	01-01-85
647.	आर० सिंह	067530 बी	"	01-02-85	688.	जी० वाम	065680 जेड	"	01-01-85
648.	एस० सिंह	067752 एच	"	01-01-85	689.	टी० सी० गोखले	066435आर	"	01-01-85
649.	के० पी० सिंह	087304डब्ल्यू	"	01-02-85	690.	एच० लाल	080344ए	"	01-01-85
650.	एम० एस० सिन्धेदी	087536वाई	"	01-03-85	691.	एच० कृष्णा	080450टी	"	01-01-85
651.	बी० एम० भण्डवाल	087689डब्ल्यू सी पी ओ आर (टैक)	"	01-02-85	692.	जी० चन्द	080917बी	"	01-01-85
652.	बी० एम० मन्धू	088027 एन	"	01-03-85	693.	जे० एम० सेठी	054182टी सी एच ए एम	"	01-04-85
653.	ए० डी० बी० आशी- वर्दिम	049683टी सी पी ओ आर (टैल)	"	01-03-85	694.	पी० आर० चन्द्रन	054625जेड	"	01-04-85
654.	एम० सिंह	081832 एच	"	01-02-85	695.	घमर नाथ	094159 जेड	"	01-04-85
655.	एन० एस० मेघया	088705बी	"	01-03-85	696.	आर० कुमार	097483बी सी एच ए ए	"	01-04-85
656.	एच० सिंह	066325आर सी पी ओ एम ए	"	01-02-84	697.	एस० जार्ज	097775 टी	"	01-04-85
657.	बिक्टर	066344एच	"	01-01-85	698.	पी० एम० विष्ट	087944 जेड सी एच ए (एम ई)	"	01-03-85
658.	बी० धार० कादा	086414टी	"	01-01-85	699.	एच० सिंह	088257 के सी एच ओ ए ओ आर	"	01-02-85
659.	एस० कुमार	086479आर	"	01-01-85	700.	एस० कुमार	094004वाई बीफ मिक (ए आर)	"	01-04-85
					701.	डी० पी० शर्मा	095245टी बीफ मिक (ए एल)	"	01-04-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
702.	बी० बी० माने	052198 एच एक्टिंग सी एच ई ए आर		01-04-85	740.	एन मिह	069229 आर	एस सी पी घो	01-01-85
					741.	एम० एस० रावत	069243 वार्ड	"	01-01-85
703.	डी० सी० चौहान	052479 वार्ड सी एच ई ए आर		01-04-85	742.	एम लाल	069690 एन	"	01-01-85
704.	एम० पी० चौहान	052487 आर		01-04-85	743.	एम सिंह	069693 डब्ल्यू	"	01-01-85
705.	के एम मनोहरन	052491 जेड एक्टिंग सी एच ई ए आर		01-04-85	744.	एम० मिह	069735 आर	"	01-01-85
706.	सी० नायर टी० एन०	052494 एफ सी एच ई ए आर		01-04-85	745.	ओ० पी० शर्मा	069744 के	"	01-01-85
707.	के करुणकरन	052498 आर		01-04-85	746.	एम सिंह	069762 ए	"	01-01-85
708.	के के मिह	097555 वार्ड एक्टिंग सी एच ई ए आर		01-04-85	747.	एम० रवीन्द्रन	069783 जेड	"	01-01-85
709.	दरबारी लाल	097733 वार्ड		01-04-85	748.	एम एम शम्भा	069872 ए	"	01-01-85
710.	जे गोछायत	190 011 डब्ल्यू		01-04-85	749.	आर सी लखनपाल	069949 ए	"	01-01-85
711.	बीर मिह	052490 वार्ड एक्टिंग सी एच ई ए पी		01-04-85	750.	एन सी यादव	081861 जेड	"	01-01-85
712.	आर० एम० एम कटारिया	052492 ए सी एच ई ए पी		01-04-85	751.	डी मिह	081870 डब्ल्यू	"	01-01-85
713.	एस० एच० राजन	052497 एच एक्टिंग सी एच ई ए पी		01-04-85	752.	आर पी यादव	082209 आर	"	01-01-85
714.	एम० पूनेम	097465 एन सी एच ई ए पी		01-04-85	753.	एम एम हुसेन	064390 टी	सी पी ओ कुक (एम)	01-01-85
715.	एस० मिह	190002 जेड एक्टिंग सी एच ई ए पी		01-04-85	754.	एन जी चक्रवर्ती	064519 के	"	01-01-85
716.	एम० एल० शर्मा	190004 बी		01-04-85	755.	पी सरोदे	065724 जेड	"	01-01-85
717.	के० मिह	057426 आर एक्टिंग श्रीक शैक (आर)		01-04-85	756.	एच० बिसोई	065788 डब्ल्यू	"	01-01-85
718.	हुम राज	057451 वार्ड		01-04-85	757.	बी आर चक्रवर्ती	066199 बी	"	01-01-85
719.	पी० एम० शेखावत	057535 एन		01-04-85	758.	एम० कल्याणम्	066235 के	"	01-01-85
720.	यू० मिह	094759 एन		01-04-85	759.	बी वास	066243 बी	"	01-01-85
721.	बी० सिंह	094989 के		01-04-85	760.	भागमल	064338 डब्ल्यू	"	01-01-85
722.	ए० के० वास	051876 ए सी एच एम डब्ल्यू ए		01-04-85	761.	एम तिवारी	066365 एफ सी पी ओ कुक (एम)		01-01-85
723.	एम० जी० जोषा	052444 टी एक्टिंग सी एच एस डब्ल्यू ए		01-04-85	762.	सी पी अनाहम	066336 बी		01-01-85
724.	एच० सिंह	052469 जेड सी एच एस डब्ल्यू ए		25-01-85	763.	पी चन्ध	030018 के	"	01-01-85
725.	एम० के० घोष	190023 वार्ड		01-04-85	764.	एम राम	080022 डब्ल्यू	"	01-01-85
726.	के० सिंह	190034 वार्ड		01-04-85	765.	जी एल वर्मा	080039 ए	"	01-01-85
727.	सूरज प्रकाश	097070 आर एक्टिंग सी एच ई आर ए		01-04-85	766.	एम पी शर्मा	066471 वार्ड	"	01-01-85
728.	एम० उपाध्याय	097578 बी		01-04-85	767.	के सोलामन	066489 एन सी पी घो कुक (ओ)		01-01-85
729.	टी० मिह	190028 एच सी एच ई आर ए		01-04-85	768.	बी लाल	066558 डब्ल्यू	"	01-01-85
730.	ओम प्रकाश	190036 वार्ड		01-04-85	769.	चन्धर मिह	066560 जेड	"	01-01-85
731.	एम० टी० एस० नायर	190059 बी सी एच ई आर ए		01-04-85	770.	गोविन्द राव	066577 एन	"	01-01-85
732.	पी० के० संघारम्	190064 आर एक्टिंग सी एच ई आर ए		01-04-85	771.	पी पी एल उमाचन	066579	"	01-01-85
733.	ए० लाल	080880 डब्ल्यू सी पी ओ एस टी बी		01-01-85	772.	के धान	080249 एच	"	01-01-85
734.	एच० मिह	081056 डब्ल्यू		01-01-85	773.	डी राम	080394 आर	"	01-01-85
735.	ए० मिह	042710 डब्ल्यू सी पी ओ एम यू एम		01-01-85	774.	के एस भट्टी	052094 टी ए सी पी घो राइट		01-01-85
736.	डी० जे० जे० अनीमलिक	042825 एफ		01-01-85	775.	टी जे मिह	067932 टी	"	01-01-85
737.	जी० ए० मथुकन	058156 जेड एस सी पी ओ		01-01-85					
738.	एम राम	058350 आर		01-01-85					
739.	आर के शर्मा	068367 एफ		01-01-85					

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
776.	टी प्रार्थ शर्मा 069223ए	सी०पी०ओ० राहटर		01-01-85	811.	बी सिंह	068502एन	सी०एच०एच०ई०	01-07-85
777.	एल चन्द्र 069240 प्रार	"		01-01-85	812.	बी पी सिंह	086337 आई	"	01-03-84
778.	बी एन सिंह 059247एफ	"		01-01-85	813.	जे चट्ट	087532 एन	"	01-04-84
779.	श्रीम प्रकाश 069248एच	"		01-01-85	814.	एच एम बर्बवाल	088323के	"	01-09-84
780.	एम पी सिंह 069263 टी	"		01-01-85	815.	जे चन्द्र	090963 के	"	01-06-84
781.	एम सिंह 069888 एन	"		01-01-85	816.	ए सिंह	047670टी	सी पी ओ एन ए	01-01-85
782.	यू एस पाण्डेय 069999 आर	"		01-01-85	817.	एल कुलकर्णी	086293 टी	"	01-01-85
783.	एल एस शेखावत 081457 एफ	"		01-01-85	818.	एस एम पयारिवा	080173 जैड	"	01-01-85
784.	मुहम्मद आरिफ	081883 जैड	"	01-01-85	919.	आर एस शाहब	068317टी	सी एच एम ई	01-06-84
785.	जी आर स्वामी 081948 आई	"		01-01-85	820.	एम बाल	052411टी	बी एच ई ए आर	01-01-85
786.	टी एम रेगुधरन	081954 के	"	01-01-85	821.	आर एन प्रसाद	095506 के	"	01-01-85
787.	जे बी सिंह 082030 बी	"		01-01-85	822.	एस एम मिश्रा	097346टी	"	01-01-84
788.	के सिंह 082084 एफ	"		01-01-85	823.	आर पी चौर			
789.	आर चन्द्र 082085 एच	"		01-01-85		बार	052329टी	सी एच ई ए सी	01-01-85
790.	बी एस महास	082143आई	"	01-01-85	824.	आर पी वादव	052143 एच	सी एच ई ए पी	01-01-85
791.	ए पी गुप्ता 082217 एच	"		01-01-85	825.	ए एस काठू	052190 आर	"	01-01-85
792.	हरी शम्भू रावत	082484 आर	"	01-01-85	826.	आर सिंह	052195 ए	"	01-01-85
793.	शाम पाल सिंह	082522 ए	"	01-01-85	827.	सी वसराम	052271 जैड	"	01-10-85
794.	आर के निकास	052441 के	एक्टिव सी एच ए ए	01-01-85	828.	एन एल सेसन	096257 टी	"	01-10-85
795.	डी बी पातल- वाड	052205 जैड	सी एच ई ए ए	01-01-85	829.	ए सिंह	067207डब्ल्यू	एम ए ए	01-01-55
796.	एस राम 052210 के	"		01-01-85	830.	ओ प्रकाश सुन्नी	080499बी	"	01-01-85
797.	ए के सिंह 095991 एन	सी एच ए ए डब्ल्यू		01-01-85	831.	एम पी बाजार्जन	081040एच	एम सी पी ओ	01-01-85
798.	बी सिंह 095992 आर	"		01-01-85	832.	एच चन्ध	082348एफ	सी पी ओ राहटर	10-08-85
799.	आर रे 096008 जैड	एक्टिव सी एच ए ए डब्ल्यू		01-01-85	833.	एस आर वादव	051850टी	सी एच एम डब्ल्यू ए	01-01-85
800.	प्रेम सिंह 052360 ए	सी एच ए ए		01-01-85	834.	एम एन शर्मा	051887 ए	"	01-01-85
801.	जे के० सुन्दरम्	052292आई	एक्टिव सी एच ए ए	01-01-85	835.	बी के ए मुम्मद हबीब	051945एच	"	01-01-85
802.	एन कुमार 097623 आई	"		01-01-85	836.	आर टी फारिस	052451एच	"	01-01-85
803.	बी के सुच 096466टी	"		01-01-85	837.	आर एस राम	052178एन	सी एच ई आर ए	01-01-85
804.	एफ० सिंह 066950 के	सी पी ओ		01-01-85	838.	आर सिंह	052237आई	"	01-01-85
805.	गौर सिंह 056215 एन	सी एच० एम० ई०		01-08-85	839.	बी सिंह	052312टी	"	01-01-85
806.	जे० सी० वादव	056357 के	"	01-06-84	840.	के के बनन	052382ए	"	01-01-85
807.	राज कुमार 064399 एन	सी एच एम ई		01-02-84	841.	के एस जी कृष्णन	052427बी	"	01-01-85
808.	एन आर बर्जा 066530एफ	"		01-03-84	842.	एल सिंह	052433टी	"	01-10-84
809.	बी एस जार्य 067107टी	"		01-03-84	843.	एस एस बोलकी	052436जैड	"	01-10-84
810.	एच एच आर सुराई 067759जैड	"		01-04-84	844.	डी कुमार	052439ए	"	01-01-85
					845.	बी के द्विवेदी	052468आई	"	01-01-85
					846.	एस के० बोष	096382ए	"	01-01-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
847	एम सिंह	096900बी	श्री एच ई धार्षि ए	01-01-85	891	आर पी सिंह	082183एफ	सी पी जो	01-06-84
848	के सिंह	096921ए	"	01-01-85	892	आर एस भादव	082211डब्ल्यू	"	01-05-84
849	आर भादव	096945एफ	"	01-01-85	893	पी बालाकृष्ण	082242आर	"	01-04-84
850	ए पंडित	096970एन	"	01-01-85	894	श्री सी वर्मा	082339के	"	01-05-84
851	श्री पाण्डेय	097040आई	"	01-01-85	895	एफ सिंह	082589बी	"	01-07-84
852	आर एन राय	097121एफ	"	01-01-85	896	जे एन सिन्हा	082653ईड	"	01-05-84
853	एम सिंह	087296बी	"	01-01-85	897	दत्ता मन्व कपूर	082662डब्ल्यू	"	01-07-84
854	एम रफीकुद्दीन	097171डब्ल्यू	"	01-01-85	898	बंशीधर राम	082962ए	"	01-07-84
855	डी सिंह	054437आई	"	01-09-84	899	श्री एन पाण्डेय	083148ईड	"	01-07-84
856	रतन लाल	056098आई	"	01-05-84	900	एस सिंह	083220एन	"	01-06-84
857	एल के कुंभे	056481टी	"	01-06-84	901	वेम राज	083261एफ	"	01-08-84
858	एस एम प्राधर	057215के	"	01-09-84	902	तारकेश्वर राम	083288के	"	01-07-84
859	के एन मेहता	057432बी	"	01-07-84	903	एस ए पीटर	083368ए	"	01-07-84
860	श्री एस रावत	082377ईड	"	01-07-84	904	भूज सिंह	083638एन	"	01-07-84
861	श्री एम झा	094223डब्ल्यू	"	01-07-84	905	श्री सिद्ध	083815आर	"	01-07-84
862	श्री पी सिंह	056402एन	श्री एच ई एल पी	01-04-84	906	श्री सिंह	083850डब्ल्यू	"	01-06-84
863	एच सिंह	056845डब्ल्यू	"	01-05-84	907	आर सिंह	083966एफ	"	01-07-84
864	एम सिंह	057257एफ	"	01-07-84	908	ओम प्रकाश	084616के	"	01-05-84
865	श्री एम बिन्दु	093784आई	"	01-07-84	909	श्री एस कर्की	086107ईड	"	01-05-84
866	के एम बेंसीर	046937ए	श्री पी जो	01-02-84	910	श्री एस पवार	086284ए	"	01-06-84
867	श्री गणेश	049582ए	"	01-06-84	911	श्री सिंह	086730आर	"	01-03-84
868	श्री ई राजू	049631ईड	"	01-03-84	912	आर सी पाटक	086776ईड	"	01-04-84
869	आर सिंह	064997आई	"	01-03-84	913	दया मन्द	086843आई	"	01-03-84
870	के राम	066718एच	"	01-03-84	914	एस एन सिंह	086937के	"	01-07-84
871	रमेश दत्त	066859बी	"	01-07-84	915	एस एम दादगा	087029 डब्ल्यू	"	01-05-84
872	श्री कुंभे	066903बी	"	01-04-84	916	श्री डी चन्दे-	087087ए	"	01-05-84
873	आर सिंह	066891ए	"	02-03-84		शेखरन			
874	श्री सिंह	066968 आई	"	01-06-84	917	श्री के० एच	087196ईड	"	01-05-84
875	श्री आर भादव	073088बी	"	01-04-84		मान्जिया			
876	श्री डी वर्मा	067117आर	"	01-03-84	918	एस एन सिंह	087269आर	"	01-04-84
877	श्री सिंह	067227आर	"	01-03-84	919	ए शेवाले	087745आई	"	01-06-84
878	श्री एम मूसारिया	067308ईड	"	01-06-84	920	आर एस	087780ए	"	01-03-84
879	के के कुट्टी	087317डब्ल्यू	"	01-05-84		सेहरावत			
880	ए पी तिवारी	067380एन	"	01-07-84	921	ज एन	087846 ए	"	01-03-84
881	के प्रसाद	067403आर	"	01-04-84		मदकोटिया			
882	आर कुमार अली	067420बी	"	01-06-84	922	एन सिंह	088170एन	"	01-07-84
883	श्री ए देवारी	067743एन	"	01-05-84	923	एस सिंह	088440ए	"	01-05-84
884	एम आर भादव	068006 के	"	01-05-84	924	श्री सिंह	088546टी	"	01-07-84
885	सी सेन	081564 ईड	"	01-06-84	925	श्री सिंह	089264 ईड	"	01-07-84
886	श्री सिंह	081928ए	"	01-06-84	926	एस चन्दर	090122ईड	"	01-06-84
887	पी एस राजपूत	081943के	"	01-10-83	927	के एस बरार	068096आर एस	"	01-01-84
888	ए के सरकार	082022आर	"	01-06-84	928	आर सी वर्मा	068127के	"	01-01-84
889	श्री कदम	082083बी	"	01-04-84	929	श्री० बायर	068169एफ	"	01-01-84
890	एस राजेश्वर	083146आई	"	01-06-84	930	श्री लाल	069173एन	"	01-01-84

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
931.	बी बी चापा	081064ए	"	19-07-84	970.	पी रवीन्द्र कुमार	097337आई	एक्टिंग सी एच ई ए	
932.	जी आर तायर	081196एच	"	01-01-84				पी	01-10-84
933.	एन पी बी पिफलई	081239एफ	"	01-01-84	971.	जे मिह	097400आर	एक्टिंग सी एच ई आर	01-10-84
934.	बी रामराम	081171एन	"	01-01-8	972.	जेड मिह	097417बी	एक्टिंग सी एच ई ए पी	
935.	के सिंह	082230एन	"	01-01-84				सी	01-10-84
936.	आर सी जर्मा	082326एफ	"	01-01-84	973.	जे मिह	097477आर	"	01-10-84
937.	सी बी जार्ज	065212के	सी पी ओ टाय	01-01-84	974.	पी मिह	017485एच	"	01-10-84
938.	बी इन्द्र	065351एन	"	01-01-84	975.	देस राज	051720आई	सी एच एस डब्ल्यू ए	01-04-84
939.	आर रास	066470डब्ल्यू	"	01-07-84	976.	के बी श्याम	052345टा	सी एच ई आर ए	01-04-84
940.	एन ओ जैकिपर	080711के	"	01-01-84	977.	जे सी चट्ट	052378टी	"	01-04-84
941.	पी मिह	042689आई	सी पी ओ म्यूजियम	01-11-84	978.	एन राम	052395एफ	"	01-04-84
942.	आर सिंह	081070ए	सी पी आ स्टूडेंट	01-01-84	979.	डी मिह	052448ए	"	01-10-84
943.	एच बालसंग	081287डब्ल्यू	"	01-01-84	980.	एम मिह	052161एफ	एक्टिंग सी एच ई आर ए	01-10-84
944.	के एस जार्ज	066237आर	"	01-01-84	981.	ए एन	052463के	"	01-1-84
945.	के बी जार्ज	088316आर	"	01-01-84				बालीवाल	
946.	बी मिह	056515आई	सी पी ओ सी के (ओ)	01-01-84	982.	डी बी के तायर	048500बी	सी एच ए ए एच	01-02-84
947.	बी एस वैगी	080111आई	"	01-01-84	983.	डी कुमार	052173आर	सी एच ए ए	01-01-84
948.	एच सिंह	064378आर	"	01-01-84	984.	पी के राणा			
949.	सी एस श्याम	064496एच	सी पी ओ सी के (एन)	01-01-84				कृष्णन	052351एफ
950.	एस मशी	065269आर	"	01-01-84				एक्टिंग सी एच ए ए	01-10-84
951.	एम० सिंह	065746जैड	"	01-01-84	985.	आर कुमार	052365एन	"	01-10-84
952.	एम बककाशन	065848एफ	"	01-01-84	986.	ओम प्रकाश	052392 जैड	सी एच ए ए	01-04-8
953.	एम आर बंगाली	067046बी	एम ए ए	01-02-84	987.	एच रोटर			
954.	एम एन चौधरी	052207बी	सी एच ई ए पी	01-01-84				हिमूजा	052424आई
955.	ए कुमार	052333आर	एक्टिंग सी एच ई ए सी	01-04-84				एक्टिंग सी एच ए ए	01-10-84
956.	ए के० मंडल	052336बी	"	01-04-84	988.	के सी कुकरती	052439एफ	"	01-10-84
957.	टी के मुखर्जी	052340एफ	"	01-04-84	989.	बी के खेत्रवाल	052464एन	"	01-10-84
958.	एच सिंह	052412 डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ई ए		990.	जे मिह	054205 डब्ल्यू	सी पी ओ ए एफ	01-07-84
			पी/सी	01-10-84	991.	बी ओ तनावडे	054212के	सी एच ए एम	01-04-84
959.	ए एस बोरा	052416बी	एक्टिंग सी एच ई ए		992.	ए चन्द	054497एच	"	01-10-84
			आर	01-10-84	993.	आर ए मिह	067550जैड	"	01-07-84
960.	ए के प्रभा	052417एफ	"	01-10-84	994.	जे एस शर्मा	082114 जैड	सी एच ए ए एच	01-04-84
961.	आर सी डिमरी	056092एच	एक्टिंग पीफ रूक (आर)	01-04-84	995.	एन मिह	082496टी	सी एच ए एस ई	01-03-84
962.	बी पी सिंह	056944डब्ल्यू	"	01-04-84	996.	एम एन निशारी	086381आई	सी एच ए ए एच	01-06-84
963.	बभगुर्जन	057027एच	"	01-05-84	997.	एच ए जान	088650बी	सी एच ए ए एच	01-06-84
964.	एन नेहरा	096907 डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ई ए		998.	आर मिह	087241ए	सी पी ओ ए एफ	01-03-84
			आर	01-04-84	999.	जे चन्द	089330 जैड	सी एच ए पी एच	01-03-84
965.	आर एस तोमर	096972 टी	"	1-10-84	1000.	मेतु राजू	090539आई	सी पी ओ ए ओ एफ	01-04-83
966.	एम मिह	097006डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ई ए सी	01-04-84	1001.	ओ एन मिह	090551जैड	सी एच ई एल ए आर	01-04-84
967.	एस एच शर्मा	097046के	एक्टिंग सी एच ई ए पी/		1002.	डी पी फौजद	092504एच	सी पी ओ ए एफ	01-07-84
			एम	01-04-84	1003.	एम एल यादव	092903डब्ल्यू	सी एच ए एम	01-04-84
968.	आई सी शर्मा	0971429जैड	एक्टिंग सी एच ई ए		1004.	एच एन मिह	093379ए	सी एच ई एल ए आर	01-05-84
			आर	01-10-84	1005.	ए मिह	093430टी	सी एच ए एम	01-04-84
969.	बी आ. चौहान	097234एन	एक्टिंग सी एच ई पी/सी		1006.	के सिंह	093461एल	सी एन ई एल आर	01-04-84
				01-01-84	1007.	एम लाल	093642जैड	एक्टिंग सी एच ए एम	01-10-84
				01-01-84	1008.	बी राम	095152एफ	सी एच ई एल ए आर	01-06-84

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1009.	के सिंह	096445 डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ए ए		1050.	जे सिंह	086112 के		01-01-84
			डब्ल्यू	01-03-84	1051.	एस के० मुखो-			
1010.	एस जे पाल	096599 डब्ल्यू	एक्टिंग सी एच ए ए	01-01-84		पाठ्याय	080995 एफ	एस सी पी ओ	01-01-84
1011.	ए कुमार	096936 एच	एक्टिंग सी एच ए ए		1052.	के सी गुप्ता	081063 के	"	05-08-84
			डब्ल्यू	01-03-84	1053.	बी के के कृष्णन	065439 ए	एम ए ए	01-01-84
1012.	माने राम	097247 टी	एक्टिंग सी एच ए ए	01-10-84	1054.	सी एन यादव	067460 डब्ल्यू	"	01-01-84
1013.	साधू राम	097358 एच	"	01-10-84	1055.	ए तिस्रुजा	067517 जेड	"	01-01-84
1014.	पी आर सिंह	065789 वार्ड	सी पी ओ एम ए	01-10-84	1056.	एस उपपाध्याय	096816 एन	सी एच ई एम ए	01-01-84
1015.	एस आर वर्मा	068716 जेड	सी पी ओ आर (टैल)	01-09-84	1057.	मोहन बहादुर	097032 बी	"	01-01-84
1016.	आर के मजूम-				1058.	जे मोहम्मद	068376 ए	चीफ मैक	01-01-84
	दार	069102 ए	"	01-06-84	1059.	सुशील कुमार	051780 एच	सी एच एस डब्ल्यू	01-01-84
1017.	जे० पी० गुप्ता	069141 आर	"	01-06-84	1060.	बी पी सिंह	051848 एन	"	01-01-84
1018.	पी सिंह	08201 एच	"	01-04-84	1061.	बी एस पवार	052006 वार्ड	"	01-01-84
1019.	आर जी पाटिल	082688 बी	"	01-05-84	1062.	जी बी एस वर्मा	091468 एच	"	01-01-84
1020.	एस सिंह	082442 डब्ल्यू	"	01-06-84	1063.	एम सिंह	093413 बी	"	01-01-84
1021.	एस एम प्रसाद	082542 वार्ड	"	01-10-83	1064.	बी एस चौहान	093755 एफ	"	01-01-84
1022.	दीप चन्द	082594 आर	"	01-05-84	1065.	एच सी त्रिपाठी	094039 ए	"	01-01-84
1023.	एम० एल०				1066.	के० एन जाती	052130 बी	एक्टिंग सी एच ई ए पी	01-04-84
	समावेदर	086420 के	सी पी ओ आर (टैक)	01-04-84	1067.	प्रार प्रार			
1024.	जे० पी० राव	086439 बी	"	01-02-84		सीकरिवाल	052272 ए	सी एच ई ए पी	01-01-84
1025.	एस सिंह	087106 डब्ल्यू	सी पी ओ आर (टैल)	01-03-84	1068.	महेन्द्र सिंह	096490 वार्ड	एक्टिंग सी एच ई ए पी	01-01-84
1026.	आर सी मिश्रा	087461 ए	"	01-03-84	1069.	एन सिंह	180191 ए	सी एच ई ए पी	01-01-84
1027.	एच डी जोशी	087976 वार्ड	सी पी ओ आर (टैल)	01-03-84	1070.	जे० नानी	090424 के	एक्टिंग सी एच डब्ल्यू	
1028.	आर आर							एफ०	01-01-84
	गंगुली	088064 वार्ड	"	01-03-84	1071.	सरदार सिंह	091070 बी	एक्टिंग चीफ मैक (प्रार)	01-01-84
1029.	बी के नायर	088234 एच	"	01-04-84	1072.	एच सिंह	092070 ए	चीफ मैक (प्रार)	01-01-84
1030.	के डी चट्टो-				1073.	पी के रामपाल	051774 डब्ल्यू	सी० एच ई ए प्रार	01-01-84
	पाठ्याय	088614 वार्ड	"	01-05-84	1074.	प्रार चण्डन	051993 टी	"	01-01-84
1031.	सी एस				1075.	प्रार चन्दर	052138 वार्ड	"	01-01-85
	जसवाल	088713 वार्ड	"	01-06-84	1076.	डी एन गिल	095918 वार्ड	"	01-01-84
1032.	आर आर एस				1977.	एम सिंह	092599 जो	सी पी ओ ए एफ	01-11-83
	यादव	088822 एच	सी पी ओ आर (टैक)	01-07-84	1078.	जी शामराव			
1033.	के सिंह	088994 के	"	01-09-84		पाटिल	052314 वार्ड	सी एच ई ए ए	01-01-84
1034.	के पी के नायर	089208 वार्ड	सी पी ओ आर (टैल)	01-09-84	1079.	टी० बी० वेंकटन	051925 एन	सी एच ए ए (डब्ल्यू)	01-01-84
1035.	एम चन्द्र	089255 ओ	सी पी ओ प्रार (टैक)	01-09-84	1080.	जी एच बलवेव	052200 एन	सी एच ई ए ए	01-01-84
1036.	एस चन्द	089274 वार्ड	सी पी ओ आर (टैल)	01-07-84	1081.	एस गंगा प्रसाद	096560 एफ	"	01-01-84
1037.	एस पाल	089433 एच	सी पी ओ आर (टैक)	01-08-84					
1038.	सकन मोहन								
	सिंह	046031 टी	सी पी ओ	01-09-83					
1039.	नारायण चन्द	46197 डब्ल्यू	"	01-02-83					
1040.	राम प्रताप	087060 आर	"	01-01-84					
1041.	एम जे० एम-	087657 वार्ड	सी पी ओ आर (टैक)	01-11-83					
	नायर								
1042.	आशिश लाल								
	चटर्जी	063960 आर	सी पी ओ एम ए	01-01-84					
1043.	जगदीश सिंह	065807 एन	"	01-01-84					
1044.	बी मुखर्जी	066366 एच	"	01-01-84					
1045.	जे एन शिवहरे	080457 एच	सी पी ओ	01-01-84					
1046.	ए एन वर्मा	081102 जेड	"	01-01-84					
1047.	सी टी एन्टोनी	081686 ए	"	21-05-84					
1048.	आर पी माधुर	082049 ए	"	01-05-87					
				01-01-84					
1049.	आर सिंह	082069 वार्ड	"	01-01-84					

द० ए० शर्मा
डेस्क अधिकारी,

(वायु शाखा)

सं० 1699, तारीख 4 अक्टूबर 1988—राष्ट्रपति, निम्न-लिखित स्थायी सिविलियन राजपत्रित अधिकारियों (उपस्कर) को, अगले आदेश पर्यन्त, उनके नाम के आगे लिखी तारीख से स्थानापन्न सिविलियन स्टाफ अधिकारी (उपस्कर) के रूप में नियुक्त करते हैं :—

श्री पी० अर्जुनन—23 दिसम्बर 1987

श्री एस० एम० राजू—15 जनवरी 1988

वे दो साल की परखावधि पर रहेंगे।

आर० आर० कोशल, अवर सचिव

(वायु सेना)

सं० 1700, तारीख 27 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से स्वेच्छापूर्वक सेवा-निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :

भारतीय वायुसेना
(शिक्षा शाखा)

1. विंग कमांडर एम० एम० धसमाना (10298)—30 जून 88 (ड्यूटी के बाद)

2. विंग कमांडर वी० जी० बाइकू (10297)—31 मार्च 1988 (ड्यूटी के बाद)

बी० यू० पिल्लै
स्क्वाड्रन लीडर
सहा० निदे० का अफ० 3 (एफ)
कृते सहा० निदे० का०

सं० 1701, तारीख 27 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
(प्रशासन शाखा)

स्क्वाड्रन लीडर एस० नालाकृष्णन—(10740)—01 जून 87 (पूर्वाह्न)

के० सी० गांगुली
विंग कमांडर
सहा० निदे० का अफ० 3 (एफ)

सं० 1702, तारीख 27 सितम्बर 1988—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अफसर को, उनके नाम के सामने दी गयी तारीख से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

भारतीय वायु सेना
उड़ान (नेविगेशन) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर (कार्यकारी) (विंग कमांडर) ए० के० तालेयारखान (8987)—04 जून 1987

एस० साहमन
विंग कमांडर
सहा० निदे० का अफ० 3 (एफ)

शुद्धि-पत्र

सं० 1703, दिनांक 23 सितम्बर 1988—भारत के राजपत्र में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 513 दिनांक 19-2-87, प्रकाशित दिनांक 21-3-87 के अन्तर्गत "नियमित सेना" स्थाई आयोग" के उप शीर्षक "ले० कर्नल से कर्नल" में धार० सी० सक्सेना (एफ० आर०-1565) ए० एम० सी०/- वी० सी०-1-2-86 के बाद जोड़ा जाय

ज्येष्ठता उनके वेतन व पेंशन पर प्रभाव डाले बिना दिनांक

21-4-85 से।

विजय किशोर तिवारी
उप० म० नि० सं० मे० वि० से०

(धल सेना विभाग)

शुद्धि-पत्र

सं० 1704, दिनांक 29 सितम्बर 1988—रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना सं० 760 दिनांक 21 अप्रैल 1988, में भारत के राजपत्र सं० 22 दिनांक 28 मई 1988 के शीर्षक 'नियमित सेना' उपशीर्षक 'तोपखाना रेजिमेन्ट' के अन्तर्गत :—

नायब सूबेदार के पद में

के स्थान पर हवलदार बहादुर सिंह (सं० 14304874ए
अब जे० सी०-172124ए), 10
सितम्बर 1987

पढ़ा जाए—हवलदार बहादुर सिंह (सं० 14304874ए
अब जे० सी०-172124ए), 01
सितम्बर 1987

के स्थान पर—हवलदार उगरसेन शर्मा (सं० 1254101
एफ अब जे० सी०-172127 एन),
01 सितम्बर 1987)

पढ़ा जाए—हवलदार उगरसेन शर्मा (सं० 1254101
एफ अब जे० सी०-172127 एन),
01 सितम्बर 1987

के स्थान पर—हवलदार सत्या नारायण सिंह (सं०
1235832 ए अब जे० सी०-
1433134 क), 28 सितम्बर
1987)

पढ़ा जाये—हवलदार सत्य नारायण सिंह (सं०
1235832ए अब जे० सी०-172134
क), 28 सितम्बर 1987

के स्थान पर—आर० एच० एम० मदन लाल (सं०
1230750 एन अब जे० सी०-172136
के), 11 अक्टूबर 1987*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
अक्टूबर 1987 से दी जायेगी)

पढ़ा जाये—आर० एच० एम० मदन लाल (सं०
1230750 एन अब जे० सी०-
172136 पी) 11 अक्टूबर 1987*

* (नायब सूबेदार के पद में वेतन और भत्तों
पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01
अक्टूबर 1987 से दी जायेगी)

टी० वी० नायर डैस्क अधिकारी

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 29th October 1988

No. 1664, dated 28th September, 1988.—The President is pleased to appoint Shri S. K. Vyawahare as Additional Private Secretary to Raksha Rajya Mantri (Shri Chintamani Panigrahi) in the pay scale of Rs. 3000-100-3500-125-4500 with effect from 25th June, 1988 (FN) til the Minister demits office, or until further orders, whichever is earlier.

No. 1665, dated 30th September, 1988.—The President is pleased to permit Shri K. K. Sundaramurthy, CSS, Under Secretary, Ministry of Defence, to retire from Government service on attaining the age of superannuation with effect from the afternoon of 30th September 1988.

No. 1666, dated 5th October, 1988.— Shri T. N. Bhatt, Additional Private Secretary to Raksha Mantri, Ministry of Defence, expired on 3rd October, 1988.

G. B. WADAWADGI, Under Secy.

DEFENCE RESEARCH AND DEVELOPMENT ORGANISATION

D.R.D.S.

No. 1667, dated 27th September 1988.—The President is pleased to make the following promotions :—

Shri B. Ghosh, Junior Scientific Officer, DRDU, Calcutta to be officiating Scientist 'B' in the same Unit with effect from 29-6-88 (FN).

Shri C. K. Joseph, Junior Scientific Officer, NPOL, Cochin to be officiating Scientist 'B' in the same Laboratory with effect from 30-6-88 (FN).

Shri Devraj Bajaj, Junior Scientific Officer, DSC, Delhi to be officiating Scientist 'B' in the same Centre with effect from 29-6-88 (FN).

Shri M. U. Murarkar, Junior Scientific Officer, ARDE, Pune to be officiating Scientist 'B' in the same establishment with effect from 29-6-88 (FN).

Shri P. B. Bagade, Junior Scientific Officer, ARDE, Pune to be officiating Scientist 'B' in the same establishment with effect from 29-6-88 (FN).

NARSINGH DASS, Asstt. Dir. (Pers.)

ARMY HEADQUARTERS

(AG's Branch)

No. 1668, dated 3rd October, 1988.—On having attained the age of superannuation, Shri Prem Lal, ACSO of Armed Forces Headquarters Civil Service retired from Government Service with effect from 30th September, 1988 (A/N) and transferred to Pension Establishment with effect from 1st October 1988 (F/N).

K. P. THOMAS, Up Mukhya Prashasan Adhikari

ARMY BRANCH

(QMG BRANCH)

No. 1669, dated 21st September 1988.—The following Civilian Staff Officers are appointed as Selection Grade Officers of AFHQ Civil Services under Rule 10(2) of the AFHQ Civil Service Rules, 1968 w.e.f. 17-8-88 to 4-2-89 or till the officers concerned retire or till regular incumbents become available whichever is earliest :—

1. Shri Jesi Ram
2. Shri Kewal Ram

3. Shri Swaran Kumar Paul

4. Shri Vijay Chaudhuri

2. These appointments are purely on ad-hoc basis and can be terminated without notice for administrative reasons or on availability of regular incumbents.

K. P. S. THOMAS, Dy. Chief Administrative Officer

(MILITARY ENGINEER SERVICES)

No. 1670, dated the 28th September 1988.—The President is pleased to appoint the following Assistant Executive Engineers as Executive Engineers with effect from the dates shown against their names till further orders. The officers will be on probation for a period of two years.

(a) MES/448323, Shri Dharendra Kumar Tyagi, Temporary Assistant Executive Engineer, 10th Jun 1988, (F/N).

(b) MES/300197, Shri Indu Bhushan Duggal, Temporary Assistant Executive Engineer, 10th Jun 1988, (F/N).

(c) MES/428144, Shri Ashok Kumar Singh, Temporary Assistant Executive Engineer, 18th Jun 1988, (F/N).

No. 1671, dated the 26th September 1988.—The President is pleased to appoint MES/300008, Shri Dwarka Nath Sharma, Permanent Assistant Executive Engineer, Temporary Superintending Engineer in the Non-Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade Level with effect from 24 Jun 1986 (F/N), till further orders.

No. 1672, dated the 26th September 1988.—The President is pleased to appoint MES/210006, Shri Amar Lal Khurana, Permanent Assistant Surveyor of Works, Temporary Surveyor of Works as Superintending Surveyor of Works with effect from 28th June 1988 (Forenoon), till further orders.

No. 1673, dated the 28th September 1988.—The President is pleased to appoint MES/400376, Shri Kailash Chand Agarwal, permanent Assistant Architect as Architect on ad-hoc basis with effect from 11 Mar 1985 (Forenoon) to 31 Dec 1985 or till regular promotion is made whichever is earlier.

RR KOSHAL, Under Secy.

No. 1674, dated the 23rd September 1988.—The under-mentioned officers retired on superannuation from service with effect from the date indicated against their names :—

MES/103001, Shri DB Naik, CE(Pt), 31 Dec 1987, (A/N).

MES/137001, Shri P Sreenivasa Charyulu, Superintendent B/R Gde I (Pt) SE (Ty) (Non Functional Selection Grade of Junior Administrative Grade Level), 31 Aug 1988 (A/F).

MES/300020, Shri Parupubi Venkateswara Rao, AEE(Pt), SE (Ty), 30 Sep 1988 (A/N).

No. 1675, dated the 21st September 1988.—The under-mentioned officer retired voluntarily from service with effect from the date indicated against his name :—

MES/155074, Shri PM Pathak, ASW, 14 Feb 1988 (A/N).

RK SINGLA, Under Secy.

No. 1676, dated the 21st September 1988.—The President is pleased to make the following appointment under AI 74/76 as amended :—

**REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION**

To be Capt (Surg Lt) (On probation)

M Suryanarayana MURTY, M.B.B.S., (MR-05290-M), (75367N), AMC, 25th October, 1985.

To be Capt (On probation)

Pavan Kumar, M.B.B.S., (MR-05586-L), AMC, 8th April 1987 with seniority for pay and promotion from 8th October 1984 (this includes 2 years antedate for MS (Ophth) and 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

Prashanta Kumar DAS, M.B.B.S., (MR-05433-F), AMC, 5th September 1986 with seniority for pay and promotion from 5th March 1984 (this includes 2 years antedate for MD (Obst & Gynea) and 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

Madan Mohan SINGH, M.B.B.S., (MR-05078-P), AMC, 21st September 1984 with seniority for pay and promotion from 21st March 1982 (this includes 2 years antedate for M.S. (ENT) and 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

To be Lieut (On probation)

Raj Kumar SOOD, M.B.B.S., (MR-05692-K), AMC, 11th February 1987, with Notional Seniority from 30th December 1986 which will have no effect on pay and allowances.

Mohammad Samsuddin AHMED, M.B.B.S., (MR-05642-Y) AMC, 5th January 1987.

To be Lieut (Fg Offr) (On probation)

Rajat BAIJAL, M.B.B.S., (MR-05330-H), (18191), AMC, 26th December 1985.

VK TEWARI, Maj Gen Dy DGAFMS

No. 1677, dated 28th September 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be 2Lts w.e.f. 14 Jan 86

Samrendra Mohan Kumar (IC 43653P) Mech Inf, Ravinder Singh KATARIA (IC 43654X) Mech Inf, K Vinod Kumar (IC 43655A) Sigs, Paul Deepak NAIDU (IC 43657L) Engrs, Hari Singh (IC 43658H) Engrs, Sudhir Kumar (IC 43659W) EME, Sanjay BABBAR (IC 43660L) AC, Raveendran PILLAI B (IC 43661N) EME, Sanjiv MUNJ (IC 43662W) AC, Nipun DWIVEDI (IC 43663Y) Mech Inf, Ashok Kumar SONI (IC 43664F) Engrs, Suhel Singh (IC 43665K) AC, Balbir Singh (IC 43666M) AC, Karanbir Singh BRAR (IC 43667P) AC, Sunil Kumar NV (IC 43668X) Inf, Shiv Pal Singh (IC 43669A) Inf, Amarjot Singh (IC 43670P) AC, Rishi Kumar CHHIKARA (IC 43671X) Inf, Sudhanshu VARMA (IC 43672A) AOC, Gurjap Singh (IC 43673H) Inf, Tejbir Singh (IC 43674L) Arty, Samir R DHAGA (IC 43675N) Sigs, Rajinder Singh (IC 43676W) Inf, Kamal GROVER (IC 43677Y) Arty, Harinder Paul SOOD (IC 43678F) Arty, Gyanendra Pratap Singh SISODIYA (IC 43679K) Inf, Rakesh KAPOOR (IC 43680Y) Arty, Arabinda KARMAKAR (IC 43681F) Inf, Anil Kumar SAMANTARA (IC 43682K) Inf, Niranjan Kumar (IC 43683M) Arty, Jagdish B CHAUDHARI (IC 43684P) Inf, Bhupender Singh (IC 43685X) Inf, Sanjiv

RAI (IC 436686A) Inf, Vivek SHARMA (IC 43687H) Inf, Kalyan Singh (IC 43688L) Inf, Paramdeep Singh BAIWA (IC 43689N) Inf, Hardeep Singh DHODI (IC 43690H) AC, Bose VB (IC 43691L) ASC, Sushil RANA (IC 43692N) Mech Inf, Ravinder Singh (IC 43693W) AC, Sanjit CHOUDHARY (IC 43694Y) Inf, Akash Sharad TAGGAR (IC 43695F) Engrs, Sarabjit Singh (IC 43696K) AOC, Deo Bahadur KHATRI (IC 43697M) Inf, Shailendra Singh (IC 43698P) Arty, Gurvinder Pal Singh (IC 43699X) Arty, Anil Kumar S PAWAR (IC 43700F) Inf, Madan Sheel SHARMA (IC 43701K) Arty, Patanjali Kanul (IC 43702M) Arty, Rajat, Kumar MATHUR (IC 43703P) ARTY, Saiyed Qamar Ahmed (IC 43704X), Arty, Bal Raj SHARMA (IC 43705A) Inf, Rajaesh Kumar SHARMA (IC 43706X) Sigs, Ashok Kumar MAJUMDAR (IC 43707L) Arty, Prithviraj PATNAIK (IC 43708N) Inf, Balwinder Singh SANDHU (IC 43709W) Engrs, Tarun Kumar Aich (IC 43710L) Inf, Deepak MALHOTRA (IC 43711N) Sigs, Ajay Basant Kumar SIBAL (IC 43712W) Engrs., Rahul MALHOTRA (IC 43713Y) Inf, Jose M George (IC 43714F) Arty, Pradeep Kumar Singh (IC 43715K) Inf, Rajwani Singh (IC 43716M) Arty, Mukund SHARMA (IC 43717P) Engrs, Devendra Singh YADAV (IC 43718X) Inf, Suresh Singh DABAS (IC 43719A) Inf, Devendra Kumar Singh (IC 43722A) Inf, Hemant Kumar PANI (IC 43723H) ASC, Sandeep Kumar CHUGH (IC 43724L) Arty, Manoj Kumar KATIYAR (IC 43725N) Inf, Samarjit (IC 43726P) Inf, Bahadur Singh (IC 43727Y) AOC, Ravindra B Biradar (IC 43728F) Engrs, Rajeev SAKSENA (IC 43729K) Inf, Sandeep PANDE (IC 43731F), Inf, Vikram Singh (IC 43732K) Arty, Avinash A POL (IC-43733M) Inf, Yogesh SEHGAL (IC 43734A) Engrs, Jogesh Chandra TALUKDAR (IC-43735X) Arty, Dinesh Kumar NAIN (IC-43736A) Arty, Rajeev THAPAR (IC-43737H) Inf, S Parthasarathy (IC-43738L) Sigs, Rahul SRIVASTAVA (IC-43739N) Inf, Dhceraj CHANDOLA (IC-43740H), Sigs, Yogesh ARYA (IC-43741L), EME, Naresh RANA (IC 43742N) Inf., Ravi Raman Singh (IC-43743W), Inf, Ishwani Datt JOSHI (IC-43744Y) Engrs, Adosh Kumar (IC 43746K) Arty, Sanjeev DHILLON (IC-43747M) AC, Yashmer Singh REDHU (IC-43748P) Mech Inf, MS NATU (IC 43749X) ASC, Gurkirpal Singh VIRK (IC-43750M) Inf, Bikramjeet Singh AUJLA (IC-43751P) Inf, R Rajeev (IC-43752X) Sigs, Sumer Chandra UPRETI (IC-43753A) Arty, Ramesh Singh YADAV (IC-43754H) Inf, Ashwini CB Singh (IC-43755L) Engrs, Mathew CHACKO (IC-43757W) Arty, Inomas MC (IC-43758Y) Inf, Swanand B KASAR (IC-43759F) Mech Inf, Gurinder Singh (IC-43760W) Engrs, Niren BHARTI (IC 43762F), Inf, Shastri Prasad TRIPATHI (IC-43763K), Arty, Shaktibrata BOSE (IC-43764M), Arty, Narendra Singh (IC-43765P) Inf, Ashutosh KALE (IC-43766X) Inf, Mukesh Kumar RASLOGI (IC-43768H) Inf, Sunil Kumar SAHARAN (IC-43769L) Arty, Shashi BHUSHAN (IC-43770A) Inf, S Mohan (IC-43771H) Arty, Ominder Singh (IC-43772L) Inf, Naresh Kumar (IC-43773N) ASC, Prashant Kumar MATHUR (IC-43775Y) Sigs, Anil Kumar ROHILLA (IC-43776F) Inf, Prashant P OAK (IC-43777K) Arty, Ajay KAILA (IC-43778M) EME, Alok JAIN (IC-43779P) Arty, Dipak BANERJEE (IC-43780K) Inf, Ravindra Singh MUDHAR (IC-43781M) Inf, Ravindra Prakash SHARMA (IC-43782P) Inf, Kuldip Singh SHARAWAT (IC-43783X) Inf, Digvijay Singh (IC-43784A) Inf, Awadhesh Kumar KALIA (IC-43785H) Sigs, Raise Alam KHAN (IC-43786L) AC, P Vijayan Janardhanan (IC-43787N) Engrs, Sandeep JAITLEY (IC-43788W) AOC, Vivek MUTHANNA (IC-43789Y) Inf, Sanjay SINGHAL (IC-43790W) Arty, M Udayana REDDY (IC-43791W) Sigs, M Satyanarayana REDDY (IC-43792Y) Arty, Jitendra Kumar CHAURASIA (IC-43793F) Inf, Sanjay NAND (IC-43794K) Inf, A Murgesan (IC-43795M) Inf, Sunil Kumar VS (IC-43797K) Arty, Balvinder Singh MAVI (IC-43798A) AOC, Vipin Kumar PATPATIA (IC 43799H) Inf, Ram Bali Singh (IC-43802X), Inf, S Satish PRABHU (IC-43803A) Arty, Atul KOCHHAR (IC-43805L) Inf, Rajiv Ranjan (IC-43806N) Arty, Juyadev K (IC-43807W) Sigs, Mohan Bir Singh (IC-43808Y) AC, Mahavir Singh (IC-43809F) Inf, Vasudhesli ARYA (IC-43810W) Arty, Bishan Dutt (IC-43811Y) Inf, Pratipal TALWAR (IC-43812F) Arty, Bhimraj K BHALSING (IC-43813K) Inf, V Subramani (IC-43814M) Engrs, Chinmaya SHARMA (IC 43815P) AOC, Kulbir Singh KATARIA (IC-43816X) ASC, Nimad G RAILKAR (IC-43817A) Sigs, Ram Naik PANDEY (IC-43818H) Arty, Achanta Pragathi Kumar

(IC-43819L) Inf, Gogireddy Srinivasa REDDY (IC-43820A) Inf, Navroop Singh MANGAI (IC-43821H) ASC, Nekuru Kose BABU (IC-43822L) Inf, Harjit Singh AULAKH (IC-43824W) AOC, Suresh Kumar M Sreedharan (IC-43825Y), Engrs, K Anil Kumar (IC-43826F), Arty, S Sankara Narayanan (IC-43827K) Engrs, Ashok Kumar (IC-43828M) Inf, Ravinder Singh HOODA (IC-43829F) Inf, Benny Sebastian (IC-43830K) Inf, Vivek Narayan KHADILKAR (IC-43831M) Sigs, Sukhjit Singh (IC-43832F) Mech Inf, Saumitra Kumar RAHALI (IC-43833X) Arty, Anand Kumar (IC-43834A) Arty, Indrajit CHATTERJEE (IC-43835H) Inf, Rajinder Kumar (IC-43837N) Sigs, Rajan PASSI (IC-43838N) ASC, Anurag SHAKMA (IC-43839Y) Arty, Rajendra B PATIL (IC-43840N) AOC, Gautam KN (IC-43841W) Inf, Adish YADAV (IC-43845F) Inf, Baljeet Singh NAHAL (IC-43844K) Arty, Sanjive Singh (IC-43845M) Inf, Arun Kumar (IC-43846F) Inf, Pradeep JADEJA (IC-43847X) Engrs, Chandra Shekhar MISRA (IC-43848A) Inf, Virender Singh (IC-43851A) AC, Vijaya Kumar R (IC-43852H) Inf, Gurjit Singh (IC-43853L) Inf, Alok Datta SARDANA (IC-43854N) EME, Sandeep G Sarpotdar (IC-43855W) Mech Inf, M Gnana Sekaran (IC-43856Y) Arty, Manjit Kumar (IC-43858K) Sigs, Harbirinder Singh GILL (IC-43859M) ASC, Madhukar Bhurao KADAM (IC-43860F) Inf, Praveen Kumar GANGWANI (IC-43861K) Arty, Ajay AHUJA (IC-43862M) Engrs, Sanjaya PANT (IC-43863P) Arty, Pentapalli Madhusudana RAO (IC-43864X) Arty, Sanjay PANDEY (IC-43865A) Inf, Ravi Kant KAUSHAL (IC-43866H) Arty, Avadhoot M GADE (IC-43867L) Sigs, Biswajit DAS (IC-43868N) Inf, Subhash Chand SHARMA (IC-43870L) Sigs, Sangrama Kesari JENA (IC-43871J) Inf, Pradeep BHATIA (IC-43872W) Inf, Manduva Rupa Pavana Kumar (IC-43873Y) Arty, Vijay MEHTA (IC-43875K) Inf, Rajinder DEWAN (IC-43877P) Inf, Uttakalla Sundaram (IC-43878X) Inf, Sukh Rampal AHLAWAT (IC-43879A) Arty, Suneel CHATURVEDI (IC-43880P) ASC, Suresh Chandra GUPTA (IC-43881X) Arty, Suprio BHATTACHARYA (IC-43882A) Engrs, Shresh SHARMA (IC-43883H) ASC, Nawal Kishore Singh (IC-43885N) Inf, S Anshu Teri (IC-43887Y) ASC, Anil Kumar G KAMOJI (IC-43888F) Engrs, Ajit Kumar SAKSENA (IC-43889K) Inf, Kanwaljit Singh UPPAL (IC-43890Y) AOC, Pawan MEHROTRA (IC-43891K) Inf, Veeresh Bahadur (IC-43894P) Inf, Vijayakumaran NAIR VS (IC-43895X) Arty, Sishu Pal Singh SINGER (IC-43896A) Sigs, Sandeep SUD (IC-43897H) Inf, Rupinder Singh HANS (IC-43898L) EME, Hari Mohan MAHESHWARI (IC-43899N) Inf, Ajay Singh RAIHOD (IC-43900X) Engrs, Sreelal SK (IC-43901A) Arty, Satash Kumar (IC-43902H) Arty, Phalguni MUKHERJEE (IC-43903L) Inf, Awadhendra Pratap Singh (IC-43904N) Inf, Rajesh Kumar SHARMA (IC-43906Y) Arty, Keerti Kumar SHARMA (IC-43907F) Sigs, SP Vishwanath (IC-43908K) AOC, Aseem JOSHI (IC-43910F) Inf, Sharad TANDON (IC-43912M) ASC, Shivaprasad K BHARAMASHETTAR (IC-43913P) Engrs, Arabinda Kumar PATRA (IC-43915A) Arty, Rajendra Kumar TALWAR (IC-43916H), AOC, Rajib MANDAL (IC-43918N) Inf, Bhoop Singh (IC-43919W) Inf, Dinesh SRIVASTAVA (IC-43920L) Arty Tapas Kumar Raj (IC-43921N) Inf, Shahidul Islam (IC-43922W) Inf, Rajiv KAPOOR (IC-43923L) Inf, Rajeev Kumar Singh (IC-43924F) Inf, Amarjot Singh GILL (IC-43926M) ASC, Ramesh Kumar (IC-43927P) Inf, Rajesh SACHDEVA (IC-43929N) Mech Inf, Abhay Singh (IC-43930P) ASC, Virendra Singh (IC-43931X) Inf, Bhupal Kumar (IC-43932A) Arty, Arun PANDEY (IC-43935N) Inf, Kanneganti Venkata Lakshmi Prasad (IC-43936W) Arty, Sugathan VK (IC-43937Y), Inf, Shriram B HERLEKAR (IC-43939K) Engrs, Deepak AGGARWAL (IC-43940Y) Arty, Rajinder Singh LOCHAM (IC-43941F) ASC, Sanjay KHATTIRI (IC-43943M) Inf, Santanu GHOSH (IC-43952M) Inf, Inder Jeet Singh (IC-43953W) Mech Inf, Satish Kumar SANGWAN (IC-43954Y) Inf, Sandeep SHANKLA (IC-43956K) Inf, Bikram Singh (IC-43958P) Inf, Surendera Vickram Singh (IC-43959X) Inf, PRABHU Makarand Vasant (IC-43960M) Arty, Kochu Koshyanicker NK (IC-43962X) Inf, Shajee Jacob (IC-43963A) AOC, Piyush AGNIHOTRI (IC-43964H) Engrs, Vijay Pal Singh (IC-43965L) Inf, Sanjay KAPOOR (IC-43966N) Engrs, Rakesh JUNEJA (IC-43969F) Sigs, Rajnaya Singh (IC-43970W) AC, Rajeev SHARMA (IC-43971Y), Inf, Arun SINDHWANI (IC-43872F) AOC, Mukesh Kumar TULLI (IC-43973K) Inf, Sandeep MEHROTRA (IC-43975P)

Arty, Sudhir Kumar SINHA (IC-43976X) Arty, Arun Krishnankutty (IC-43977A) Inf, Ajit Narayan TIWARY (IC-43978H) Arty, Sudershan Singh (IC-43979L) Inf, Ajit Kumar (IC-43980A) Inf, Pratap Singh (IC-43985Y) Mech Inf, Supan Kumar CAMANIA (IC-43986F) Sigs, Raman VARMA (IC-43987K) Inf, Pardeep Kumar WALIA (IC-43988M) Inf, Yudhvir Singh JAMWAL (IC-43989F) ASC, Tilok Kumar BANERJEE (IC-3990K) Engrs, Visupakshappa C Neelgal (IC-43992P) ASC, Vanturu Ravi Kumar (IC-43993X) ASC.

To be 2/Lts wet 14 Dec 1985

Rajiv MINOCHA (IC-43265X), ASC, with seniority next below Alok VAIS (IC-43264P) Arty, Kapil KHOSLA (IC-43295P) Inf with seniority next below Arun Kumar PANDEY (IC-43294M) Inf, Naresh Kumar (IC-43308F) Engrs, with seniority above Anil Kumar (IC-43309K) ASC, Sunil KOTNALA (IC-43319N) Inf, with seniority next below Nirjhar BHAUMIK (IC-43318L) AC, PV Krishnan (IC-43362P) Arty with seniority next below Polasa CHOUDHURY (IC-43361M) Inf, Vinod Kumar (IC-43367N) Arty, with seniority next below Amarjit Singh PARWAR (IC-43366L) Inf, Sanjiv Dutt (IC-43376P) Inf with seniority next below KAMBLE Ramchandra Maruti (IC-43375M) Arty, Ajit Singh (IC-43399W) Inf, with seniority next below Kulbir Singh (IC-43398N) Inf, Chavali Srinivasa RAO (IC-43409P) Arty with seniority above Deepak DE (IC-43410K) Inf, Tara Patti RANA (IC-43414A) Inf with seniority next below Ashutosh BADIAL (IC-43413X) Inf, Yashpal KAJLA (IC-43427X) Inf, with seniority next below Atosh CHAHR (IC-43426A) Inf, Jotia Man GURUNG (IC-43433L) Inf with seniority above Satish Prakash Singh (IC-43434N) Engrs, Bhuwan Chandra RAI (IC-43446H) AOC with seniority above ATRE Hemant Arvind (IC-43447L) Sigs, Inderdeep Singh BAINS (IC-43448N) ASC with seniority above Ravinder Singh GILL (IC-43449W) Inf, Jokim Anthony (IC-43478L) ASC with seniority next below Kamal Chandra KALITA (IC-43477H) Arty, Maneesh Prasad TANDON (IC-43482N) Inf with seniority next below Sanjay GROVER (IC-43481L) Arty, Harpreet Singh ANAND (IC-43485F) Sigs with seniority above Kuldeep Singh THAKUR (IC-43486K) Inf, Pankaj GAUR (IC-43493A) Inf, Amit HAJENA (IC-43494H) Inf, with seniority next below Harpinder Pal Singh (IC-43492X), Inf, Sukhvinder Singh RATHEE (IC-43503Y) Inf with seniority next below A Jerome Alexander (IC-43502W) AOC, Mohinder Singh (IC-43510P) Arty with seniority next below Joginder Singh (IC-43509A) Arty, Sanjeev Kumar SAWHNEY (IC-43512A) Arty with seniority next below Rajesh PANTA (IC-43511X) Inf, Rajender Kumar JEFFR (IC-43515N) Inf with seniority next below Ram Saran HOODA (IC-43514L) Engrs, Arup SAHA (IC-43530H) Engrs with seniority next below Pankaj KAUSHIK (IC-43529N) Arty, Arvinder Singh (IC-43532N) AOC with seniority next below Tarkeshwar RAI (IC-43531L) Sigs, Alok KARUNAKAR (IC-43550W) Sigs with seniority next below Dipinder Singh LOCHAM (IC-43549F) Arty, Rakesh Raghuvanshi (IC-43556X) ASC with seniority next below Samer Singh SENGAR (IC-43555P) Arty, Arvind KOHLI (IC-43564W) Inf with seniority next below Sanjay WAHAL (IC-43563N) Inf, Nirdosh Kumar RANGRA (IC-43568N) AOC with seniority next below Balwinder Singh BAJWA (IC-43567K) Arty, Arvinder Singh (IC-43577N) Inf with seniority next below Abhay Swaroop (IC-43576L) Sigs, Raman Pal Singh MAN-KOTIA (IC-43581W) Inf with seniority next below Sanjiv SUDAN (IC-43580N) Inf, Vikrant Singh (IC-43596Y) Arty with seniority next below KN Sreekumar (IC-43595W) AC, Jaswant Singh RANDHAWA (IC-43598K) Mech Inf with seniority next below Anil AHUJA (IC-43597F) Arty, Nir-mal Bikram Singh RIAR (IC-43605P) Inf with seniority next below Amrit Pal Singh (IC-43604M) Inf, whose names had been appeared in the Gazette of India, Ministry of Defence Notification dt. 16-7-1988 published in the Gazette of India.

SC Joshi
Lt Col
AMS 8B

(ARMY BRANCH)

No. 1678, dated 3rd October 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

To be 2/Lts wef 20 Dec 86

Atul RAWAT (IC 44036Y) Mech Inf, Sanjay DOGRA (IC 44037F) Inf, H DHARMARAJAN (IC 44038K) Engrs, Sanjeev JOSE (IC 44039M) Arty, Rajender Singh RAWAT (IC 44040F) Inf, Maniyil INDRABALAN (IC 44041K) Engrs, Abhishek Raj BAJPAI (IC 44042M) Mech Inf, Shyam Mohan BHARADWAJ (IC 44043P) Engrs, Dhiraj SEIH (IC 44044X) AC, S K PRASAD (IC 44045A) Engrs, Jagjeet Singh NANDA (IC 44046H) Inf, Gajendra TRIPATHI (IC 44047L) Inf, Prashant S JAISWAL (IC 44048N) Engrs, Roopak JAKMOLA (IC 44049W) AC, Mela Ram GAUTAMA (IC 44050L) AC, Dharam Vir Singh (IC 44051N) Mech Inf, Rakesh Kumar Singh (IC 44052W) Engrs, Mohandas P (IC 44053Y) Arty, Vivekanand CHOUDHARY (IC 44054F) Engrs, Vinod Mohan Chandran (IC 44055K) AC, Randhir Singh YADAV (IC 44056M) EME, Rajiv MANKOTIA (IC 44057P) Inf, Subrat Kumar DAS (IC 44058X) Arty, Nikhilesh Bhalchandra PARADKAR (IC 44059A) Inf, Anil GAUTAM (IC 44060P) Arty, Taranvir Singh CHADHA (IC 44061X) Sigs, Ajai VERMA (IC 44062A) Inf, Akshat ARORA (IC 44063H) Inf, Arvind Kumar AGARWAL (IC 44064L) Arty, Manjinder Singh (IC 44065N) Inf, Kumar SANATAN (IC 44066W) AC, Ashish Nath JHA (IC 44067Y) Inf, D Deena Dayalan (IC 44068F) ASC, Satya Pal MALIK (IC 44070Y) AOC, Rajendra NEGI (IC 44071F) EME, Kapil BHARDWAJ (IC 44072K) Arty, Rajesh Parkash (IC 44073M) EME, Sanjeet Singh BAKSHI (IC 44074P) Arty, Shakti Singh SHARMA (IC 44075X) Inf, Anil B SINDGI (IC 44076A) Inf, Parminder Singh SANDHU (IC 44077H) Inf, V M BABU (IC 44078L) Inf, Manas Ranjan CHOU DHURY (IC 44079N) Inf, Ramesh Kumar Singh (IC 44080H) Inf, Pramod RAWAT (IC 44081L) EME, Sanjay PURI (IC 44083W) Inf, Ravi DEWAN (IC 44084Y) Arty, Atul KASAL (IC 44085I) AC, Rohit MEHROTRA (IC 44086K) Sigs, Sudeep BHATTACHARJEE (IC 44087M) Arty, Rajwant Singh (IC 44088P) Inf, Monish GULATI (IC 44089X) Arty, Vinay DHIMAN (IC 44090M) Arty, Deepak KAJLA (IC 44091P) Inf, Goutam DEY (IC 44092X) Arty, Gurdishan Singh GREWAL (IC 44094H) EME, Anil Kumar KASHID (IC 44095L) Arty, Akash POPLI (IC 44096N) EME, Harjeet Singh (IC 44097W) Sigs, Neeraj VARSHNEY (IC 44099P) EME, Vinay Mohan (IC 44100L) Inf, Neeraj Kumar KESHAB (IC 44101N) EME, Ganpat Singh MERTIA (IC 44102W) Inf, Rajeev SINGHLE (IC 44103Y) Sigs, K MANOHARAN (IC 44104F) Inf, Pankaj DIKSHIT (IC 44105K) Sigs, Indurkar Nitin Ram (IC 44106M) Inf, Sanjeev S RATHOUR (IC 44108X) EME, Krupal Singh (IC 44111X) Arty, Vivek AIRI (IC 44112A) Arty, Ashish SONAL (IC 44114L) Inf, Kundan Lal KHAJURIA (IC 44116W) AOC, Manjit Singh (IC 44118F) Inf, Rajnesh AKHOURY (IC 44119K) Inf, Satpal Singh DAHIYA (IC 44120Y) Inf, Vijayakumar Narayan SAWANT (IC 44121F) Inf, Samir KHARE (IC 44122K) Arty, Laxman Singh (IC 44123M) Inf, Brijender Singh (IC 44124P) Inf, Rajbir Singh BINDRA (IC 44125X) Arty, Ravinder Singh BHATTI (IC 44126A) Mech Inf, J Nanda Kumar (IC 44127H) AC, Arun NAIR (IC 44128L) Inf, Shashi Kant JASWAL (IC 44131L) EME, Suresh CHANDRA (IC 44132N) AOC, Sanjeev RELIA (IC 44133W) Sigs, N A Pradeep (IC 44134Y) Arty, Swaraj R ROY (IC 44135F) Inf, Ravi DIMRI (IC 44136K) Inf, Vivek BHATT (IC 44137M) Sigs, Sanjay NADKARNI (IC 44138P) Inf, Sabir Ali Siddiqui (IC 44140M) EME, Girish Kumar SHARMA (IC 44141P) Arty, Sudeepkumar D MEHTA (IC 44142X) Arty, Pawan BAJAJ (IC 44143A) Inf, Kamesh SETH (IC 44144H) Inf, Sanjay SHRIVASTAVA (IC 44146N) Arty, Jitendra Singh (IC 44147W) Sigs, Sandeep SABHARWAL (IC 44148Y) EME, Rajiv Kumar Singh (IC 44149F) AOC, Nitin Kumar JOSHI (IC 44150W) Arty, Sudhir PHILIPPOSE (IC 44151Y) ASC, Rajinder Singh WALLA (IC 44152F) Arty, Advitya Mohan Madan (IC 44153K) Inf, M Ramesh (IC 44155P) Inf, Bihar Singh SHEKHAWAT (IC 44156X)

INF, Ashish Kumar (IC 44157A) Mech Inf, Abdul Razak Khadar (IC 44158H) Arty, Indranil BISWAS (IC 44159L) Inf, Vivek MATTA (IC 44160N) AOC, Shery Peter (IC 44162L) Inf, Manoj Manohar TIPNIS (IC 44163N) Engrs, Gurbirinder Singh SHAHEED (IC 44164W) Inf, Rajiv Manmohan Singh (IC 44165Y) Inf, Vivek NAITHANI (IC 44166F) Inf, Narinder Pal Singh (IC 44167K) Inf, Ashok Kumar ADHIKARI (IC 44168M) Arty, Ambrish MALHOTRA (IC 44171M) ASC, Vinod Kumar RAI (IC 44172P) Inf, Sandeep GHULIANI (IC 44174A) Arty, Limaye Suneel Moreshwar (IC 44175H) Inf, Vikram Govind PANDE (IC 44176L) Inf, Kannan Santhanam (IC 44178W) AC, Raj Kumar (IC 44179Y) Inf, Sanjay TYAGI (IC 44180N) Inf, Rajiv DUA (IC 44182Y) Arty, Satya Nidhi TANDON (IC 44183F) Arty, H Shankar (IC 44184K) EME, Arun BARMAN (IC 44186P) ASC, Kishor NATHANI (IC 44187X) AOC, Ram Singh KADYAN (IC 44189H) Inf, Ashish Ravindra CHANDORKAR (IC 44190X) Inf, Sandeep Singh DHADWAL (IC 44191A) Inf, Sanjeev SETH (IC 44192H) Inf, Ranbir Singh (IC 44193L) Inf, Akash SACHAN (IC 44194N) Engrs, Ravinder Singh (IC 44195W) AOC, Udai Nath Singh YADAV (IC 44196Y) Arty, Ranvijay Singh JHALA (IC 44197F) Inf, T Ramesh (IC 44199M) EME, Deepak SANI (IC 44200W) Inf, Arvind KAPOOR (IC 44202F) AC, Anil Kumar Singh (IC 44203K) Mech Inf, Ravi SANGWAN (IC 44204M) EME, Ashok THAKUR (IC 44205P) EME, Velicheti Venkateswara RAO (IC 44206X) Inf, Karyamsetty Sharoan MARTIN (IC 44207A) Inf, Rajinder VERMA (IC 44208H) Inf, Tarun PARASHAR (IC 44209L) Inf, Narinder Singh (IC 44210A) Arty, Inder Mohan LAMBA (IC 44211H) Arty, Manjeet Singh (IC 44214W) AOC, Manoj Kumar SACHAN (IC 44215Y) Arty, Amitava MUKHERJEE (IC 44216F) EME, Rajendrakumar J KAMBLE (IC 44217K) AOC, Ajay MALIK (IC 44218M) EME, Manpreet Singh CHAWLA (IC 44219P) Inf, Jaison K Jose (IC 44220K) Inf, Om Prakash SUMARA (IC 44221M) Inf, Jag Mohan (IC 44223X) Sigs, Rohit BUTALIA (IC 44224A) Arty, Jellery MJ Valentine (IC 44225H) EME, Jagjit Singh GILL (IC 44226L) Inf, M Ramesh MV JOGARAO (IC 44227N) Sigs, Vikram Singh (IC 44228W) Inf, Naresh JETHWANI (IC 44230N) Inf, Santosh Kumar NANDA (IC 44231W) ASC, Rajat MATHUR (IC 44232Y) Inf, Dinesh Prasad NAUTIYAL (IC 44233F) Engrs, Virender Kumar HARYAL (IC 44235M) Arty, Mujahid Ismail (IC 44236P) AC, Ravindra Donald Rodneyl (IC 44237X) Arty, Anand MISRA (IC 44238A) Arty, Preet Mohindera Singh (IC 44239H) ASC, Jiwan Chandra (IC 44240X) Arty, Anil Kumar (IC 44241A) Engrs, Gaurav SHARMA (IC 44242H) Inf, Sanjay RATHAUR (IC 44243L) Engrs, Sunil WASON (IC 44244N) EME, Basil MASSEY (IC 44245W) Inf, Shailendra MISHRA (IC 44246Y) AC, Sanjay KAPOOR (IC 44247F) Engrs, Vinod Kumar CHASWAL (IC 44249M) ASC, Sandeep SUDAN (IC 44251K) Mech Inf, Sunil DALAL (IC 44252M) ASC, Subhash NK (IC 44253P) Arty, Naginder Singh (IC 44254X) Engrs, Krishan Bishambharnath YADAVA (IC 44256H) Inf, Girish SURI (IC 44258N) Sigs, Krishna Mohan PCDURI (IC 44259W) Inf, Sudhakar SRIVASTAVA (IC 44260L) EME, Brij Gopal (IC 44261N) Inf, Balagopal Singh CHAUHAN (IC 44262W) AOC, Deepak TYAGI (IC 44263Y) Sigs, Arvind VERMA (IC 44264F) Sigs, Chandra Nath BANERJI (IC 44265K) Arty, Animesh GANGULY (IC 44266M) Arty, Rajeev BHATIA (IC 44268X) EME, Santanu NAG (IC 44269A) Inf, Bhubaneswar Singh YADAV (IC 44271X) Inf, Gurjinder Pal Singh VIRK (IC 44272A) Arty, Sandeep Kumar SATPATHY (IC 44273N) Inf, Ravindra Kumar AGARWAL (IC 44274L) Arty, P Ramesh (IC 44275N) Arty, Sunil N PUROHIT (IC 44276W) AOC, Manmohan Singh SHERGILL (IC 44277Y) Inf, Taplawer Singh (IC 44278F) Engrs, Sanjay GOSWAMI (IC 44279K) Arty, Jaidev Singh SAMYAL (IC 44280Y) AC, Gantama DUTTA (IC 44281F) Inf, Sharanjit Singh (IC 44282K) Inf, Amar Singh (IC 44283M) Sigs, S Guruprasad (IC 44284P) Arty, Sunil K MEHTA (IC 44285X) EME, Pranvendra Kumar (IC 44286A) EME, Amit TRIPATHI (IC 44287H) Inf, Aman Singh YADAV (IC 44289N) ASC, Arvind GROVER (IC 44290H) ASC, Shaji CV (IC 44291L) Arty, Tarun CHIBBER (IC 44292N) Arty, Kuldeep Singh DALAL

(IC 44293W) Sigs, Gadde Venkata Badari Sai Sankar (IC 44295F) Inf, Jaideep GHOSE (IC 44296K) Arty, Sandeep DHINGRA (IC 44297M) Sigs, Rajinder Singh (IC 44298P) Arty, Jagdish Jaysingh Rao GADEKAR (IC 44299X) Inf, Virendra Kumar YADAV (IC 44300F) Arty, Narinder Singh (IC 44302M) Mech Inf, Krishna Kumar (IC 44303-P) Inf, Sudhir Singh CHAUHAN (IC 44304X) Inf, Ram Ratan NEGI (IC 44306H) Engrs, P Ayyappan SAMY (IC 44307L) Inf, Gurmail Singh KATTAURA (IC 44308N) AC, Sarup Singh SIDHU (IC 44309W) Inf, Sunil KUTTY (IC 44311N) EME, Sameer JAIN (IC 44312W) Engrs, Satbir Singh DAGAR (IC 44313Y) AOC, Navin Chandra TEWARI (IC 44314F) ASC, Manoj Kumar JAIN (IC 44317P) Arty, Pankaj Kumar (IC 44318X) Inf, Chandra Shekhar NAUTYAL (IC 44319A) Inf, Yogender Singh PARMAR (IC 44320P) EME, PV Sudhir Narayanan (IC 44321X) Engrs, Vivek Kumar BAJPAI (IC 44322A) Inf, Khanolkar Vinay VITHAL (IC 44323H) EME, Vijay Narendra GAWDE (IC 44324L) Inf, Rakesh Kumar SHARMA (IC 44325N) Sigs, Satven ANAND (IC 44326W) Arty, Saif Ul Islam KHAN (IC 44327Y) Arty, Sukhvir Singh AHLAWAT (IC 44328F) Inf, Debabrata MOHAPATRA (IC 44329K) Mech Inf, Mutatkar Madhusudan Ramachandra (IC 44330Y) Inf, Prasoon Singh (IC 44331F) Arty, M Shashidhar RAO (IC 44333M) Inf, Sanal Kumar AV (IC 44334P) AOC, Prashant Kumar (IC 44335X) Arty, Sukhdev Singh DHALIWAL (IC 44336A) Inf, Manoj BHARDWAJ (IC 44337H) Inf, Ronodeep ANAND (IC 44338L) AC, Andrew ABHAHAM (IC 44339N) Inf, Ravindra BALI (IC 44340H) EME, Dharmendra Kumar (IC 44343W) Arty, Kanwaljit Singh SANDHU (IC 44344Y) Inf, Gaurab ROY (IC 44345F) Sigs, Tejinder JAGGI (IC 44346K) EME, Leeladhara SHARMA (IC 44347M) Arty, Vikramjit GUPTA (IC 44349X) Arty, Akhil Kumar SHARMA (IC 44350M) Arty, Jaawant Singh SHEKHAWAT (IC 44352X) ASC, Virendra SHARMA (IC 44353A) AOC, Rajendra Pal Singh AHLUWALIA (IC 44355L) Engrs, Ranjan Kumar (IC 44356N) Inf, Amar Deep Singh BADWAL (IC 44357W) ASC, Lokesh CHOPRA (IC 44358Y) Sigs, Animesh TRIVEDI (IC 44359F) Arty, Sanjay TATWAR (IC 44360W) Sigs, Bhim Giri GOSWAMI (IC 44361Y) Inf, Binay Kumar Singh (IC 44362F) Sigs, Rajender Kumar (IC 44363K) AOC, S Venkataraman (IC 44364M) Arty, Tanan Singh (IC 44366X) Inf, Glen John D'Amico (IC 44367A) AOC, Arif Murtaza Ahmed OWAISY (IC 44368H) ASC, Rajpal Singh MALIK (IC 44369L) AC, Prabh Preet (IC 44370A) AOC, Anil SHARMA (IC 44371H) EME, Hemant KAKAR (IC 44372L) Arty, B Shashi Dhar (IC 44373M) Engrs, Ranbir Singh (IC 44374W) Inf, Sanjeev PANDIT (IC 44375Y) Sigs, Anil MISRA (IC 44376F) AC, Anil CHAUDHARI (IC 44377K) Arty, Lokesh Srinivas (IC 44378M) Inf, Alok Narain (IC 44379P) Inf, Manu Rai Singh (IC 44380K) Inf, Sant Pal (IC 44381M) ASC, Sunil ISSAR (IC 44384A) Inf, Sushant KUSHRESHTHA (IC 44385H) Sigs, Sanjay RANDEV (IC 44386L) Inf, Amit ATREY (IC 44387N) Arty, Atul Kumar HOLKAR (IC 44388W) ASC, Kuldeep Kumar CHOWDHRI (IC 44389Y) AOC, Yashvir CHAUDHARY (IC 44390N) Inf, Akshay Kumar (IC 44392Y) Inf, Sanjay KAPOOR (IC 44393F) Arty, Leon Melaniva Dizes (IC 44395M) Mech Inf, Nisha Kant RAWAT (IC 44396P) Sigs, Anil Ram (IC 44397X) AC, R Kumar (IC 44398A) Engrs, Ashok SHARMA (IC 44399H) AC, Atul TYAGI (IC 44400M) Arty, Vijender Singh KADYAN (IC 44402X) Inf, Sanjay KHANNA (IC 44403A) ASC, Manoj Kpmar BISHNOI (IC 44404H) Inf, Shakti Kumar GAUTAM (IC 44405L) Mech Inf, SN Shekhar (IC 44406N) Int, Pradeep MISRA (IC 44407W) Sigs, Sanjiv SHARMA (IC 44408Y) Arty, Sunil Kumar GUPTA (IC 44410W) Arty, Sukhvinder Singh (IC 44411Y) Arty, Ram Kumar (IC 44415P) Inf, Raj Kumar DAHIYA (IC 44417A) Inf, Sinari Narayana WAMAN (IC 44419L) Inf, Madhu Sudan Singh (IC 44420A) Arty, Rommel Rajain (IC 44422L) Inf, Arun DESHPANDE (IC 44423N) ASC, Deepak SHARMA (IC 44424W) EME.

DR PARAB, Lt Col AMS 8A

ARMY BRANCH

No. 1679, date the 6th September 1988.—The President is pleased to confirm the undermentioned officer consequent on the completion of the probationary period :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Capt R ROY (MR-05383-F) AMC, 30th January 1986.

Lt (Now Capt) T S ROY (MR-05181-A) AMC, 5th January 1985.

Lt (Now Capt) P K TIWARY (MR-05262-A) AMC, 30th August 1985.

Lt (Now Capt) M S CHAUHAN (MR-05273-M) AMC, 4th September 1985.

Lt (Now Capt) S CHAKRABERTY (MR-05305-K) AMC, 26th December 1985.

Lt (Now Capt) S V GUPTA (MR-05307-P) AMC, 26th December 1985.

Lt (Now Capt) A BHATTACHARYYA (MR-05375-H) AMC, 9th January 1986.

Lt (Now Capt) S V SYFD (MR-05377-N) AMC, 10th January 1986.

Lt (Now Capt) R GIRISH (MR-05378-W) AMC, 10th January 1986.

Lt (Now Capt) CHATORAJ (MR-05382-Y) AMC, 29th January 1986.

Lt (Now Capt) S DEBNATH (MR-05384-K) AMC, 1st February 1986.

Surg Sub Lt (Now Surg Lt) A KAUL (MR-04785-M) (75301-N) AMC, 27th June 1983.

Surg Sub Lt (Now) Surg Lt M S SAHI (MR-05317-Y) (75362-A) AMC, 26th December 1985.

Surg Sub Lt (Now) Surg Lt S DEB (MR-04916-M) (75319-B) AMC, 17th December 1983.

ARMY BRANCH

No. 1680, date 23rd September, 1988.—The President is pleased to make the following promotion :—

REGULAR ARMY

(PERMANENT COMMISSION)

Brig to be Maj Gen

M K Chatterjee (MR-1407) AMC/PC, 31-10-87.

Air Cmde (Brig) to be AVM (Maj Gen)

O P Suri (4784) (MR-958) AMC/PC, 31-10-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 30-10-87.

Col to be Brig

M L Sapra, VSM (MR-994) AMC/PC, 25-7-87.

A Daityari, VSM (MR-990) AMC/PC, 29-7-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 25-7-87.

M K Seth, VSM (MR-1001) AMC/PC, 1-8-87.

D J Mukherjee, (MR-1002) AMC/PC, 1-8-87, AVSM, VSM.

B R Sharma (MR-1313) AMC/PC, 1-8-87.

H S Uboroi, VSM (MR-1396) AMC/PC, 7-8-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 1-8-87.

S Surray (MR-1298) AMC/PC, 26-8-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 25-7-87.

G Swarup (MR-917) AMC/PC, 11-9-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 25-7-87.

S K Amba (MR-1468) AMC/PC, 17-10-87.

O P Mendiratta (MR-1504) AMC/PC, 19-10-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

R K Suri, VSM (MR-1420) AMC/PC, 21-10-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

V P Sobti (MR-1723) AMC/PC, 25-10-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

H K Agarwal (MR-993) AMC/PC, 1-11-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

S C Das, VSM (MR-2481) AMC/PC, 2-11-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

A Singh (MR-1421) AMC/PC, 3-11-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

S Chakraborty (MR-1317) AMC/PC, 4-11-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

K C Das (MR-2682) AMC/PC, 4-11-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

S K Jain (MR-1711) AMC/PC, 8-11-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

B Sitaram (MR-992) AMC/PC, 29-12-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 17-10-87.

GP Capt (Col) to be (Brig) Atr Cmde

D P Sarkar (5491) (MR-996) AMC/PC, 17-8-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 1-8-87.

N S De (5489) (MR-1000) AMC/PC, 17-8-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 1-8-87.

Lt Col to be Col

M A George (MR-2563) AMC/PC, 11-1-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 5-12-86.

K B Subbarao (MR-2015) AMC/PC, 21-12-87.

Surg Cdr (Lt Col) to be Surg Capt (Col)

S R Das (75077) B (MR-2167) AMC/PC, 5-12-86.

K G Rao (75090) H (MR-1860) AMC/PC, 5-12-86.

R C Khurana (75181)-R (MR-1908) AMC/PC, 18-5-87 (with notional seniority) without effect on pay and Pension from 5-12-86.

Major to be Lt Col

A K BHARGAVA (MR-03228-F) AMC 01st December, 1987.

Major (Sqn Ldr) to be Lt Col (Wg Cdr)

M G Ajmani (MR-04468-L) (13756) AMC 03rd May 1988.

R K Bhutani (MR-03756-L) (13757) AMC 03rd May 1988.

D K Khanna (MR-04934-P) (13760) AMC 04th May 1988.

A Ahuja (MR-03291-W) (75169-N) AMC 01st June 1988.

Capt to be Major

(Miss) K SUR, (MR-05292-X), AMC, 26th October 1985, with seniority from 30th January 1981.

Capt (Flt Lt) to be Major (Sqn Ldr)

S GOPAL (MR-03835-P) (13997) AMC, 01st June 1981.

(Min of Def. Notn. No. 1581, dated 24th July 1986, published on 30th August, 1986 in so far as it relates to the above named officer is hereby cancelled.)

Capt to be Major

S P SHARMA, (MR-05219-Y), AMC, 22nd August 1985 with seniority from 1st January 1983.

Capt (Flt Lt) to be Major (Sqn Ldr)

(Mrs) A SINGH, (MR-05434-K) (14897), AMC, 9th September 1986 with seniority from 1st December 1983.

Capt to be Major

A K KAKKAR, (MR-05291-P), AMC, 26th October 1985, with seniority from 2nd January 1984.

Deshpal, (MR-05089-F), AMC, 21st February 1984.

S M BHATNAGAR, (MR-05293-A), AMC, 26th October 1985, with seniority from 3rd April 1984.

R SINGH, (MR-05166-L), AMC, 31st December 1984, with seniority from 29th April 1984.

L N MAURYA, (MR-05459-W), AMC, 29th September 1986 with seniority from 13th May 1984.

A CHATTERJEE, (MR-05220-N), AMC, 22nd August 1985 with seniority from 15th October 1984.

A K BEHRE, (MR-05439-H), AMC, 29th September 1986 with seniority from 4th April 1985.

Y K ARORA, (MR-05230-X), AMC, 22nd August 1985 with seniority from 4th April 1985.

G GUPTA, (MR-05267-Y), AMC, 04th September 1985 with seniority from 04th April 1985.

R KAPOOR, (MR-05221-W), AMC, 22nd August 1985 with seniority from 01st June 1985.

S K SALUJHA, (MR-05371-M), AMC, 9th January 1986 with seniority from 3rd December 1985.

R S VASANTHA KUMAR, (MR-05437-X), AMC, 29th September 1986 with seniority from 01st June 1986.

K. K. Aneja (MR-05229-H), A.M.C.—25th October, 1986.

N. Dash (NR-04193-H), A.M.C.—28th April, 1988.

K. V. Baliga (MR-04767-K), A.M.C.—07th May, 1988.

D. C. Thakur (MR-05491-L), A.M.C.—30th May, 1988.
 (Miss) S. Johri (MR-04775-H), A.M.C.—25th June, 1988.
 Manvendra (MR-05449-M), A.M.C.—29th June, 1988.
 A. K. Husija (MR-05505-A), A.M.C.—01st July, 1988.
 B. K. Singh (MR-04961-Y), A.M.C.—02nd July, 1988.
 U. S. Yadav (MR-04971-H), A.M.C.—03rd July, 1988.
 S. K. Ghosh (MR-04983-K), A.M.C.—12th July, 1988.
 R. Kalra (MR-04799-N), A.M.C.—02nd August, 1988.
 M. S. Butola (MR-04993-F), A.M.C.—06th August, 1988.
 H. C. Agrawal (MR-05465-K), A.M.C.—08th August, 1988.

U. B. Misra (MR-05357-A), A.M.C.—11th August, 1988.
 V. Ramesha (MR-04817-K), A.M.C.—13th August, 1988.
 G. U. Chandra (MR-05493-W), A.M.C.—13th August, 1988.

S. C. Karan (MR-05455-A), A.M.C.—17th August, 1988.

Lieut (Fg Offr) to be Capt (Flt Lt)

(Mrs) C. Sharma. (MR-05615-P), (16918), AMC, 14th May 1987, with seniority from 7th December 1982.

Lieut (Surg Sub Lt) to be Capt (Surg Lt)

R. Koshi. (MR-05612-F) (75294) AMC, 14th May 1987 with seniority from 6th December 1983.

Lieut to be Capt (on probation)

N. K. Das (MR-05616-X), AMC, 14th May 1987 with seniority from 22nd January 1985.

Lieut (Fg Offr) to be Capt (Flt Lt.) (on probn)

R. Baijal (MR-05330-H) (18191), AMC, 3rd December 1986.

Lieut to be Capt (On probation)

A. CHAKRADAR. (MR-05691-F), AMC, 2nd July, 1987.

S. N. Saikia, (MR-05641-W), AMC, 5th September, 1987.

M. S. Ahmed, (MR-05642-Y), AMC, 5th September, 1987.

Lieut (Fg Offr) to be Capt (Flt Lt) (On probation)

A. Agarwal, MR-05538-L) (18700), AMC, 1st December, 1987.

Lieut to be Capt (On Probation)

N. G. Kamat. (MR-05624-W), AMC, 1st January, 1988.

R. K. Sood, (MR-05692-K), AMC, 14th January, 1988.

R. Setlur. (MR-05626-F), AMC, 01st June 1988.

(Miss) V. Tewari. (MR-05630-K), AMC, 1st June 1988.

A. Malik, (MR-05636-L), AMC, 1st June 1988.

Lieut (Fg Offr) to be Capt (Flt Lt) (On probation)

A. Joshi. (MR-05662-M) (19335), AMC, 1st June 1988.

V. B. Bhatt. (MR-05664-X) (19336), AMC, 1st June 1988.

Lieut to be Capt (On probation)

A. Kumar (MR-05689-K), AMC, 3rd June 1988.

V. K. TEWARI, Maj Gen. Dy. DGAFMS

(ARMY BRANCH)

No. 1681, dated 30th September 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY
 PERMANENT COMMISSION

Lieut to be Capt

A. V. Patil (IC-27814), Arty.—17 Jun 79. (14A) 88

2/Lt to be Lt

Subhash Chand (IC-41188), Engrs.—18 Jun 85.

For Pay and Allowances w.e.f. 25 Jun 85.

DH PARAB, Lt Col, AMS

No. 1682, dated 28th September 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps w.e.f. 9th January 1986 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps w.e.f. the same date under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY
 PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Satva Prakash Rai. M.B.B.S., (MS-10842-Y) now (MR-05353-K), AMC, with seniority for pay and promotion from 15th April 1981 (this includes 1 year antedate for diploma in (T.B & Chest disease) which will count for pension but not for gratuity).

(Min of Def Notn No. 1723/87 published in the Gazette of India dated 12-9-87 insofar as it relates to be above named officer is hereby cancelled.)

Devendra Kumar Jain, M.B.B.S., (MS-10878-X) now (MR-05367-K), AMC, with seniority for pay and promotion from 19th October 1981 (this includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

(Min of Def Notn No. 1723 dated ———— published in this Gazette of India dated 12-9-1987 insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled.)

No. 1683, dated 22nd August 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps w.e.f. 14th May 1987 and to grant him Permanent Commission in the Army Medical Corps w.e.f. the same date under AI 74/76 as amended:—

REGULAR ARMY
 PERMANENT COMMISSION

To be Capt (on probation)

Shyam Sunder GUPTA, M.B.B.S., (MS-11480-P) now (MR-05614-M), AMC with seniority for pay and promotion from 12th September 1984 and with Notional Seniority from 01st August 1984 which will have no effect on pay and allowances.

To be Capt

Vijay SINGH, M.B.B.S., (MS-10868-N) now (MR-5611-Y) AMC with seniority for pay and promotion from 01st November 1981 (this includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

Mahajan SUBHASH CHANDRA, R. M.B.B.S., (MS-11157-X) now (MR-5610-W), AMC, with seniority for pay and promotion from 24th August 1983 and with Notional Seniority from 25th June 1983 which will have no effect on pay and allowances.

Ravola, Bala, Murti, KRISHNA, M.B.B.S., (MS-11308-N) now (MR-05609-E), AMC, with seniority for pay and promotion from 28th January 1984 and with Notional Seniority from 25th June 1983 which will have no effect on pay and allowances.

Karn Nath HEAL, M.B.B.S., (MS-10988-M) now (MR-05606-N), AMC, with seniority for pay and promotion from 31st July 1982 (this includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

Ashwani Kumar KUKREJA, M.B.B.S., (MS-11097-W) now (MR-5605-E), AMC, with seniority for pay and promotion from 30th January 1983, (which includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will count for pension but not for gratuity).

To be Licut (On Probation)

Nalin Kishore DAS, M.B.B.S. (MS-11497-H) now (MR-5616-X), AMC, with seniority for pay and promotion from 12th September 1984 and with Notional Seniority from 31st August 1984 which will have no effect on pay and allowances.

To be Licut (Surv Sub Lt)

Reby KOSHI, M.B.B.S. (MS-11047-L) now (MR-05612-F) (75294) AMC, with seniority for pay and promotion from 27th December 1982.

To be Lieut (Fg Offr)

(Mrs) Chitralekha SHARMA (nee) (miss) Chitralekha KHATJ, M.B.B.S. (MS-10918-N) now (MR-5615-P) (16918) AMC, with seniority for pay and promotion from 20th August 1982.

No. 1684, dated 27th September, 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to relinquish his Short Service Commission in the Army Medical Corps w.e.f. 31st July 1987 and to grant him/her Permanent Commission in the Army Medical Corps w.e.f. the same date under AI 74/76 as amended :—

REGULAR ARMY

To be Capt

Kailash Chandra VERMA, M.B.B.S. (MS-11454-N) now (MR-05685-N), AMC, with seniority for pay and promotion from 1st August 1984.

To be Capt (Flt Lt)

Srinivasa Murthy PENDYALA, M.B.B.S. (MS-10900-X) now (MR-05670-L), AMC, with seniority for pay and promotion from 3rd May 1982.

To be Capt

(Mrs) Shashi Prabha GUPTA, M.B.B.S., (MS-11093-A) now (MR-05675-K), AMC, with seniority for pay and promotion from 29th July 1982 (this includes 1 year antedate for Diploma in Child Health which will count for pension but not for gratuity) and with Notional Seniority from 25th June 1982 which will have no effect on pay and allowances.

To be Capt (On probation)

(Mrs) Manjul KHANNA, M.B.B.S., (MS-10346-X) now (MR-05667-L), AMC, with seniority for pay and promotion from 29th April 1978.

To be Capt

(Mrs) Nagalakshmi BHATTACHARYYA, M.B.B.S., (MS-10718-X) now (MR-05666-H), AMC, with seniority for pay and promotion from 9th April 1974 (this includes 5 years and 88 days antedate for previous full pay commissioned service which will not count for gratuity and 2 years antedate for M D Degree (Obs & Gyn) which will count for pension but not for gratuity) except for the purpose of promotion to Major for which it will reckon from 9th April 1975.

No. 1685, dated 27th September, 1988.—The President is pleased to retire the undermentioned officers from Army Service with effect from the dates noted against them on attaining the normal age of retirement :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

1. Col HD Kahol (IC-8544K) Sikh, 31 Mar 88 (AN).
2. Col RK Anand (IC-10024X) Engrs, 31 Mar 88 (AN).

3. Col RS Suri (V-64L) RVC, 31 Mar 88 (AN).
4. Col Beant Singh (IC-10504F) Assam, 31 Mar 88 (AN).
5. Lt Col Udhe Singh (IC-12525W) Madras, 31 Mar 88 (AN).
6. Lt Col MS Gill (IC-13924M) Jat, 31 Mar 88 (AN).
7. Lt Col Balkar Singh (IC-13965W) Arty, 31 Mar 88 (AN).
8. Lt Col AP Nair (IC-15169M) AOC, 31 Mar 88 (AN).
9. Lt Col SS Bajwa (IC-13014Y) Punjab, 31 Mar 88 (AN).
10. Lt Col RK Sahney (IC-7680N) Punjab, 31 Mar 88 (AN).
11. Lt Col JK Midha (IC-8234Y) Engrs, 31 Mar 88 (AN).
12. Lt Col SG Pitre (IC-8634L) GR, 31 Mar 88 (AN).
13. Lt Col VP Sharad (IC-15164N) AOC, 31 Mar 88 (AN).
14. Lt Col CVS Thakur (IC-18285A) ASC, 31 Mar 88 (AN).
15. Lt Col JP Bhatia (IC-18307N) Rrty, 31 Mar 88 (AN).
16. Lt Col VK Jaiswal (IC-20974A) Arty, 31 Mar 88 (AN).
17. Lt Col MS Chahal (IC-20902W) Arty, 31 Mar 88 (AN).
18. Lt Col BKS Parmar (IC-22372L) Arty, 31 Mar 88 (AN).
19. Lt Col TS Jaswal (IC-22471N) Arty, 31 Mar 88 (AN).
20. Lt Col Chhelu Ram (IC-15284M) ASC, 31 Mar 88 (AN).
21. Lt CS Verma (IC-15286X) ASC, 31 Mar 88 (AN).
22. Maj Rattan Singh (IC-20101P) ASC, 31 Mar 88 (AN).
23. Maj IC Rattan (IC-21380X) ASC, 31 Mar 88 (AN).
24. Lt Col MM Chaubey (IC-21776F) AOC, 31 Mar 88 (AN).
25. Maj Jaswant Singh (IC-22086H) ASC, 31 Mar 88 (AN).
26. Lt Col (TS) Keshar Singh (IC-7766M) Mahar, 31 Mar 88 (AN).
27. Lt Col (TS) DR Aggarwal (IC-8574F) AOC, 31 Mar 88 (AN).
28. Lt Col (TS) KS Sinha (IC-10022M) Arty, 31 Mar 88 (AN).
29. Lt Col (TS) OP Singh (IC-10581W) Dogra, 31 Mar 88 (AN).
30. Lt Col (TS) SK Balhan (IC-11676H) Sigs, 31 Mar 88 (AN).
31. Lt Col (TS) JS Gill (IC-13271W) Jak LI, 31 Mar 88 (AN).
32. Lt Col (TS) PS Thapa (IC-13953F) Grah Rif, 31 Mar 88 (AN).
33. Lt Col (TS) Joginder Singh (IC-15185K) AOC, 31 Mar 88 (AN).
34. Lt Col (TS) DS Bisht (IC-15208A) ASC, 31 Mar 88 (AN).
35. Lt Col (TS) KS Parmar (IC-15313W) ASC, 31 Mar 88 (AN).
36. Lt Col (TS) Pijushkanthidev (IC-15337A) ASC, 31 Mar 88 (AN).
37. Lt Col (TS) Prahlad Toro (IC-15613X) Arty, 31 Mar 88 (AN).

38. Lt Col (TS) B D Gambhir (IC-18203M) Engrs 31 Mar 88 (AN).
39. Lt Col (TS) D K Dhillon (IC-18820P) Arty, 31 Mar 88 (AN).
40. Lt Col (TS) Pratap Singh (IC-18978X) Raj Rif, 31 Mar 88 (AN).
41. Lt Col (TS) K. S. Randhawa, VSM (IC-20787F), ACC, 31 Mar 88 (AN).
42. Lt Col (TS) P G Goswami (IC-20082P) Arty, 31 Mar 88 (AN).
43. Lt Col (TS) Ramesh Chand (IC-21032W) EME, 31 Mar 88 (AN).
44. Lt Col (TS) Gurcharan Singh (IC-22147W) ASC, 31 Mar 88 (AN).
45. Lt Col (TS) G S Mann (IC-20249N) Dogra, 31 Mar 88 (AN).
46. Maj Sangay Tamang (IC-14934H) AOC, 31 Mar 88 (AN).
47. Maj Bhimashankar Savalage (IC-15589M) Arty, 31 Mar 88 (AN).
48. Maj V S Dhaundiyal (IC-20178X) AOC, 31 Mar 88 (AN).
49. Maj O D Joshi (IC-21809F) Arty, 31 Mar 88 (AN).
50. Lt Col (TS) Bhupendra Shahi (IC-22345F) ASC, 31 Mar 88 (AN).
51. Maj N K Sharma, VC (IC-22596L) Jak LI, 31 Mar 88 (AN).
52. Lt Col T T Sivasankaran Nair (SL-876Y) R O, 31 Mar 88 (AN).
53. Lt Col Ved Prakash (SL-1524N) EME, 31 Mar 88 (AN).
54. Lt Col (TS) A S Raghawa (SL-1411L) R O, 31 Mar 88 (AN).
55. Maj D M Katmakar (SL-1323P) Q M, 31 Mar 88 (AN).
56. Maj Amolak Singh (SL-1971X) EME, 31 Mar 88 (AN).
57. Maj Shiv Singh Rana (SL-1885M) Q M, 31 Mar 88 (AN).
58. Capt T K B Pillai (SL-1345N) Q M, 31 Mar 88 (AN).
59. Col S R Sen (IC-10172H) EME, 31 Mar 88 (AN).
60. Lt Col (TS) M L Chatrath (IC-22241A) Sikh, 31 Mar 88 (AN).
61. Lt Col (TS) J M Sangar (IC-22629L) Sigs, 31 Mar 88 (AN).
62. Lt Col (TS) A K Mukhopadhyaya (IC-22185M) Sigs., 31 Mar 88 (AN).
63. Col K S Puri (IC-8267K) ASC, 30 Apr 88 (AN).
64. Col D S Gujral (IC-11235M) AOC, 30 Apr 88 (AN).
65. Lt Col K C Thakur (IC-8483X) Arty, 30 Apr 88 (AN).
66. Lt Col B R Shah (IC-11202F) 1 GR, 30 Apr 88 (AN).
67. Lt Col K S Nagra (IC-12658M) ASC, 30 Apr 88 (AN).
68. Lt Col Ram Kumar (IC-12828L) Grenadiers, 30 Apr 88 (AN).
69. Lt Col Dalip Singh (IC-15177L) AOC, 30 Apr 88 (AN).
70. Lt Col Harishankar Joshi (IC-15192A) AOC, 30 Apr 88 (AN).
71. Lt Col Dharam Pal (IC-15285P) ASC, 30 Apr 88 (AN).
72. Lt Col Niranjan Singh (IC-15551H) Arty, 30 Apr 88 (AN).
73. Lt Col Vedprakash Chatrath (IC-20420L) Arty, 30 Apr 88 (AN).
74. Lt Col S P Singh (IC-10516W) Madras, 30 Apr 88 (AN).
75. Lt Col S S Gusain (IC-10559F) ASC, 30 Apr 88 (AN).
76. Lt Col I S Sethi (IC-11162L) Kumaon, 30 Apr 88 (AN).
77. Lt Col K S Dhaliwal (IC-11821P) ASC, 30 Apr 88 (AN).
78. Lt Col K S Bhandari (IC-13595F) 1GR, 30 Apr 88 (AN).
79. Lt Col Brahmanand (IC-13662F) ASC, 30 Apr 88 (AN).
80. Lt Col S C Puri (IC-15162H) AOC, 30 Apr 88 (AN).
81. Lt Col Bakshi Ram (IC-15241X) ASC, 30 Apr 88 (AN).
82. Lt Col Mula Ram (IC-18283P) ASC, 30 Apr 88 (AN).
83. Lt Col C S K V Naidu (IC-18775N) ASC, 30 Apr 88 (AN).
84. Lt Col S D Sharma (IC-19791X) Engrs, 30 Apr 88 (AN).
85. Lt Col Arjun Singh (IC-20180P) Engrs, 30 Apr 88 (AN).
86. Lt Col P S Negi (IC-21286N) Sigs, 30 Apr 88 (AN).
87. Lt Col K K Rao (IC-13721H) EME, 30 Apr 88 (AN).
88. Lt Col Chombath Vijayan (IC-15147N) AOC, 30 Apr 88 (AN).
89. Lt Col S P S Singha (IC-18709L) ASC, 30 Apr 88 (AN).
90. Maj Kehari Singh (IC-22152F) ASC, 30 Apr 88 (AN).
91. Maj Parkash Singh (IC-22295E) ASC, 30 Apr 88 (AN).
92. Lt Col (TS) A P Gupta (IC-8219K) Arty, 30 Apr 88 (AN).
93. Lt Col (TS) S K Kaushal (IC-10147N) ASC, 30 Apr 88 (AN).
94. Lt Col (TS) S R S Manhas (IC-10178K) Grenadiers, 30 Apr 88 (AN).
95. Lt Col (TS) S C Vig (IC-10434N) Guards, 30 Apr 88 (AN).
96. Lt Col (TS) A S Rattan (IC-10500L) Jak Rif, 30 Apr 88 (AN).
97. Lt Col (TS) G S Bhalla (IC-11146N) ASC, 30 Apr 88 (AN).
98. Lt Col (TS) J Sundaramayya (IC-12796N) EME, 30 Apr 88 (AN).
99. Lt Col (TS) Daljit Singh (IC-13936F) Jat, 30 Apr 88 (AN).
100. Lt Col (TS) Vilayil Geevergese Phillip (IC-15222M) ASC, 30 Apr 88 (AN).
101. Lt Col (TS) R R Bakshi (IC-15318P) ASC, 30 Apr 88 (AN).
102. Lt Col (TS) P S Devendra (IC-18007M) Rajput, 30 Apr 88 (AN).
103. Lt Col (TS) A R Lodha (IC-18069M) Dogra, 30 Apr 88 (AN).
104. Lt Col (TS) Ramchandra Hatwal (IC-18524K) ASC, 30 Apr 88 (AN).

105. Lt Col (TS) S D Kamat (IC-18544X) FME, 30 Apr 88 (AN).

106. Lt Col (TS) B S Bajwa (IC-20066X) Arty, 30 Apr 88 (AN).

107. Lt Col (TS) K S Manhas (IC-20221N) Jak Rif, 30 Apr 88 (AN).

108. Lt Col (TS) Amrik Singh (IC-21913P) Arty, 30 Apr 88 (AN).

109. Lt Col (TS) V Jagadesan (IC-21983N) Arty, 30 Apr 88 (AN).

110. Maj Gurbindar Singh (IC-15144A) AOC, 30 Apr 88 (AN).

111. Maj K J A Kutty (IC-20086L) EME, 30 Apr 88 (AN).

112. Maj V S Mann (IC-22287H) GR, 30 Apr 88 (AN).

113. Maj N S Sedhi (IC-22858W) Engrs, 30 Apr 88 (AN).

114. Maj P Ramachandran (SL-1538N) QM, 30 Apr 88 (AN).

115. Maj Sucha Singh (SL-1599L) QM, 30 Apr 88 (AN).

116. Lt Col (TS) Dalel Singh (SL-1926L) QM, 30 Apr 88 (AN).

117. Maj K P Sreedharan (SL-1958H) EME, 30 Apr 88 (AN).

118. Capt Surjan Singh (SL-1951K) Engrs, 30 Apr 88 (AN).

119. Col G J Luthra (IC-6918W) MF, 30 Apr 88 (AN).

120. Lt Col O P Khanna (IC-11042M) Arty, 30 Apr 88 (AN).

121. Lt Col Hemji Agarwal (IC-10612L) EME, 30 Apr 88 (AN).

122. Lt Col (TS) V K Thamman (IC-14354M) Engrs, 30 Apr 88 (AN).

S C KUTHIALA, Col, Col MS-7

No. 1686, dated 10th August 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from service prematurely at his own request and transfer to AMC Reserve (Class 'X') :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Sqn Ldr S K Seth (MR-03222-A) (13358) AMC, 06th July 1984 (FN).

No. 1687, dated 29th September 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire from Army Service at his own request for compassionate reasons and transfer him to Regular Reserve of Officers (Class 'X') :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

Surg VADM C S Gill (MR-542) (75296-A) AMC/PC—31-10-87 (AN).

No. 1688, dated 30th September 1988.—The undermentioned officer forfeits service as is shown against their names by sentence of the Summary Trial :—

REGULAR ARMY

PERMANENT COMMISSION

IC-42416. Lt Niraj Seth, Inf—To forfeit six months service for the purpose of promotion—26th June 1987.

SL-2382 V B N Chari—Forfeiture of 3 months service for the purpose of promotion—24th Feb 1988.

IC-37143 Capt G Nagraj, Inf—To forfeit six months service for the purpose of promotion—26th June 1987.

D H PARAB, Lt Col, AMS-8

REGULAR ARMY

TEMPORARY COMMISSION

No. 1689 dated 3rd October 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officers of the Army Postal Service Corps to relinquish their commission with effect from the dates noted against each and to retain the rank after relinquishment of commission as shown against the names of the officers :—

Particulars of the officer	Permitted relinquishment of commission on	Retain the rank of
TC-31186 W Lt. Col. Jaspal Singh Bakshi	30 Jun 88 (A/N)	Lt. Col.
TC-31379 W Lt Col. Atulesh Prasad Srivastava	30 Jun 88 (F/N)	Major
TC-31322 F Capt. Prahlad Balwantrao Inamdar	1 Jul 88 (I/N)	Capt.
TC-31300N Col. Ram Krishan Bansal, SC	31 May 88 (A/N)	Col.
TC-31334 W Lt. Col. Deepak Kumar Budki	27 Feb 88 (A/N)	Lt. Col.
TC-31362H Lt. Col. Prithvi Raj Kumar	31 May 88 (A/N)	Lt. Col.
TC-31363 L Lt. Col. Yashpal Singh Mohan	30 Jun 88 (A/N)	Major
TC-31378 — Major George Ninan	8 May 88 (A/N)	Major
TC-31256K Major Maduraimuthu Subramanian	30 Apr. 88 (A/N)	Major

ANIL KUMAR, Under Secy.

No. 1690, dated 28th September 1988.—The President is pleased to make the following appointment for a 5 years under Army Instructions 75.78 as amended vide Army Instruction 14/79 :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

To be Capt

Devendra Kumar JAIN, M.B.B.S. (MS-10878-X), AMC, 19th April 1982, with seniority for pay and promotion from 19th October 1981 (this includes 6 months antedate for Hospital Appointment which will not count for gratuity).

(Min of Def Notn No. 2054 dated 10-8-1982 published in the Gazette of India dated 9-10-1982 insofar as it relates to the above named officer is hereby cancelled).

No. 1691, dated 5th October 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

(REGULAR ARMY)

SHORT SERVICE COMMISSION (ON PROBATION)

To be 2 Lts

The undermentioned are granted Short Service Commission (on Probation) for a period of 5 years wef 24th August, 1985 under the provisions of Special AI 11/S/64. Their Short Service Commission (on probation) is confirmed from the same date consequent on the completion of the probationary period :—

Vijay NAIR (SS-32219H) Inf, Ajesh Kumar BHARDWAJ (SS-32220X) Mech Inf and Saikaran S (SS-32221A) Arty with seniority above 2 Lt Anand MITTAL (SS-32222H) Mech Inf, Sunil Prataprao BIOSLE (SS-32233P) Inf, Vinod Kumar R (SS-32234X) Engrs and Murlu Manohar BHARTI (SS-32235A) Inf with seniority next below 2 Lt Neeraj PATHANIA (SS-32232M) Arty, Vishvanath Vidyadhar GOBBOLE (SS-32240L) Inf and Nagendra Rao CHILKURI (SS-32241N) Inf with seniority above 2 Lt Ghanshyam PANDEY (SS-32242W) Arty, Deepinder Jit Singh CHAHAL (SS-32252A) AC and Nishchaya RAUI (SS-32253H) AC with seniority next below 2 Lt Ravinder Singh DHILLON (SS-32251X) AC, Sanjay SETHI (SS-32256W) Arty with seniority above 2 Lt Dinesh BABOO (SS-32257Y) Inf, Karamjeet Singh (SS-32261F) Sigs and Sunil Kumar YADAV (SS-32262K) Inf with seniority next below 2 Lt Ranjit Singh (SS-32260Y) Inf, Rajeev PANWAR (SS-32264P) Inf with seniority next 2 Lt Monish DATTA (SS-32263M) Inf, Nirmal Singh (SS-32270H) Engrs, Poomapragna GA (SS-32272N) Sigs and Hemant Kumar PURI (SS-32273W) Arty with seniority above 2 Lt Jayan Jacob (VARGHESE (SS-32274Y) AC, Kamal Jit Singh GURNA (SS-32276K) Inf with seniority next below 2 Lt P Narayan MENON (SS-32275F) AC, Baskar Jyoti DAS (SS-32279X) Inf with seniority above 2 Lt Virendra Kumar GHOTIA (SS-32281P) Inf, Har Kishan BASOYA (SS-32282X) Inf with seniority next below 2 Lt Virendra Kumar GHOTIA (SS-32281P) Inf, Dhananjay MISHRA (SS-32287W) Inf with seniority above 2 Lt Shakil AHMED (SS-32288Y) Inf, Trilochan Singh PARMAR (SS-32289F) EME and Ramesh Kumar M (SS-32290W) Engrs with seniority next below 2 Lt Shakil AHMED (SS-32288Y) Inf, Neeraj JHA (SS-32294M) Inf with seniority next below 2 Lt Akhil SHAKMA (SS-32293X) Inf, LYALI Dinesh Joseph (SS-32297A) Inf with seniority next below 2 Lt Manmohan Singh (SS-32296X) Inf, Gurneet CHAUDHARY (SS-32305N) AC, Sudhir Kumar BUDAKOTI (SS-32370Y) Inf and Muthanna MC (SS-32308F) Inf with seniority above 2 Lt JAMES Anil E (SS-32309K) Inf, MPTETI Nandan (SS-32317H) AC with seniority above 2 Lt Prabhjeet Singh GREWAL (SS-32318L) Arty, Sanjeev MALHOTRA (SS-32327M) Inf with seniority above 2 Lt Sunil Kumar SINGH (SS-32328P) Arty, Kamal Singh PATHANIA (SS-32329X) AC with seniority next below 2 Lt Sunil Kumar SINGH (SS-32328P) Arty, Venugopala DASS V (SS-32332A) Engrs with seniority above 2 Lt Satendra RAWAT (SS-32333A) AC, JADHAV Arun Shaikar (SS-32334H) Inf with seniority next below 2 Lt Satendra RAWAT (SS-32333A) AC, Ashok Kumar (SS-32338H) Inf and GU KUMAR (SS-32349L) Engrs with seniority above 2 Lt Joshi Vivek J (SS-32350A) Arty, Ravi S (SS-32356P) AC and Jasvinder Pal Singh (SS-32357K) AC with seniority above 2 Lt Joginder Singh (SS-32358M) Inf, Jayadev PATINAIK (SS-32362P) AC with seniority next below 2 Lt Mirza Mansar BAIG (SS-32361M) Arty and Ajay Kumar WADHAWAN (SS-32368W) EME with seniority below 2 Lt Arup SANYAL (SS-32364A) Sig, whose names appeared in the Gazette of India No. 610 dated 28 Mar 87.

1. The undermentioned are granted Short Service Commission (On Probation) for a period of 5 years wef 27th August, 1983 under the provisions of Special Army Instruction 11 of 64 as amended. Their Short Service Com-

mission (On Probation) is confirmed from the same date consequent on the completion of the probationary period :—

Anurag Srivastva (SS-31438X) Mech Inf and Veerendra Mohan (SS-31439A) Inf with seniority next below 2 Lt Akhil Kumar Mishra (SS-31437A) Inf, Rajeev Kumar (SS-31444L) Inf with seniority above 2 Lt Leelesh Sood (SS-31445N) Inf, Subhash Chandra (SS-31446W) Inf below 2 Lt Leelesh Sood (SS-31445N) Inf, Anil Khanna (SS-31458L) Engrs and Gadre Pravin Vasant (SS-31459N) Arty, with seniority next below 2 Lt Atul Kausik (SS-31457H) Inf, Deepak Bhandari (SS-31479F) Inf with seniority next below 2 Lt Rohini Kumar Pathak (SS-31478Y) Arty, Rakesh Chaudhary (SS-31481Y) Inf and Pranav Kumar (SS-31482F) Inf, with seniority next below 2 Lt Sanjay Bawa (SS-31480W) ASC, Raghavan VS (SS-31493N) Armoured Corps with seniority next below 2 Lt Rajeev Kumar (SS-31492L) Inf, Surat Singh Gill (SS-31496F) Arty, with seniority next below 2 Lt Mathew Commen Sajeet (SS-31495Y) Arty, Ravindra Kumar Bhandari (SS-31501F) Inf, with seniority next below 2 Lt Singru Ramakant Manohar (SS-31500Y) Arty, Sundeep Kohli (SS-31512N) AOC with seniority next below 2 Lt Rajendra Singh Rawat (SS-31511L) Armoured Corps, Charanjit Singh (SS-31519X) Arty and Ramesh Chander Sharma (SS-31521P) Inf, with seniority next below 2 Lt Balasaheb Hon (SS-31518P) Arty, Sanjeev Kumar (SS-31529F) Inf and Rajiv Parashar (SS-31530W) EME with seniority below 2 Lt Balbir Kumar Thakur (SS-31528Y) Inf, Harinder Pal Singh (SS-31535P) Arty, with seniority below 2 Lt Surinder Pal Singh (SS-31533K) Arty, Yudhvir Singh Pathania (SS-31552P) Arty, Rajeev Panwar (SS-31554A) Mech Inf, Utpal Kumar Bhuyan (SS-31555H) Inf, Parkash Dharan (SS-31556L) Inf, Ishwinder Singh Sehdeva (SS-31557N) Inf, Harbhajan Singh Phagura (SS-31558W) Mech Inf, Amrit Pal Singh Gill (SS-31560N) ASC with seniority next below 2 Lt Parvinder Singh (SS-31551M) Engrs, Avanindra Nath Soni (SS-31566P) Armoured Corps with seniority next below 2 Lt Deepak Anand (SS-31565M) Armoured Corps, Harminder Singh Madan (SS-31568A) Inf, Uma Kant Gupta (SS-31569H) Engrs, with seniority above 2 Lt Ashok Kutty (SS-31570X) Inf, Ramachandran Nair (SS-31576Y) Inf with seniority next below 2 Lt Ravichandran R (SS-31575W) Engrs, Provir Kumar Bharti (SS-31578K) Arty, with seniority next below 2 Lt Ravi Srinivas S (SS-31577F) Arty, Tanwinder Singh (SS-31585A) Armoured Corps with seniority below 2 Lt Parag Kumar Srivastava (SS-32583P) Arty, Dharendra Singh Gusain (SS-31588N) Inf with seniority above 2 Lt Palakamshetty Ganesh Kumar Naidu (SS-31589W) Inf, Mayank Kumar Singh (SS-31592W) Engrs with seniority next below 2 Lt Kulwant Singh Nagal (SS-31591N) Engrs, Shivashankarayya Suragimath (SS-31599A) Arty with seniority next below 2 Lt Prasoon Kumar Srivastava (SS-31598X) Arty, Anand Kumar Sachdeva (SS-31610N) Inf with seniority next below 2 Lt Mukesh Verma (SS-31609Y) Inf, Virendra Singh Raghuvanshi (SS-31612Y) Inf with seniority next below 2 Lt Shri Krishna Vasant Joshi (SS-31611W) Arty, Rajiv Sablok (SS-31617X) Armoured Corps and Uma Kant Singh (SS-31618A) Inf with seniority next below 2 Lt Kapil Mohan Sachdeva (SS-31616P) Arty, Amarjit Singh (SS-31621A) Arty with seniority next below 2 Lt Harinder Pal Singh (SS-31620X) Engrs, Sunil Manchanda (SS-31630F) Sigs with seniority next below 2 Lt Manoj Gaur (SS-31629M) EME, Mukesh Kumar Yadav (SS-31632M) Arty with seniority next below 2 Lt Navin Verma (SS-31631K) AOC, Virinder Manhas (SS-31634X) Inf with seniority next below 2 Lt Satpal Singh Uppal (SS-31633P) Arty, Sudhir Thapa (SS-31636H) Sigs with seniority above 2 Lt Ajay Sharma (SS-31637L) Armoured Corps, Jagdish Singh Randhawa (SS-31640L) EME with seniority next below 2 Lt Ajay Rampal (SS-31639W) Arty, Arun Singh Rathore (SS-31642W) Arty with seniority next below 2 Lt MV Dinakar (SS-31641N) ASC, whose names appeared in the Gazette of India dated 24-11-84, Gazette of India No. 1129 dated 21-6-86 and Gazette of India No. 1295 dated 4-7-87.

The undermentioned are granted Short Service Commission (On Probation) for a period of 5 years wef 12th March, 1983 under the provisions of Special Army Instruc-

part II of 64 as amended. Their Short Service Commission (On Probation) is confirmed from the same date consequent on the completion of the probationary period :—

Virender Singh Yadav (SS-31318Y) Engrs with seniority next below 2 Lt Gurrala Reuben Mokshanandam (SS-31317W) Inf, Jadeja Vauraj Singh M (SS-31320W) Inf with seniority next below 2 Lt Kamalendra Singh Neki (SS-31319F) Inf, Raviindran V (SS-31333N) Armoured Corps and Santanu Ghose (SS-31334W) Inf, with seniority next below 2 Lt Bhurat Kumar Sibal (SS-31332L) Armoured Corps, Joginder Singh (SS-31340K) Armoured Corps with seniority next below 2 Lt Narender Kumar (SS-31339P) Inf, Parwez Hussain (SS-31344A) Mech with seniority next below 2 Lt Arvind Kumar Kamboj (SS-31343X) Arty, Suresh Kumar KC (SS-31349Y) AGC with seniority next below 2 Lt Kuljinder Singh (SS-31348W) Inf, Shiv Shanker Prasad Singh (SS-31356P) Arty with seniority next below 2 Lt Gita Singh (SS-31355M) Arty, Dalbir Singh (SS-31371K) Inf with seniority next below 2 Lt Bharat Chandra Dash (SS-31370F) Arty, Prabir Kumar Mahanty (SS-31377L) Sigs with seniority next below 2 Lt Mahajan Dilip Kumar Jagannath (SS-31376H) ASC, Nikhil Kumar Singh (SS-31379W) Engrs with seniority next below 2 Lt Stephen Philip (SS-31378N) Inf, Om Prakash Narain (SS-31392A) Inf with seniority next below 2 Lt Vinay Kumar Singh (SS-31391X) Armoured Corps, Kaushik Kumar Sutradhar (SS-31394L) Inf and John Michael (SS-31395N) Artillery with seniority next below 2 Lt Satender Singh Pundir (SS-31393H) Mech, Inf, Rajeev Benjamin Lyall (SS-31398F) Armoured Corps with seniority next below 2 Lt Raj Kumar Sharma (SS-31397Y) ASC, Rajnish Kumar (SS-31405M) Engrs with seniority next below 2 Lt Vinod Balaram Nair (SS-31404K) Sigs, Bijoy Kumar Nandi (SS-31418K) Arty, Atul Chattervedi (SS-31419M) Arty and Vinod Vasant Ratnaparkhi (SS-31420F) Arty with seniority next below 2 Lt Shiv Kumar Sahaywitt (SS-31417F) Inf whose names appeared in the Gazette of India dated 28 Jan 84, 31 May 86 and 12 Dec 87.

S C JOSHI, Lt Col, Sahayak Sena Sachiv-8B/AMS 8B

No. 1692, dated 30th September 88.—The President is pleased to make the following promotions :—

REGULAR ARMY

SHORT SERVICE COMMISSION

2/LT TO BB LT

Sudhir Tyagi (SS-31433), AC—26 Aug 84.

(But for purposes of pay, it will reckon with effect from 17 Aug 85).

D H PARAB, Lt Col, AMS

No. 1693, dated 4th October 88.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

(Territorial Commission)

Lt to be Capt.

Rajdip Singh Sandhu (TA-41539), Engrs, 03 Jul 87.

No. 1694, dated 3rd October 88.—The President is pleased to make the following promotions :—

TERRITORIAL ARMY

TERRITORIAL COMMISSION

Major PK BahaJ, TA-41394, Infantry, 13th Apr, 1988.

H. D. SINHA, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 1695, dated 30th September 1988.—The President is pleased to make the following appointments :—

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Substantive Subedar Major Amn Tech

Paid Acting Sub Maj Amn Tech, Ranjit Singh Verma (JC-65634X), 01 May 88.

Paid Acting Sub Maj Amn Tech, Ram Prasad (JC-65652-M), 01 May 88.

To be Substantive Subedar Major Clerk GD

Paid Acting Sub Maj Clk GD, R (Gopalkrishnan Nair (JC-78244A), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Major Clerk Store

Paid Acting Sub Maj Clk S Cont, Manbir Singh (JC-80555X), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Amn Tech

Paid Acting Sub Amn Tech, Bani Singh (JC-91437Y), 01 Feb 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, G Anurudhan Pillai (JC-92087K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Darshan Singh Jassal (JC-90648F), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Jit Singh (JC-96876N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Chaluvalid Verghese Thomas (JC-91250M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Hanke Lal Verma (JC-96873-A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Sukhendu, Bikash Biswas (JC-96871P), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Gurnail Singh Man (JC-91251P), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Devi Ram Verma (JC-91438-I), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Man Phul Singh (JC-91252-X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Tara Chand Dalal (JC-96874H), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Chandrama Ram (JC-91249-X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Sappany Thiaga Raj (JC-96872X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Sohan Singh (JC-101382W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Uggur Singh (JC-91440Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Gopalakrishnan Vaidyanathan (JC-92224X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Ram Singhasan Singh Yadav (JC-92086F), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Gulab Singh (JC-91246K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Amn Tech, Vijay Bahadur Singh (JC-91248P), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Clerk AOC

Paid Acting Sub Clk S Cont, Satya Prakash Kaushik (JC-114510F), 01 Feb 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Badri Prasad Pandey (JC-110881M), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, KK Chellappa Panicker (JC-110884A), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Mohan Chandra Joshi (JC-114519W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Hirday Narain Singh (JC-114508M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Inderjit Pandey (JC-114561P), 01 Feb 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Mahadeo Pavale (JC-114535N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Ram Saran Dass Tagra (JC-111250W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Ningappa Patil (JC-114533H), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Sheo Murati Singh (JC-114982X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Shankar Lal (JC-114534L), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Awadh Raj Tiwari (JC-114639P), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Krishna Raveendran Nair (JC-97706W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Virendra Pal Saxena (JC-111253K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Indraj Singh (JC-114537Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, MN Janardhanan Nair (JC-114523Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Pati Ram (JC-111254M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Surya Nath Singh (JC-114538X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Jai Narayan Singh (JC-111251Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Ram Singh Sehrawat (JC-114557M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Bhahm Datt (JC-114522W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Radhakrishnan TR (JC-114530P), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Kapur Singh (JC-114532A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Gopi Ram (JC-111252F), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Pritvi Raj Vaid (JC-111249F), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, PK Krishnan Pillai (JC-114559X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Shyama Charan Benerjee (JC-114528X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Madan Mohan Majumdar (JC-114526M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Nitya Nand Panda (JC-114555V), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Banwari Lal Sharma (JC-114521N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Prov, Ram Bahadur (JC-114536X), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Jas Ram Navin (JC-114986N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Harish Chandra Mathpal (JC-111243A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Skindar Singh Dhaliwal (JC-114991Y), 01 May 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Thangavelu Natarajan (JC-114640K), 01 May 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Mohd/Schrab Mian Chisty (JC-114988Y), 01 May 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Bashisht Muni Tewari (JC-114987W), 01 May 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Rattan Singh (JC-130907X), 01 May 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Jitendra Narain Shukla (JC-114992F), 01 May 88.

Paid Acting Sub Clk S Cont, Shyama Pada Bhacharya (JC-114990W), 01 May 88.

Paid Acting Sub Clk GD, Radhe Shyam Dubey (JC-114989Y), 01 May 88.

To be Substantive Subedar SK Tech

Paid Acting Sub Skt Sig, Tarasaim Singh Mehruke (JC-104524N), 01 Jan 88.

Paid Acting Sub Skt Wep, Maloar Singh Negi (JC-108001M), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Suresh Pareya (JC-108013F), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Dharam Singh Rawat (JC-109650K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Jag Saran Sharma (JC-107973N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Shiv Ram Singh (JC-107977K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt Amn, Hardas Singh (JC-107970A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt Amn, Kohal Prasad Gautam (JC-109649P), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Vadakke Veedurama Kurup Bhaskara Kurup (JC-109645Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Waman (JC-108011W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Malkiat Singh Bhugger (JC-108012Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt Amn, Prabhakaran Vellendi (JC-107972L), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Kamal Kishore Singh (JC-109841Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Mohan Chandra Boruah (JC-108016P), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Anant Raj Ram Pathra (JC-110601N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Hari Prasad (JC-110422N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Ghananand Joshi (JC-109652P), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Shri Chand Kumar (JC-111257A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Devasia Kuriakose Karavattathil (JC-109654A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Sita Ram Verma (JC-109646E), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Anandan PK (JC-108015H), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Kanwal Singh (JC-107974W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Ranaq Lal (JC-109651M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Ranjit Singh Negi (JC-107975Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Anand Prakash Sharma (JC-108014K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Nirnahaksha Roy (JC-114540Y), 01 May 88.

Paid Acting Sub Skt MT, Hakim Singh (JC-110427H), 01 May 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Prafulla Chandra Burman (JC-109842F), 01 May 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Dharambir Singh (JC-110423-W), 01 May 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Kala Guda Patil (JC-110605K), 01 May 88.

Paid Acting Sub Skt GS&C, Udai Raj Maurva (JC-110602W), 01 May 88.

To be Substantive Subedar Drivers

Paid Acting Sub OMHE, Amal Kant Banerjee (JC-130938Y), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub Dvr MT, Rameshwar (JC-132632N), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub Dvr MT, Duli Chand (JC-131178M), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub Dvr SV, Veera Sanjeeva Ravudu (JC-134127K), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Dvr MT, Shiv Ram (JC-139138A), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Dvr MT, Narotam Dass (JC-132633W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Dvr MT, Ram Prakash (JC-136543M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Dvr SV Moti Ram (JC-134128M), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub Dvr MT Moti Lal (JC-139140X), 01 May 88.

To be Substantive Subedar SH GD

Paid Acting Sub SH GD, Serai Ahmed Khan (JC-109677F), 01 Feb 88.

Paid Acting Sub SH GD, Kishan Chand (JC-109863X), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub SH GD, Kalyan Jatti (JC-109864X), 01 Mar 88.

Paid Acting Sub SH GD, Balbir Singh Negi (JC-109868-W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub SH GD, Hoshiar Singh Yadav (JC-110468W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub SH GD, Badri Prasad (JC-109870W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub SH GD, (Raj Kishore Raut (JC-109869-Y), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub SH GD, Banwari Lal (JC-97767N), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub SH GD, Anant (Pawar) (JC-109871W), 01 Apr 88.

Paid Acting Sub SH GD, Nand Kishore (JC-110616W), 01 May 88.

Paid Acting Sub SH GD, Karan Singh (JC-110887N), 01 May 88.

Paid Acting Sub SH GD, Ram Bahadur Singh (JC-109872Y), 01 May 88.

To be Substantive Subedar ER (U)

Paid Acting Sub SH GD, Tufani Ram (JC-131919X), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar Ptr (U)

Paid Acting Sub Ptr (U), Beri Narasimha Murthy (JC-144155K), 01 Apr 88.

To be Substantive Subedar OLP

Paid Acting Sub OLP, Shiv Shankar (JC-146717P), 01 Apr 88.

Paid Acting OLP, Shankar Ram (JC-142761F), 01 Apr 88.

A. S. Rao, Under Secy.

(ARMY BRANCH)

No. 1696, dated 30th September 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

REGULAR ARMY

Army Ordnance Corps

To be Naib Subedar Clerk AOC

Hav Ck S Cont, Manohar Lal (No. 6892448K now JC-175620M), 28 Mar 1988.*

*Gtd Seniority wef 01 Feb 88 without effect on pay and allowances.

Hav Ck S Cont, Shri Kant Bhardwaj (No. 6893114F now JC-175621P), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Kali Shankar Pal (No. 6893154H now JC-175622X), 01 Mar 88.

Hav Ck GD Joginder Singh (No. 6893400H now JC-175623A), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Ram Pratap Singh (No. 6893495N now JC-175624H), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Barnam Singh Yadavandu (No. 6893680 P now JC-175625L), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar SK Tech

Hav Skt Amn, Gian Singh Pathania (No. 6892034X now JC-175626N), 19 Feb 88.**

**Gtd seniority wef 01 Feb 88 without effect on pay and allowances.

Hav Skt Wep, Indrajit Mishra (No. 6893388M now JC-175627W), 01 Mar 88.

Hav Skt Wep, Sohan Lal Yadav (No. 6893399Y now JC-175628Y), 01 Mar 88.

Hav Skt GS&C, G Purushan Pillai (No. 6893565F now JC-175629F), 10 Apr 88.***

***Gtd seniority wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances.

Hav Skt GS&C, Ram Briksh (No. 6893577W now JC-175630W), 01 Mar 88.

Hav Skt GS&C, Kesar Singh (No. 6893584M now JC-175631Y), 01 Mar 88.

Hav Skt Sig, Aimat Singh (No. 6893957P now JC-175632-F), 01 Mar 88.

Hav Skt Sig, Arbinda Sinha (No. 6894133Y now JC-175633K), 22 Mar 88****.

****Gtd seniority wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances.

Hav Skt MT, Amar Datt Sharma (No. 6894687X now JC-175634M), 01 Mar 88.

Hav Skt MT, Sujan Chand (No. 6895349M now JC-175635P), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar Driver

Hav Dvr MT, Amad Singh (No. 6892836F now JC-175636X), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar SH GD

Hav SH GD, Ram Sanahi (No. 6893546W now JC-175637A), 01 Jan 88.

To be Naib Subedar SH Tech

Hav SH Tech, Julius Toppo (No. 6894267Y now JC-175638H), 01 Mar 88.

Hav SH Tech, Kewal Ram (No. 6894341N now JC-175639L), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar Painter (Unit)

Hav Ptr (U), Goginder Singh (No. 4444109M now JC-175640A), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar Sdlr & HM

Hav Sdlr & HM, Buddi Bahadur Sarky (No. 6901214K now JC-175641H), 01 Jan 88.

To be Naib Subedar (Clerk AOC)

Hav Ck S Prov, Gian Chandra Sharma (6892834W now JC-175642L), 01 Feb 88.

Hav Ck GD, Ram Karan Khichar (No. 6893115K now JC-175643N), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Yohannan TT (No. 6893168H now JC-175644W), 01 Mar 88.

Hav Ck GD, Vir Pal Singh (No. 6893211Y now JC-175645Y), 01 Mar 88.

Hav Ck GD, Ram Awadhesh Singh (No. 6893297H now JC-175646F), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Rajander Singh (No. 6893243F now JC-175647K), 01 Mar 88.

Hav Ck GD, Munni Lal Ram (No. 6893293M now JC-175648M), 01 Mar 88.

Hav Ck GD, Tonda Ram (No. 6893401L now JC-175649P), 01 Mar 88.

Hav Ck GD, Chandra Bhan Singh (No. 6893463L now JC-175650K), 01 Mar 88.

Hav Ck GD, Subhash Chander Bahl (No. 6893539A now JC-175651M), 01 Mar 88.

Hav Ck GD, Rikhi Ram (No. 6893540P now JC-175652P), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Santosh Kumar Dwivedi (No. 6893606A now JC-175653A), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Satva Narain Singh (No. 6893701M now JC-175654H), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar (SK Tech)

Hav Skt MT, Philip MV (No. 6892109K now JC-175655L), 28 Feb 88.*

Hav Skt MT, Sujan Chand (No. 6895349M now JC-175656N), 24 Mar 88.**

Hav Skt GS&C (CP), Ramadhar (No. 6893422F now JC-175656N), 24 Mar 88.**

**Granted seniority wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances.

Hav Skt GS&C Mohan Singh (No. 6893563W now JC-175657W), 01 Mar 88.

Hav Skt Sig Bhagwati Prasad (No. 6894575K now JC-175658W), 01 Mar 88.

Hav Skt Sig Baljit Singh (No. 6894993M now JC-175659Y), 01 Mar 88.

Hav Skt GS&C Tilok Chandra Dutta (No. 6895315Y now JC-175660N), 01 Mar 88.

Hav Skt MT, Mukhtar Singh (No. 6895403P now JC-175661W), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar Drivers

Hav Dvr MT, Naresh Prasad Singh (No. 6892758P now JC-175662Y), 01 Feb 88.

To be Naib Subedar SH GD

Hav SH GD, Subha Chand (No. 6893159F now JC-175663F), 01 Jan 88.

Hav SH GD, Ved Singh (No. 6893831P now JC-175664K), 01 Feb 88.

Hav SH GD, Varinder Kumar (No. 6892973A now JC-175665M), 01 Mar 88.

Hav SK GD, Hari Shankar (No. 6895104W now JC-175666P), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar Amn Tech

Hav Amn Tech, Shyam Lal (No. 6897079F now JC-175667X), 01 Jan 88.

Hav Amn Tech, Shobh Nath Pandey (No. 6897547W now JC-175668A), 01 Mar 88.

Hav Amn Tech, Mrinal Kanti Banerjee (No. 6897936W now JC-175669H), 22 Mar 88.*

*Granted seniority wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances.

To be Naib Subedar Clerk AOC

Hav Ck GD, Rama Chandra Savale (No. 6892677P now JC-175670X), 01 Feb 88.

Hav Ck GD, Doongar Singh (No. 6893032Y now JC-175671A), 01 Feb 88.

Hav Ck S Cont, Balaram Choubey (No. 6893145F now JC-175672H), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Lalan Singh (No. 6893369F now JC-175673L), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Kewal Krishan (No. 6893541X now JC-175674N), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Kamlesh Narain Saxena (No. 6893500N now JC-175675W), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Jagdish (No. 6893676Y now JC-175676Y), 01 Mar 88.

Hav Ck S Cont, Deo Narayan Yadav (No. 6893702P now JC-175677F), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar SK Tech

Hav Skt Amn, Hakam Singh (No. 6892179H now JC-175678K), 01 Feb 88.

Hav Skt Amn, Ratan Prakash (No. 6892569L now JC-175679M), 01 Feb 88.

Hav Skt GS&C, Deep Chand Sharma (No. 6893391M now JC-175680F), 01 Mar 88.

Hav Skt Wep, Budh Ram (No. 6893333H now JC-175681K), 01 Mar 88.

Hav Skt GS&C, Rajani Kantha Sharma (No. 6894727N now JC-175682M), 01 Mar 88.

Hav Skt GS&C Suraj Bhan (No 6893578Y now JC-175683P), 01 Mar 88.

Hav Skt GS&C Harbhajan Singh (No 6893586X now JC-175684X), 01 Mar 88.

Hav Skt Sig (Raje Singh Rawat (No 6893953Y now JC-175685A), 01 Mar 88.

Hav Skt Sig Babu Ram Giri (No 6894573Y now JC-175686H), 10 Mar 88.**

**Gtd seniority wef 01 Mar 88 without effect on pay and allowances.

Hav Skt Wep Satya Prakash (No 6894797M now JC-175687L), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar Drivers

Hav Dvr MT Rang Lal (No 6892798W now JC-175688N), 01 Mar 88.

Hav Dvr MT Sher Singh (No. 6892895N now JC-175689W), 01 Mar 88.

To be Naib Subedar SH Tech

Hav SH Tech Subramani Umaphathi (No 6893655H now JC-175690L), 01 Jan 88.

Hav SH Tech Partap Chand (No 6894192L now JC-175691N), 01 Feb 88.

Hav SH Tech Dharendra Nath Poddar (No 6894137P now JC-175692W), 01 Feb 88.

ARMY BRANCH)

No. 1697, dated 4th October 1988.—The President is pleased to make the following promotions:—

(REGULAR ARMY)

REGIMENT OF ARTILLERY

TO BE SUBSTANTIVE SUBEDAR (CLERK GD)

Nb Sub Manavatira Machaiah Bheemaiah (JC-134705-N), 1st Aug 1988.

Nb Sub Ram Bachan Sunwar (JC-134706W), 1st Aug 1988.

Nb Sub Chander Bhan Singh Yadav (JC-132699M), 1st Aug 1988.

Nb Sub Gurmit Singh Sanghera (JC-132700W), 1st Aug 1988.

Nb Sub Manicka Gounder Chinnappan (JC-136086K), 1st Aug 1988.

Nb Sub Shiri Ram (JC-136184K), 1st Aug 1988.

Nb Sub Suhinder Singh Virk (JC-136161H), 1st Aug 1988.

To be Substantive Sub (GD)

Nb Sub Bal Krishan (JC-136217K), 1st July 1987.

Nb Sub J Damodar Rao (JC-155543F), 1st Mar 1988.

Nb Sub Dhuy Singh (JC-136205P), 1st June 1988.

Nb Sub Thazhathathil Lakshmi Balakrishnan (JC-135101-F), 1st June 1988.

Nb Sub MK Abdulla (JC-149249L), 1st June 1988.

Nb Sub Chandra Pani Krishna Ram (JC-158480P), 1st July 1988.

Nb Sub Prabhakaran Soman (JC-156263A), 1st July 1988.

Nb Sub Charan Singh (JC-135443P), 1st July 1988.

Nb Sub Indra Pal Singh (JC-132208L), 1st July 1988.

Nb Sub Jai Singh (JC-139471Y), 1st July 1988.

Nb Sub Sher Singh (JC-138615K), 1st July 1988.

Nb Sub Arumugham Thanga Raj (JC-140159H), 1st July 1988.

Nb Sub Jagdish Perakash (JC-155871P), 1st July 1988.

Nb Sub Gurnam Singh (JC-146275F), 1st July 1988.

Nb Sub Sher Singh (JC-118354A), 1st July 1988.

Nb Sub Jai Lal (JC-151030P), 1st July 1988.

Nb Sub Chander Dutt (JC-148110F), 1st Aug 1988.

Nb Sub Uttam Singh (JC-133281W), 1st Aug 1981.

Nb Sub Prahlad (JC-130881N), 1st Aug 1988.

Nb Sub Shital Prasad (JC-139327K), 1st Aug 1988.

No. 1698, dated 23rd September, 1988.—The President is pleased to make the following appointments with effect from the dates shown against each (Navy Instruction 15/69 refers).

INDIAN NAVY

Permanent Cadre

To be

Master chief Petty Officers Class I

Sl. No.	Name	S. No.	Rank	Date
1	2	3	4	5
1.	PC Gaur	048669N	MCPO-II	13-8-88
2.	K John	051823 F	MCEAAR-II	1-2-87
3.	M Daniel	067060 K	MCPOAF-II	1-4-86
4.	Y. Lal	063763T	MCPOCK(S)-II	1-1-86
5.	Asgar Ali	049000R	MCME-II	1-4-86
6.	MS Joseph	064648 B	MCPO TOP-II	1-1-86
7.	Bhawan Chand	046738 Z	MCPO-II	1-3-86
8.	P. N. Upadhyay	047716 Y	MCPO-II	1-2-86
9.	B. C. Singh	047766K	MCPO-II	1-4-86
10.	M. S. Nagi	048070 A	"	1-2-86
11.	K. Suryanarayana	048125 A	"	1-3-86
12.	Kani Ram	049054 N	"	1-4-86
13.	KAR Pandhare	049074 H	"	1-4-86
14.	SCV Kulkarni	049216 F	"	1-3-86
15.	H. Singh	049386 T	"	1-3-86
16.	B. Ram	049553 Y	"	1-3-86
17.	GS Bajwa	049639T	"	1-2-86
18.	KP Mangain	049778H	"	1-4-86
19.	PS Rai	049845K	"	1-3-85
20.	P. Singh	049934N	"	1-4-86
21.	MS Bajwa	064091N	"	1-3-86
22.	L Ram	064724A	"	1-3-85
23.	D. B. Singh	064762N	"	1-4-86
24.	SJ Pathak	064771H	"	1-3-86
25.	PC Vasudevan	065584F	"	1-3-86
26.	MT Anthony	065586K	"	1-3-86
27.	SS Rawat	065925F	"	1-2-86
28.	S S Chauhan	065934A	"	1-2-86
29.	R P Yadav	066078 B	"	1-2-86
30.	MS Chauhan	066086Y	"	1-3-86

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
31.	D. Singh	066755T	MCPO-II	1-3-86	90.	J Paul	067886N	MCA (PH)II	1-5-86
32.	Inder Singh	066762H	"	1-4-86	91.	D. Shinde	082615 N	MCA (Met) II	1-5-86
33.	H. L. Mehta	066883H	"	1-4-86	92.	M Ram	088086 Y	MCA (SE) II	1-5-86
34.	R Singh	066944Y	"	1-5-86	93.	Ramesh Chand	092278Z	MCELA II	1-5-86
35.	P Ram	066964 T	"	1-4-86	94.	S Singh	051977F	MCEAA II	1-6-86
36.	P. Singh	066998 W	"	1-3-86	95.	A Elango	051770K	MCEAA II	1-6-86
37.	K. C. Mammen	067021Y	"	1-3-86	96.	MP Joseph	067243A	MCA (MET) II	1-1-86
38.	P Singh	067118T	"	1-3-86	97.	AK Devgon	051858K	MCAA II	1-6-88
39.	KM Mathew	067230Y	"	1-4-86	98.	B Singh	048161H	MCPOAF II	1-3-86
40.	MC Mathai	067468N	"	1-6-85	99.	RS Pandey	048335B	MCA (AH) II	1-4-86
41.	K Lal	067660Z	"	1-3-86	100.	SS Bhatti	047589H	MCA (AH) II	1-1-86
42.	R Singh	067668N	"	1-3-86	101.	RC Rai	051968 K	MCEAA II	1-6-86
43.	Om Prakash	067779W	"	1-4-86	102.	PN Singh	048486Y	MCWM II	1-6-86
44.	ML Sharma	067864N	"	1-4-86	103.	JR Maurya	052984 W	MCEAP II	1-6-86
45.	OP Yadav	086126T	"	1-3-86	104.	P. Lal	086082T	MC Mech (R) II	1-6-86
46.	B Lal	086391W	"	1-4-86	105.	Subhash Chand	087435 T	MCMech (R) II	1-3-86
47.	G Ram	087210F	"	1-5-86	106.	V P Kashyap	092526 N	MC EAR II	1-5-86
48.	J Chand	066782B	"	1-5-85	107.	K. Preman	092612 H	"	1-6-86
49.	NS Pahl	046567K	MCAT Arm-II	1-2-86	108.	R Srinivasan	093192A	"	1-6-86
50.	Gurucharan Singh	048304H	"	1-3-86	109.	B C Gaur	066927 H	MCMECH II	1-6-86
51.	KKRS Nair	063774T	"	1-2-86	110.	B S Dhillon	067483 Y	"	1-6-86
52.	Avtar Singh	065338Y	"	1-2-86	111.	G Singh	086586 N	"	1-6-86
53.	J Singh	065498K	"	1-1-86	112.	G B Tripathi	086830 T	"	1-6-86
54.	NM Yallapa	066624W	"	1-3-86	113.	J Singh	087081 N	"	1-3-86
55.	Puran Chad	049678F	MCPOR(TAC) II	1-3-86	114.	Idriss Ali	087674 K	"	1-5-86
56.	JS Narwal	049960Y	"	1-3-86	115.	Y. Selvaraj	087987 Y	"	1-6-86
57.	KR Jana	066014 H	"	1-3-86	116.	D Jha	051666 Z	MCERA II	1-5-86
58.	Dhan Singh	065695H	"	1-3-86	117.	K Prasad	180053 N	"	1-3-85
59.	SR Anand	063274F	MCPO MAII	1-1-86	118.	J K Chakraborty	180172 H	"	1-6-86
60.	Harpal Singh	064010B	"	1-2-86	119.	YSS Rao	048263 R	MC ME II	1-3-86
61.	Gurdas Ram	063454R	MCPO TOPII	1-1-86	120.	K D Sharma	048775 B	"	1-4-86
62.	Singram	063675 T	"	1-1-86	121.	Jai Singh	049219 N	"	1-4-86
63.	P. K. Krishnan	056261Y	"	1-1-86	122.	RS Mehra	066002 F	"	1-2-86
64.	K. Raj	066562B	"	1-1-86	123.	S Raj	066499 K	"	1-3-86
65.	RS Verma	081560R	MCPOR(Tel)II	1-5-86	124.	GB Joshi	086324 T	"	1-4-86
66.	G Pillai	086834A	"	1-4-86	125.	CB Singh	089009 W	MC ELP II	1-5-86
67.	RNG Pillai	086880F	"	1-3-86	126.	B Singh	088946 A	MCELR II	1-5-86
68.	M Mullah	087957B	"	1-4-86	127.	P S Negi	049179 Y	MCPO II	1-4-86
69.	TC Cheriyan	080609B	MCPO WTR II	1-1-86	128.	PPM Nair	049464 W	"	1-2-86
70.	Arumai Kudi	080895B	"	1-1-86	129.	Jairam Singh	067604 Y	"	1-5-86
71.	Behari Lal	080919H	"	1-2-86	130.	Rattan Lal	086491 Y	"	1-4-86
72.	L. Chand	080954 N	"	1-4-86	131.	AG Hamine	051818 W	MCEAAR II	1-6-86
73.	KP Rasminal	081113Z	"	1-4-86	132.	M Rai	054541 H	MCAM II	1-5-86
74.	VT Alexander	081137B	"	1-4-86	133.	Ramji Prasad	067144 A	MCME II	1-4-86
75.	D. Varadarajan	064339A	MCPO-II	1-1-86	134.	R Nizamuddin	180071 B	MCERA II	1-6-86
76.	BS Rawat	080788K	"	1-2-86	135.	SS Sharma	067610 K	MCPOR (Tel.) II	1-4-86
77.	P. Singh	080850A	"	1-2-86	136.	G. Subramaniam	086759 F	"	1-4-86
78.	D Pal Singh	080983B	"	1-3-86	137.	CN Singh	090219 W	MC Mech (AR)	1-5-86
79.	KC Gupta	081063K	"	1-4-86	138.	B Singh	087218Z	MCELP II	1-5-86
80.	BB Thapa	081064N	"	1-4-86	139.	R Singh	086661 H	MCPO II	1-4-86
81.	PKR Choudhary	066367K	MCPOSTD II	1-1-86	140.	G Chand	066677 R	MCPO II	1-3-86
82.	BS Rawat	080826Y	"	1-1-86	141.	K Ram	066973 N	"	1-3-86
83.	AM Kothiyal	080851B	"	1-1-86	142.	BL Dimri	049549 N	"	1-3-86
84.	JA Dias	042691A	MCPOMUS II	1-2-86	143.	MK Paramaraj	080578 H	MSCPO II	1-1-86
85.	Shankar Dass	066256H	MCPOAF II	1-6-86	144.	Annaswamy VT	063283A	MCPOCK (S) II	1-2-86
86.	KA Devan	0868333Z	MCELA II	1-5-86	145.	K Ram	063417 F	"	1-3-86
87.	Dal Chand	048487Z	MCA(AH)II	1-5-86	146.	P Ghosh	064201 N	"	1-3-86
88.	R Kenjale	067811W	"	1-5-86	147.	SK Paul	063511 W	MCPOCK (O) II	1-1-86
89.	HP Mishra	049200W	"	1-5-86	148.	K Singh	042654 T	MCPOMUS II	1-1-86
					149.	M Baragi	049672 T	MCPOR (Tel) II	1-4-86
					150.	J P Mishra	088813 Z	MC Mech II	1-3-86

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
269.	DC Datto	088398 F	MCMECH AR 2	1-3-85	327.	Koruth Govindan	066684 F	MCPO II	1-8-84
270.	B Ram	089661 A	MCMECH AR 2	1-3-85	328.	Risal Singh			
271.	TM Nair	089909 Y	MCAMET 2	1-5-85		Arya	066729 H	MCPO II	1-8-84
272.	GS Sandhu	046873 F	MC AT ARMS2	1-2-85	329.	Amar Chand			
273.	S Singh	046615 H	MC AT ARMS2	1-1-85		Kaushal	066799 T	MCPO II	1-3-84
274.	VB Singh	045885 K	MC AT ARMS 2	1-1-85	330.	Bhaskar Biswal	067631 H	MCPO II	1-8-84
275.	D Singh	063481 A	MCPOCK (S) 2	1-2-85	331.	Sunder Singh	049734 H	MCPO TEL 2	1-7-84
276.	B Chand	063627 H	MCPOCK(S) 2	1-1-85	332.	Daya Kishan			
277.	RA Singh	065312 H	MCPOCK (S) 2	1-1-85		Joshi	048175 R	MCPO TECH 2	1-7-84
278.	L Chand	063953 Z	MCPOCK (S) 2	1-2-85	333.	Kuldip Singh			
279.	JD Mascarrhas	064177H	MCPOCK (S) 2	1.4.85		Dadhwal	065811 Y	MCPOR (TAC)2	1-7-84
280.	SJ Singh	064204 W	MCPOCK (S) 2	1-3-85	334.	Atma Singh	066253 A	MCPOR (TA)2	1-4-84
281.	H Mohammad	063959 N	MCPOCK (O)	1.1.85	335.	Raj Kishore			
282.	JN Sharma	063993 R	MCPOCK (O) 2	1-1-85		Prasad	063194 Z	MCPOMA 2	1-1-84
283.	D Prasad	065312 N	MCPO STD 2	1-1-85	336.	Gurcharan Singh	063421 R	MCPO MA 2	1-2-84
284.	D Singh	080329 T	MCPO STD 2	1-2-85	337.	Moonnumoorthy	064899 Z	MCPO WTR 2	1-1-84
285.	P Singh	065329 A	MCPO STD 2	1-1-85	338.	Vishwanthan			
286.	PP Shankappan	064187 F	MCPO CKS (2)	1-3-85		Panchpakasan	065468 T	MCPO WTR 2	1-1-84
287.	GS Rawat	080476 A	MCPO WTR 2	1-2-85	339.	Hardial Singh	066406 Z	MCPO WTR 2	1-1-84
288.	GS Subag	081036 Z	MCPO WTR 2	1-4-85	340.	Shiv Lochan			
289.	KKR Nair	080843 K	MCPO WTR2	1-3-85		Pandey	080255 Z	MCPO WTR 2	1-1-84
290.	S Singh	065660 B	MCPO WTR 2	1-1-85	341.	Pritam Singh	080269 F	MCPO WTR 2	1-1-84
291.	TK George	080172 K	MCPO WTR 2	1-2-85	342.	Sohan Singh	066071 N	MSCPO 2	1-1-8
292.	CS Chauhan	080280 F	MCPO WTR 2	1-2-85	343.	Thomas Joseph	080201 A	MSCPO 2	1-1-84
293.	S. P. Singh	080870 Y	MCPO WTR 2	1-3-85	344.	Ayathparambill			
294.	GC Chaudhary	080991 Y	MCPO WTR 2	1-4-85		Joseph Xavier	064416 A	MCPO STD 2	1-1-84
295.	GS Buhra	048362 R	MSCPO 2	1-1-85	345.	Pars Ram	063178 N	MCPO CK (S)2	1-1-84
296.	RN Shukla	065904 H	MSCPO 2	1-2-85	346.	Ugan Singh	046133 Z	MC AT ARMS2	1-1-84
297.	M Singh	080109 T	MSCPO 2	1-1-85	347.	Ghan Shyam	063449 B	MCPO TOP 2	1-1-84
298.	A Singh	080389 B	MSCPO2	1-3-85	348.	Dalip Singh	042609 R	MCPO MUS 2	1-1-84
299.	BP Sharma	080228 N	MSCPO2	1-1-85	349.	Sant Singh	086495 F	MCELR 2	1-8-84
300.	G Singh	080807 A	MSCPO2	1-3-85	350.	Sultan Singh	067772 B	MCMECH 2	1-6-84
301.	Y Nikam	080183 K	MSCPO 2	1-2-85	351.	Kanwar Ram	052855A	MC ERA 2	1-9-8 4
302.	G Singh	080493 R	MSCOP2	1-1-85	352.	Vellangattu			
303.	BP Bharati	049078 T	MSCPO 2	1-2-85		Kuttappam			
304.	X Aruland	080238 K	MSCPO 2	1-1-85		Narayana			
305.	VKB Nair	086445 T	MCPOR TEL 2	1-6-85		Pillal	052944 B	MC ERA 2	1-7-84
306.	P Ram	067979 Z	MCPOR TEL 2	1-5-85	353.	Bakhtawar Singh	090360 R	MC ERA 2	1-9-84
307.	OK Gangadharan	047264 H	MCPOR TEL 2	1-5-85	354.	Krishna Kumar			
308.	KPG Nair	063539 H	MCPO MA 2	1-2-85		Shrivastava	052985 Y	MCEAP II	1-7-84
309.	BP Pandey	063331 K	MCPO MA 2	1-6-85	355.	Challil Govindan	051598 W	MECAR II	1-4-84
310.	L Vaz	042640 K	MCPO MUS 2	1-1-85	356.	Prabir Kumar			
311.	G Prasad	067551 A	MC MECH 2	1-3-85		Nath	051618 R	MCEAR II	1-10-84
312.	Sita Ram	069725 A	MC ELR 2	1-6-85	357.	Rakashpal Singh	089995 K	MCEAR II	1-6-84
313.	JS Jaswal	069272 N	MC ELR 2	1-6-85	358.	Shiv Raj Singh	091939 B	MCEAR II	1-10-84
314.	SB Singh	082038 A	MC ELR 2	1-3-85	359.	Ranvir Prasad	069235 B	MC MECH (R)	1-9-84
315.	SS Hans	086836 F	MC MECH 2	1.4.85				II	
316.	KVK Kutty	088805 F	MC ELA 2	1-6-85	360.	Harbhajan Singh			
317.	Arjun Singh	044565 K	MCPO II	1-1-84		Sandhu	087076 A	MC MECH (R)	1-9-84
318.	Dhani Ram	046647 T	MCPO II	1-8-84				II	
319.	Kulwant Singh	048820 F	MCPO II	1-6-84	361.	Rajendra Prasad	088891 A	MC MECH (R)	1-6-84
320.	Krishna Genu							II	
	Sakhore	064588 T	MCPO II	1-9-84	362.	Kalindi			
321.	Dayanand					Narasimba Raju	046572 Y	MC A (AH) II	1-5-84
	Nautal	064714 B	MCPO II	1-2-84	363.	Palampadiyan			
322.	Jai Singh	064758 B	MCPO II	1-9-84		Kunhi Moideen			
323.	Prabh Dayal					Kutty	046985 K	MCPOAOF II	1-6-84
	Singh Sindhu	064813 B	MCPO II	1-8-84	364.	Parl Abdul			
324.	Ram Gopal	064929 T	MCPO II	1-8-84		Kader	051594 K	MCAA II	1-5-84
325.	Jai Narain Sinha	065122 F	MCPO II	1-2-84					
326.	Karuppa								
	Kallappan	063406 A	MCPO II	1-7-84					

1	2	3	4	5
365.	Gurdial Singh	051673 R	MCAA II	1-7-84
366.	B.V. Rao	051557 A	MC AA II	1-5-84
367.	C Srinivasan	091781 W	MC AA II	1-5-84
368.	Govindasami Nanda Kumar Na du	051307 H	MC EAAR II	1-6-84
369.	Manjoor Raman Prasadachandran Nair	051624 B	MC EAAR II	1-7-84

Master Chief Petty Officers Class II

1	2	3	4	5
1.	HC Bajetha	082945-N	CPO	1-10-86
2.	Dayanand	083861-W	CPO	1-12-86
3.	RS Rajput	084021-H	CPO	1-12-86
4.	A Singh	085224-T	CPO	1-12-86
5.	K Singh	068699-K	CPOR (TAC)	1-12-86
6.	N Singh	084622 Z	"	1-12-86
7.	PN Singh	084993 T	"	1-12-86
8.	K Mishra	089939-H	"	1-12-86
9.	U Balsubraman- lam	093868 N	"	1-12-86
10.	B Singh	069482-R	CPOR (TEL)	1-12-86
11.	Om Prakash	085008 A	CPOR (TEL)	1-12-86
12.	KK Mani	091281 H	CPOR (TEL)	1-12-86
13.	B. Singh	092054 R	CPOR (TEL)	1-12-86
14.	S. Singh	084520 T	CPOR (SPL)	1-12-86
15.	V. Kumar	190180 B	AGCHSWA	1-5-86
16.	J.N. Dinakar	200317 T	CHSWA	1-11-86
17.	M. M. Mathew	190263 T	AGCHERA	1-12-86
18.	K. D. Rao	190264 W	AGCHERA	1-12-86
19.	Jeyanada Das	190282 K	AGCHERA	1-12-86
20.	Rajendra Prasad	200759 Y	AGCHERA	1-12-86
21.	Jagdeep Singh	200874 H	AGCHERA	1-12-86
22.	S. Ram	080701 N	CPOCK (O)	1-4-86
23.	S. Velappan	082479 B	CPOWTR	1-2-86
24.	T. Apparao	056336 N	CHELP	1-12-86
25.	S. Singh	057528 Y	CHELP	1-12-86
26.	A. K. Oberoi	096176 H	CHELP	1-12-86
27.	K. B. Mohammed	096768 B	CHELP	1-12-86
28.	Ram Krishna Ram	096358 Y	CHELR	1-12-86
29.	J. Kishore	0969 2 H	CHELR	1-12-86
30.	R. Niwas	097036 N	CHELR	1-12-86
31.	R. N. Meena	097215 W	CHELR	1-12-86
32.	Abdul Rahim N	190202 B	AGCHEAP	1-5-86
33.	R. Vijayan	190240 R	AGCHEAP	1-11-86
34.	M. K. Paliwal	190344 A	AGCHEAR	1-11-86
35.	Pal Singh	190353 W	AGCHEAR	1-11-86
36.	Amarjit Singh	200998 K	AGCHEAR	1-11-86
37.	H. S. Chodhary	054158 N	AGCHWM	1-12-86
38.	G. Singh	053929 T	CPOAF	1-12-86
39.	K. P. Rai	054150 W	CPOAF	1-12-86
40.	Radha Charan	054681 A	CPOAF	1-11-86
41.	J. Singh	054929 R	CPOAF	1-12-86
42.	S. Singh	098701 H	CPOAF	1-12-86
43.	H. J. Singh	093844 H	CPOAF	1-12-86

1	2	3	4	5
44.	Kalika	094342 R	CPOAF	1-12-86
45.	R. Singh	095075 F	CPOAOF	1-12-86
46.	S. Singh	095128 A	CPOAOF	1-12-86
47.	S. C. Das	096085 A	CHELA	1 12 86
48.	V P. Singh	096659 F	CHELA	1 12 86
49.	R. Niwas	097108 A	CHELA	1-12-86
50.	B. Sunder	094886 A	CHELAR	1 12-86
51.	J. Yadava	095088 K	CHELAR	1-12-86
52.	A. Kumar Singh	095147 W	CHELAR	1-12-86
53.	K. Chander	082741 Z	CPO	1-8-85
54.	S. D. Jengam	190270 H	AGCHERA	1-12-86
55.	B. K. Banerjee	190037 B	CHELA	1-4-85
56.	A. P. Singh	096198 H	CHELR	1-12-86
57.	Ved Pal	092713 N	AGCHTECH	1-10-85
58.	P. S. Jat	082243 T	CPO	1-11-86
59.	P. S. Raju	049038 Z	CPO	1-09-88
60.	S. Singh	049600 B	CPO	01-10-86
61.	U. P. Singh	067704 Z	CPO	01-08-86
62.	K. Lal Yadav	081634 H	CPIO	01-08-86
63.	Veer Singh	081801 N	CPO	01-10-86
64.	H. S. Hamdard	082140 H	CPO	01-11-86
65.	H. Singh	082634 H	CPO	01-09-86
66.	I. Singh	082752 Z	CPO	01-10-86
67.	R. Attar	082924 R	CPO	01-11-86
68.	R. S. Ram	082949 Y	CPO	01-09-86
69.	R. S. Chau- han	082974 B	CPO	01-08-86
70.	D. Ram	083045 R	CPO	01-10-86
71.	S. Paul	083109 K	CPO	10-09-86
72.	H. Singh	083125 Y	CPO	01-08-86
73.	M. Singh	083243 R	CPO	01-09-86
74.	B. S. Pandey	083397 R	CPO	01-11-86
75.	K. Lal	083469 B	CPO	01-11-86
76.	J. Singh	083530 T	CPO	01-10-86
77.	P. Singh	083564 W	CPO	01-08-86
78.	C. Ram	083634 B	CPO	01-11-86
79.	Suraj Bhan	084283 B	CPO	01-09-86
80.	K. P. Badola	083363 N	CPO	01-11-86
81.	G. Lal	084366 T	CPO	01-11-86
82.	R. Xavier	084509 T	CPO	01-10-86
83.	A. G. Jadhav	084678 A	CPO	01-11-86
84.	Sadanand	084740 T	CPO	01-10-86
85.	D. Paul	084905 T	CPO	01-11-86
86.	H. Singh	085220 H	CPO	01-09-86
87.	S. Pal	085586 R	CPO	01-11-86
88.	R. C. Joshi	086062 Y	CPO	01-10-86
89.	N. Nagarmal	086636 A	CPO	01-08-86
90.	S. R. Hele	086702 A	CPO	01-09-86
91.	G. Singh	086967 B	CPO	01-08-86
92.	K. Singh	087047 K	CPO	01-11-86
93.	Ram Singh	088950 K	CPO	01-09-86
94.	J. Singh	089380 N	CPO	10-08-86
95.	Amar Nath	090680 B	CPO	01-11-86
96.	J. Ram	090998 R	CPO	01-10-86
97.	S. Singh	089430 A	CPO	01-11-86
98.	R. Singh	054242 B	CPOAF	01-11-86
99.	K. P. Singh	054569 Y	CPOAF	01-11-86
100.	Om Prakash Tyagi	092267 Z	CPOAF	01-12-86
101.	G. S. Rawat	092651 Y	CPOAF	01-10-86

1	2	3	4	5
689.	T. C. Gochhait	066435 R	CPOTOP	1-1-85
690.	H. Lal	080344 A	CPOTOP	1-1-85
691.	K. Krishan	080450 T	CPOTOP	1-1-85
692.	G. Chand	080917 B	CPOTOP	1-1-85
693.	J. S. Sethi	054182 T	CHAM	1-4-85
694.	P. R. Chandran	054625 Z	CHAM	1-4-85
695.	Amar Nath	094159 Z	CHAM	1-4-85
696.	R. Kumar	097483 B	CHAA	1-4-85
697.	S. George	097775 T	CHAA	1-4-85
698.	P. S. Bist	087944 Z	CHA (SE)	1-3-85
699.	H. Singh	088257 K	CHOAOR	1-2-85
700.	S. Kumar	094004 Y	CHMECH (AR)	1-4-85
701.	D. P. Sharma	095245 T	GHMECH (AL)	1-4-85
702.	B. B. Mane	052198 H	AGCHEAR	1-4-85
703.	D. C. Chauhan	052479 Y	CHEAR	1-4-85
704.	M. P. Chauhan	052487 R	CHEAR	1-4-85
705.	K. S. Manoharan	052491 Z	AGCHEAR	1-4-85
706.	C. Nair TN	052494 F	CHEAR	1-4-85
707.	K. Karunakaran	052498 R	CHEAR	1-4-85
708.	K. K. Singh	097555 Y	AG CHEAR	1-4-85
709.	Larbari Lal	097733 Y	AGCHEAR	1-4-85
710.	J. Gochhayat	190011 W	AGCHEAR	1-4-85
711.	Bir Singh	052490 Y	AGCHEAP	1-4-85
712.	R. M. S. Kataria	052492 A	CHEAP	1-4-85
713.	S. H. Rajan	052497 H	AGCHEAP	1-4-85
714.	M. Punnem	097465 N	CHEAP	1-4-85
715.	S. Singh	190002 Z	AGCHEAP	1-4-85
716.	M. L. Sharma	190004 B	AGCHEAP	1-4-85
717.	K. Singh	057426 R	AGCHMECH (R)+	1-4-85
718.	Hem Raj	057451 Y	AGCH...ECH (R)	1-4-85
719.	P. S. Sackhawat	057535 N	AGCHMECH (R)	1-4-85
720.	U. Singh	094759 N	AGCHMECH (R)	1-4-85
721.	B. Singh	094989 K	AGCHMECH (R)	1-4-85
722.	A. K. Das	051876 A	CHSWA	1-1-85
723.	M. G. Joshua	052444 T	AGCHSWA	1-4-85
724.	H. Singh	052469 Z	CHSWA	25-1-85
725.	M. K. Ghosh	190023 Y	CHSWA	1-4-85
726.	K. Singh	190034 Y	CHSWA	1-4-85
727.	Suraj Prakash	097070 R	AGCHERA	1-4-85
728.	S. Upadhyay	097578 B	AGCHERA	1-4-85
729.	T. Singh	190028 H	CHERA	1-4-85
730.	Om Prakash	190056 Y	CHERA	1-4-85
731.	M. T. S. Nair	190059 B	CHERA	1-4-85
732.	P. K. Mandharan	190064 R	AGCHERA	1-4-85
733.	A. Lal	080880 W	CPOSTD	1-1-85
734.	H. Singh	081056 W	CPOSTD	1-1-85
735.	A. Singh	042710 W	CPOMUS	1-1-85
736.	T. J. J. Almalic	042825 F	CPOMUS	1-1-85
737.	G. A. Muthukan	058156 Z	SCPO	1-1-85
738.	L. Ram	058350 R	SCPO	1-1-85

1	2	3	4	5
739.	R. K. Sharma	068367 F	SCPO	1-1-85
740.	S. Singh	069229 R	SCPO	1-1-85
741.	M. S. Rawat	069243 Y	SCPO	1-1-85
742.	M. Lal	069690 N	SCPO	1-1-85
743.	S. Singh	069693 W	SCPO	1-1-85
744.	M. Singh	069735 R	SCPO	1-1-85
745.	O. P. Sharma	069744 K	SCPO	1-1-85
746.	S. Singh	069762 A	SCPO	1-1-85
747.	M. Raveendran	069783 Z	SCPO	1-1-85
748.	M. S. Bumbran	069872 A	SCPO	1-1-85
749.	R. C. Lakhanpal	069949 A	SCPO	1-1-85
750.	L. C. Yadav	081861 Z	SCPO	1-1-85
751.	D. Singh	081870 W	SCPO	1-1-85
752.	R. P. Yadav	082209 R	SCPO	1-1-85
753.	M. M. Hussain	064390 T	CPOCK (S)	1-1-85
754.	N. G. Chakravorty	064519 K	CPOCK (S)	1-1-85
755.	P. Sorode	065724 Z	CPOCK (S)	1-1-85
756.	H. Bisol	065788 W	CPOCK (S)	1-1-85
757.	B. R. Chakravorty	066199 B	CPOCK (S)	1-1-85
758.	M. Kallanan	066235 K	CPOCK (S)	1-1-85
759.	B. Dass	066243 B	CPOCK (S)	1-1-85
760.	Bhag Mal	066338 W	CPOCK (S)	1-1-85
761.	S. Tiwari	066365 F	CPOCK (S)	1-1-85
762.	C. P. Abraham	066386 B	CPOCK (S)	1-1-85
763.	P. Chand	080018 K	CPOCK (S)	1-1-85
764.	S. Ram	080022 W	CPOCK (S)	1-1-85
765.	G. L. Verma	080069 A	CPOCK (S)	1-1-85
766.	S. P. Verma	066471 Y	CPOCK (S)	1-1-85
767.	K. Solomon	066489 N	CPOCK (O)	1-1-85
768.	B. Lal	066558 W	CPOCK (O)	1-1-85
769.	Inder Singh	066560 Z	CPOCK (O)	1-1-85
770.	Govind Raj	066577 N	CPOCK (O)	1-1-85
771.	P. P. L. Umachan	066579 T	CPOCK (O)	1-1-85
772.	K. Das	080248 H	CPOCK (O)	1-1-85
773.	D. Ram	080394 R	CPOCK (O)	1-1-85
774.	K. S. Bhatti	058094 H	CPOWTR	1-1-85
775.	T. J. Singh	067932 T	CPOWTR	1-1-85
776.	T. R. Sharma	069223 A	CPOWTR	1-1-85
777.	L. Chandra	069240 R	CPOWTR	1-1-85
778.	D. N. Singh	069247 F	CPOWTR	1-1-85
779.	Om Prakash	069248 H	CPOWTR	1-1-85
780.	M. P. Singh	069263 T	CPOWTR	1-1-85
781.	S. Singh	069888 N	CPOWTR	1-1-85
782.	U. S. Pandey	069999 R	CPOWTR	1-1-85
783.	L. S. Shokhawat	081457 F	CPOWTR	1-1-85
784.	Mohad. Arif	081883 Z	CPOWTR	1-1-85
785.	G. R. Swamy	081948 Y	CPOWTR	1-1-85
786.	T. M. Reghuthaman	081954 K	CPOWTR	1-1-85
787.	J. B. Singh	082039 B	CPOWTR	1-1-85
788.	K. Singh	082084 F	CPOWTR	1-1-85
789.	R. Chand	082085 H	CPOWTR	1-1-85
790.	B. S. Manhas	082143 R	CPOWTR	1-1-85
791.	A. P. Gupta	082217 H	CPOWTR	1-1-85
792.	Hari Babu Rawat	082484 R	CPOWTR	1-1-85

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
793.	Shampal Singh	082522 A	CPAWTR	1-1-85	849.	R. Yadava	096945 F	CHERA	1-1-85
794.	R. K. Nikam	052441 K	AGCHAA	1-1-85	850.	A. Pandit	096970 N	CHERA	1-1-85
795.	D. V. Patajwad	052205 Z	CHEAA	1-1-85	851.	B. Pandey	097040 Y	CHERA	1-1-85
796.	M. Ram	052210 K	CHEAA	1-1-85	852.	R. S. Pal	097121 F	CHERA	1-1-85
797.	A. K. Singh	095991 N	CHAAW	1-1-85	853.	M. Singh	097296 B	CHERA	1-1-85
798.	B. Singh	095992 R	CHAAW	1-1-85	854.	M. Rafi Quddin	097171 W	CHERA	1-1-85
799.	R. Ray	096007 Z	Ag. CHAAW	1-1-85	855.	D. Singh	054437 Y	CHELR	1-9-84
800.	Pr3m Singh	052360 A	CHAA	1-1-85	856.	Rattan Lal	056098 Y	CHELR	1-5-84
801.	J. K. Sundaram	052292 Y	AGCHAA	1-1-85	857.	L. K. Dubey	056481 T	CHELR	1-6-84
802.	N. Kumar	097623 Y	AGCHAA	1-1-85	858.	S. S. Prashar	057215 K	CHELR	1-9-84
803.	V. K. Sud	096466 T	AGCHAA	1-1-85	859.	K. S. Mehta	057432 B	CHELR	1-7-84
804.	F. Singh	066950 K	CPO	1-1-85	860.	D. S. Rawat	092377 Z	CHELR	1-7-84
805.	Sher Singh	056215 N	CHME	1-8-84	861.	B. M. Jha	094223 W	CHELR	1-7-84
806.	J. C. Yadav	056357 K	CHME	1-6-84	862.	D. P. Singh	056402 N	CHELP	1-4-84
807.	Raj Kumar	064399 N	CHME	1-2-84	863.	H. Singh	056845 W	CHELP	1-5-84
808.	N. R. Verma	066530 F	CHME	1-3-84	864.	S. Singh	057257 Y	CHELP	1-7-84
809.	B. S. Arya	067107 T	CHME	1-3-84	865.	B. S. Bisht	093784 Y	CHELP	1-7-84
810.	H. H. R. Muraj	067759 Z	CHME	1-4-84	866.	K. S. Pendar	046937 A	CPO	1-2-84
811.	B. Singh	068502 N	CHME	1-7-84	867.	D. Prasad	049582 N	CPO	1-6-84
812.	V. P. Singh	086337 Y	CHME	1-3-84	868.	B. E. Raju	049631 Z	CPO	1-3-84
813.	J. Bhatt	087532 N	CHME	1-4-84	869.	R. Singh	064997 Y	CPO	1-3-84
814.	H. S. Barthwal	088323 K	CHME	1-9-84	870.	K. Ram	066718 H	CPO	1-3-84
815.	J. Chandra	090963	CHME	1-6-84	871.	Ramesh Dutt	066859 B	CPO	1-7-84
816.	A. Singh	047670 T	CPOMA	1-1-85	872.	B. Dubey	066903 B	CPO	1-4-84
817.	S. Kulkarni	066293 T	CPOMA	1-1-85	873.	R. Singh	066891 A	CPO	1-3-84
818.	S. M. Pagare	080178 Z	CPOMA	1-1-85	874.	B. Singh	066966 Y	CPO	1-6-84
819.	R. S. Shakya	068317 T	CHME	1-6-84	875.	B. R. Yadav	067008 B	CPO	1-4-84
820.	M. Lal	052411 T	CHEAR	1-1-85	876.	P. D. Sharma	067117 R	CPO	1-3-84
821.	R. N. Prasad	095506 K	CHEAR	1-1-85	877.	B. Singh	067227 R	CPO	1-3-84
822.	S. N. Mishra	097346 T	CHEAR	1-1-84	878.	J. S. Gusaria	067308 Z	CPO	1-6-84
823.	R. P. Khairwar	052323 T	CHEAC	1-1-85	879.	K. K. Kutty	067317 W	CPO	1-5-84
824.	R. P. Yadav	052143 H	CHEAP	1-1-85	880.	M. P. Tiwari	067380 N	CPO	1-7-84
825.	A. S. Kadoo	052190 R	CHEAP	1-1-85	881.	K. Prasad	067403 R	CPO	1-4-84
826.	R. Singh	052195 A	CHEAP	1-1-85	882.	R. Kumar Ali	067420 B	CPO	1-6-84
827.	C. Dasaratham	052271 Z	CHEAP	1-1-85	883.	V. A. Desai	067743 N	CPO	1-5-84
828.	M. L. Sasan	096257 T	CHEAP	1-1-85	884.	M. R. Yadav	068006 K	CPO	1-5-84
829.	A. Singh	067207 W	MAA	1-1-85	885.	C. Saini	081564 Z	CPO	1-6-84
830.	O. P. Sundhi	080499 B	MAA	1-1-85	886.	B. Singh	081928 A	CPO	1-6-84
831.	M. P. Balaine	081040 H	SCPO	1-1-85	887.	P. S. Rajput	081943 K	CPO	1-10-83
832.	H. Chand	082348 F	CPO WTR	10-8-85	888.	A. K. Sarkar	082022 R	CPO	1-6-84
833.	S. R. Yadav	051850 T	CHSWA	1-1-85	889.	B. Kadam	082083 B	CPO	1-4-84
834.	M. S. Sharma	051887 A	CHSWA	1-1-85	890.	S. Rajendran	082146 Y	CPO	1-6-84
835.	V. K. A. Mukand				891.	R. P. Singh	082183 F	CPO	1-6-84
	Habeeb	051945 H	CHSWA	1-1-85	892.	R. S. Yadava	082211 W	CPO	1-5-84
836.	R. T. Francis	052451 H	CHSWA	1-1-85	893.	P. Balakrishna	082242 R	CPO	1-4-84
837.	R. S. Ram	052178 N	CHERA	1-1-85	894.	G. C. Sharma	082339 K	CPO	1-5-84
838.	R. Singh	052237 Y	CHERA	1-1-85	895.	F. Singh	082589 B	CPO	1-7-84
839.	B. Singh	052312 T	CHERA	1-1-85	896.	J. S. Sekhon	082653 Z	CPO	1-5-84
840.	K. K. Kannan	052382 A	CHERA	1-1-85	897.	Dayanand Kapur	082662 W	CPO	1-7-84
841.	K. S. G. Krishnan	052427 B	CHERA	1-1-85	898.	Bakashish Ram	082962 A	CPO	1-7-84
842.	L. Singh	052433 T	CHERA	1-1-84	899.	B. N. Pandey	083148 Z	CPO	1-7-84
843.	S. S. Solanki	052436 Z	CHERA	1-1-84	900.	S. Singh	083220 N	CPO	1-6-84
844.	D. Kumar	052459 A	CHERA	1-1-85	901.	Des Raj	083261 F	CPO	1-8-84
845.	V. K. Dwivedi	052468 Y	CHERA	1-1-85	902.	Tarkeshwar Rai	083285 K	CPO	1-7-84
846.	S. K. Ghosh	096382 A	CHERA	1-1-85	903.	M. A. Peter	083358 A	CPO	1-7-84
847.	S. Singh	096900 B	CHERA	1-1-85	904.	Dhool Singh	083638 N	CPO	1-7-84
848.	K. Singh	096921 A	CHERA	1-1-85	905.	V. Singh	083815 R	CPO	1-7-84
					906.	B Singh	083850 W	CPO	1-6-84
					907.	R. Singh	083866 F	CPO	1-7-84

1	2	3	4	5	1	2	3	4	5
1021.	S. N. Prasad	082542 Y	CPOR (TEL)	1-10-83	1069.	N. Singh	180191 A	CHEAP	1-1-84
1022.	Deep Chand	082594 R	CPOR (TEL)	1-5-84	1070.	J. Nani	090424 K	Ag CHWM	1-1-84
1023.	M. L. Samadder	086420 K	CPOR (TAC)	1-4-84	1071.	Sardar Singh	091070 B	Ag CH MECII (R)	1-1-84
1024.	J. P. Rao	086439 B	CPOR (TAC)	1-2-84	1072.	H. Singh	092070 A	CHMECH (R)	1-1-84
1025.	S. Singh	087106 W	CPOR (TEL)	1-3-84	1073.	P. K. Ramphal	051774 W	CHEAR	1-1-84
1026.	R. C. Mishra	087461 A	CPOR (TFL)	1-3-84	1074.	R. Chandran	051993 T	CHEAR	1-1-84
1027.	H. D. Joshi	087976 Y	CPOR (TEL)	1-3-84	1075.	R. Chander	052138 Y	CHEAR	1-1-84
1028.	R. R. Ganguly	088064 Y	CPOR (TEL)	1-3-84	1076.	D. S. Gill	095918 Y	CHEAR	1-1-84
1029.	V. K. Nair	088234 H	CPOR (TEL)	1-4-84	1077.	M. Singh	092599 B	CPO (AF)	1-11-83
1030.	K. D. Chattopadhyay	088614 Y	CPOR (TEL)	1-5-84	1078.	B. Shamrao Patil	052314 Y	CHEAA	1-1-84
1031.	C. S. Jaswal	088713 Y	CPOR (TEL)	1-6-84	1079.	T. V. Venkatan	051925 N	CHAA (W)	1-1-84
1032.	R. R. S. Yadava	088822 H	CPOR (TAC)	1-7-84	1080.	G. H. Baldev	052200 N	CHEAA	1-1-84
1033.	K. Singh	088994 K	CPOR (TAC)	1-9-84	1081.	S. Manga Prashad	096560 F	CHEAA	1-1-84
1034.	K. P. K. Nair	089208 Y	CPOR (TFL)	1-9-84					
1035.	M. Chand	089255 B	CPOR (TAC)	1-9-84					
1036.	S. Chand	089274 Y	CPOR (TFL)	1-7-84					
1037.	S. Pal	089433 H	CPOR (TAC)	1-8-84					
1038.	Madan Mohan Singh	046031 T	CPO	1-9-83					
1039.	Narain Chand	046197 W	CPO	1-2-83					
1040.	Ram Pratap	087060 R	CPO	1-1-84					
1041.	Mazhavancherail Somasckharan Nair	087657 Y	CPOR (TAC)	1-11-83					
1042.	Ashis Lal Chatterjee	063960 R	CPOMA	1-1-84					
1043.	Jagdish Singh	065807 N	CPOMA	1-1-84					
1044.	B. Mukherjee	066366 H	CPOMA	1-1-84					
1045.	J. N. Shivharo	080457 H	CPOWTR	1-1-84					
1046.	A. N. Verma	081102 Z	CPOWTR	1-1-84					
1047.	C. T. Antony	081686 A	CPOWTR	21-5-84					
1048.	R. P. Mathur	082049 A	CPOWTR	1-5-82(unpaid)					
1049.	R. Singh	082069 Y	CPOWTR	1-1-84					
1050.	J. Singh	086112 K	CPOWTR	1-1-84					
1051.	S. K. Mukhopadhyay	080995 F	SCPO	1-1-84					
1052.	K.C. Gupta	081063 K	SCPO	5-8-84					
1053.	V. K. K. Krishnan	065439 A	MAA	1-1-84					
1054.	C. L. Yadav	067460 W	MAA	1-1-84					
1055.	A. D'souza	067517 Z	MAA	1-1-84					
1056.	S. Uppadhyay	096816 N	CHERA	1-1-84					
1057.	Mohan Bahadur	097032 B	CHERA	1-1-84					
1058.	J. Mohammad	068376 A	CHMECH	1-1-84					
1059.	Sushil Kumar	051780 H	CHSWA	1-1-84					
1060.	B. P. Singh	051848 N	CHSWA	1-1-84					
1061.	B. S. Pawar	052006 Y	CHSWA	1-1-84					
1062.	G. B. S. Verma	091468 H	CHSWA	1-1-84					
1063.	M. Singh	093413 B	CHSWA	1-1-84					
1064.	V. S. Chauhan	093755 F	CHSWA	1-1-84					
1065.	H. C. Tripathi	094039 A	CHSWA	1-1-84					
1066.	K. S. Khatri	052130 B	AGCHFAP	1-4-84					
1067.	R. R. Kickriwal	052272 A	CHEAP	1-1-84					
1068.	Mohinder Singh	096490 Y	Ag CHEAP	1-4-84					

No. 1699, dated the 4th October 1988.—The President is pleased to appoint the undermentioned, Permanent Civilian Gazetted Officer (Eqpt) to be officiating Civilian Staff Officer (Equipment) until further orders with effect from the dates against their names.

Shri P Arjunan, 23 December 1987.

Shri SM Raju, 15 January 1988.

They will be on probation for a period of two years.

RR KOSHAI., Under Secy.

(AIR FORCE)

No. 1700, dated the 27th September 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service with effect from date shown against their name.

INDIAN AIR FORCE
ADM BRANCH

1. Wg Cdr MM DHASMANA (10290), 30 Jun 1988 (A/N).

2. Wg Cdr UC SYKCO (70297), 31 Mar 1988 (A/N).

BU PILLAY, Sqn Ldr
ADPD 3(F) For AOP

No. 1701, dated the 27th September 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officers to retire voluntarily from the service with effect from date shown against his name.

INDIAN AIR FORCE
ADM BRANCH

S/L S Balakrishnan (10740), 01 Jun 1987 (F/N).

KC GANGULY, Wg. Cdr.

(AIR FORCE)

No. 1702, dated the 27th September 1988.—The President is pleased to permit the undermentioned officer to retire voluntarily from the service with effect from date shown against his name.

INDIAN AIR FORCE

F(N) BRANCH)

Sqn Ldr (Actg WG CDR) AK Taleyarkhan (8987), 4th Jun 1988.

S. SIMON, Wg Cdr AD PO3 (F).

No. 1703, dated the 23rd September 1988.—In Min of Def Notification No. 513 dated 19-2-87 published on 21-3-87, under the heading "Regular Army, Permanent Commission", sub-heading "Lt Col to be Col".

After RC Saxena (MR-1565) AMC/PC, 1-2-1986.

Adl "With notional seniority without effect on pay and pension from 21-4-85."

V. K. TEWARI, Maj Gen
Dy DGAFMS

ARM YBRANCH

No. 1704, dated the 29th September 1988.—In M of D Notn No. 760 dated 21st Apr 1988 published in the Gazette of India No. 22 dated 28 May 1988 under heading 'REGULAR ARMY' Sub-heading 'Regiment Artillery'.

Below 'To be Nb Sub'

For—Hav Kanwar Singh (No. 1276551Y now JC-172118 M), Nov 1987.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Aug 1987 without effect on pay and allowances).

Read—Hav Kanwar Singh (No. 1276551Y now JC-172118 M), 22nd Nov 1987.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01st Aug 1987 without effect on pay and allowances).

For—BHM Krishan Lal (No. 1240432X now JC-172138 H), 01st Oct 1987.

Read—BHM Krishan Lal (No. 1240432X now JC-172139 H), 01st Oct 1987.

For—BHM Jagdev Singh (No. 1297202N now JC-172143) 01 Nov 1987.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10th Oct 1987 without effect on pay and allowances).

Read—BHM Jagdev Singh (No. 1297202N now JC-172143L), 01st Nov 1987.*

*(Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10th Oct 1987 without effect on pay and allowances).

For—BHM Hira Singh (No. 1277616N now JC-172148K), 06th Nov 1987.

Read—BQMh Hira Singh (No. 1277616N now JC-172148 K), 06th Nov 1987.

T. B. NAIR, Desk Officer